



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 468]

नई दिल्ली, बुधवार, अक्टूबर 19, 1983/अश्विन 27, 1905

No. 468]

NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 19, 1983/ASVINA 27, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

श्रम और पुनर्वास विभाग

(श्रम विभाग)

अधिमूचना

नई दिल्ली, 19 अक्टूबर, 1983

और उक्त राजपत्र 29 जून, 1983 को जनता को उपलब्ध करा
दिया गया था;

और केन्द्रीय सरकार ने उक्त प्रस्तावों की बाबत प्राप्त आक्षेपों और
सुझावों पर विचार कर दिया है;

का० आ० 749(अ) -- मजदूरों के निर्माण या अनुरक्षण अथवा
निर्माण संक्रियाओं में, (ii) पत्थर तोड़ने और पत्थर पीसने में, (iii)
ध्वनों के अनुरक्षण में, और (iv) धातु पर्वों के गन्तिर्माण और अन-
रक्षण में नियोजनों में नियोजित कर्मचारियों के प्रवर्ग को संघीय मजदूरी
की न्यूनतम दरों के पुनर्निर्माण के कनिष्ठ प्रस्ताव, न्यूनतम मजदूरी अधि-
नियम, 1948 (1948 का 11) की धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड
(ख) की अपेक्षातः भारत सरकार के श्रम और पुनर्वास मंत्रालय
(श्रम विभाग) की अधिमूचना संख्या का० आ० 481(अ), तारीख
29 जून, 1983 के अर्थात् भारत के राजपत्र, असाधारण भाग 2 खण्ड 3,
उपखण्ड (ii), तारीख 29 जून, 1983 में उन सभी व्यक्तियों की सूचना
के लिए प्रकाशित किया गया था। जिसमें प्रकाशन की तारीख से दो मास
की अवधि के अन्तर्गत तक उन व्यक्तियों से आशय बना सुझाव मांगे गए
थे जिनके उनसे प्रभावित होने की संभावना थी।

अतः केन्द्रीय सरकार, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का
11) की धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (iii) और धारा 5 की
उपधारा (2) के साथ पठित धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड 3
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार के श्रम
मंत्रालय की अधिमूचना संख्या का० आ० 619(अ) तारीख 26 अक्टूबर,
1982 को अधिकांश करने हुए, मन्त्रालय बोर्ड से परामर्श करने के
पश्चात्, हमने उपायद्वय अनुसूची के स्तम्भ (2) से (6) में यथा विनिर्दिष्ट
और उक्त अनुसूची के स्तम्भ (1) में तत्समस्त प्रविष्टियों में यथा
विनिर्दिष्ट मजदूरों के निर्माण या अनुरक्षण अथवा निर्माण संक्रियाओं, पत्थर
तोड़ने और पत्थर पीसने, ध्वनों के अनुरक्षण और धातु पर्वों के
गन्तिर्माण और अनुरक्षण में नियोजनों में नियोजित कर्मचारियों के प्रवर्ग
को संघीय मजदूरी की न्यूनतम दरों को पुनर्निर्माण करता है और निर्दिष्ट
कता है कि यह अधिमूचना राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी

अनुसूची

काम का प्रवर्ग

प्रतिदिन मजदूरी की सर्वसाधरी न्यूनतम दर

| क्षेत्र क | क्षेत्र ख-1 | क्षेत्र ख-2 | क्षेत्र ग | क्षेत्र घ |
|-----------|-------------|-------------|-----------|-----------|
| 1 | (2) | (3) | (4) | (5) |
| | ₹० पैसे | ₹० पैसे | ₹० पैसे | ₹० पैसे |

अकुशल :

(1) मजदूरी बिछाने वाले, (2) बेलदार वयस्क पुरुष/आवसी, वयस्क स्त्री/महिला, किशोर 12 वर्ष से ऊपर के लड़के, लड़कियों, बालक (3) बीटर महिला, (4) धोकीवाला (5) जरीबी (6) केबल (7) बास्ती वाला (8) वाहक (पन्थर) (9) वाहक (पानी) (10) गाड़ीवाला (11) केयरटेकर (पुल) (12) स्लीपर (जैन पथ राखने के लिए मिडर) (13) चौकीदार (14) कंक्रीट (हाथ से मिलाने वाला) (15) दफादार (16) चालक (दौल, ऊँट, गधा, खरबुर) (17) झंड़ीवाला (बैलास्ट ट्रेन) (18) द्वारपाल (19) गैंगमैन (20) गैंगमैन स्थायी पथ (21) रैडमैन (22) जम्परमैन (23) कमीन (महिला कार्य) (24) खलामी (25) खलामी आदमी/पुरुष/स्त्री/महिला; लड़के/लड़कियाँ I/II पुल बैलुग, गमुटी भोपला; तट भण्डार; स्टीम रोड रोलर; सर्वेक्षण (26) थर्मिक (भाग) (27) ब्रिड्जो वाला (28) माली (29) मजदूर (30) मजदूर (वयस्क पुरुष/नर, वयस्क महिला/नारी) (31) मजदूर किशोर 12 वर्ष की आयु से ऊपर के लड़के, लड़कियाँ, बालक-नारी प्रशिक्षित (32) पैट्रोल वाला (33) चपरासी (34) नलाशीकर्ता (35) मिगनल सैन (36) स्ट्राइकर (37) आदकर मोकलार्थिंग (38) स्ट्राइकर (40) दट्टो बाय (41) टाइल टर्नर (42) ट्राम्पी वाला (43) बाल्व निधवक (44) बाल्वमैन (45) संतरी (46) पानीवाला (47) मफेरी वाला (48) बुडरमैन (49) बुडरमैन (50) बोरीमैन (51) कोयले वाला (52) कंडेमेन परिधर (53) घास काटने वाला (54) मूछरे जमादार (55) स्विंगर (56) शटर (57) अन्य कोई भी प्रवर्ग जोकि अकुशल प्रकृति के हों चाहें वे किसी भी नाम से पुकारे जायें।

11.25 10.00 9.25 8.25 7.50

अर्द्धकुशल अकुशल पर्यवेक्षी :

(1) बेलवे वाला (2) भिण्डी (3) भिण्डी (मुष्क मजदूर) (4) नाब वाला (प्रधान) (5) भंजक (6) (भंजक) चट्टान, चट्टानी, पन्थर, प्रस्तर धातु, पन्थर (7) जैन बुनने वाला (8) जरीबी (प्रधान) (9) चारपाई कमने वाला (10) जांच पड़ताल कर्ता (11) चौकीदार प्रधान (12) येकर (13) दफतरी (14) डार्लमैन (15) डिलर (16) टिप्पर (डिड) चट्टान (17) चालक (स्कन) (18) उत्थनक (19) पैरो-वाला (20) फायरमैन (21) फायरमैन इंटी का भट्टा (स्टीम रोड रोलर) (22) द्वार रक्षक (23) धरामी (धेचर) (24) शीशेवाला (25) सीमर (26) सीमर गंध फायरमैन (27) शांडर (28) हथौड़े वाला (29) सहायक (कारी-गर) (30) सहायक आगक (31) जमादार (32) फी मैन (33) खलामी (प्रधान सर्वेक्षण, निवेदर्थ) सोपलगैंग (पर्यवेक्षक) (34) थर्मिक (चट्टान कर्त्ता) (35) लस्कर (36) माली (प्रधान) (37) भेट, (38) भेट लोहकार; महुक काष्ठकार, दूजन चालक और या फीटर, फिटर गैंग, खलामी, मजदूर राज स्थायी पथ, पम्प ट्राइवर, टर्नर (39) मजदूर (भाग वजन), चार्जमैन, मिर्खा प्रधान (40) मुकद्वय (41) राशि गार्ड (42) (क) तरकारा (शक) (43) तेलवाला (44) खदानकार (45) समदान प्रचालक (46) भंडारवाला (47) स्टोकर (48) स्टोकर (और बायलरमैन) (49) धेचर (50) थ्रैशमैन (स्पेकमी) (51) टिडल (52) ट्राम्पीमैन वाला प्रधान, (प्रधान मोटर) (53) फिटर सहायक (अर्द्धकुशल) (54) जमादार (अर्द्धकुशल) (55) भेट (भण्डार) (56) पम्प परिचर (57) वाहक (58) ब्रेकमैन (59) क्रोबारमैन (60) रसोइया (61) डाण्डी (62) फराश (63) हैममैन (64) सहायक (लोको जैन, टक) (65) कमाध (66) खलामी (संरक्षणात्मक) (67) प्रयोगशाला परिचर (68) माझी (नाब वाला) (69) मशालजी (70) पी० एम० सेटम (71) प्लाईवुड मैन (72) सीमरी (73) टोपाज (74) वीणकार (बड़े पन्थर तोड़ने वाला) (75) ट्राम्पी जमादार (76) विजमैन (77) सहायक बायलरमैन (78) अन्य कोई प्रवर्ग, (चाहें वे किसी भी नाम से पुकारे जायें, जो कि अर्द्धकुशल प्रकृति के हों)।

14.00 12.75 11.50 10.50 9.50

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

कुशल :

(1) गृहयुक्त मिश्री (2) आर्मेचर वाइंडर श्रेणी II और III (3) भंडारी (4) सोहकार (5) सोहानार (चयन श्रेणी, श्रेणी II और III वर्ग II और III प्रधान) (6) बायलरमैन (7) बायलरमैन श्रेणी II और III (8) बायलर फोरमैन श्रेणी II (9) कार्य (सहायक) (10) बिकलेयर (11) बिकलेयर (चयन श्रेणी, वर्ग II) (12) बिस्फोटक (13) काष्ठकार (14) काष्ठकार चयन श्रेणी, श्रेणी II और III वर्ग II और III गृहयुक्त बी० आई० एम० रोड (15) केबिनेट बनाने वाला (16) बैगवाला (17) सेलोटेक्सकटर मेकर (18) चार्जमैन वर्ग II और III (19) काष्ठकार साधारण (20) जीव पशुपाल कर्ता कनिष्ठ (21) चिक बनाने वाला (22) चिकवाला (23) कंसीट मिश्रण मिश्रक (24) कंसीट मिश्रक प्रचालक (25) मोर्चा (26) मोरल्सा निर्माता (27) आलक (28) आलक मोटर, यान, मोटर यान चयन श्रेणी—मोटर लारी, मोटर लारी श्रेणी-II डीजल इंजन, डीजल इंजन श्रेणी II, यांत्रिक मिश्रक, रोड रोलर आई० सी० और सीमेंट मिश्रक आदि रोड रोलर (29) रोड रोलर आलक श्रेणी II (30) चालक/इंजन पम्पर/स्टोन क्रशर, ट्रैक्टर, बुलडोजर, स्टोमरोड रोलर, जलपम्प यांत्रिक, सहायक रोड रोलर, यांत्रिक स्टीम जेत, बुलडोजर सहित ट्रैक्टर यांत्रिक, परिवहन इंजन, स्कीप और रोड रोलर बायलर परिवार इर्जात स्टेटिक (31) प्रचालन (स्टोन प्रार यांत्रिक) (32) डिस्टेंपर करने वाला (33) बिजली मिश्री (34) बिजली मिश्री (श्रेणी-II) वर्ग II, वर्ग III (35) फिटर (36) फिटर (चयन श्रेणी II, III, वर्ग II, III), सहायक पाइप, पाइप वर्ग II, पाइप लाइन कुशुक के लिए छड़े मोड़ना एय यांत्रिक, यांत्रिक और नलकार (प्लम्बर) (37) घरामी (प्रधान) (38) ग्लेजियर (39) बिस्फोटन के लिए छिद्र ड्रिलर (40) जायनर (41) जायनर (केबल श्रेणी II) (42) लाइन मैन (श्रेणी II, III, ए० टी०/ए० टी० डी० (43) राज (44) राज (चयन श्रेणी, श्रेणी II, और श्रेणी III, वर्ग II और III वर्ग II मिश्री, स्टोन, स्टोन वर्ग II ईट का काम, पत्थर का कार्य, ईट बिछाने वाला लेबर, टाइल-फ्लोरोिंग बी० टी० एम० मुक्कदम, प्रधान पत्थर कर्ता (साधारण) (45) मशीनी मिश्री (46) यांत्रिक (47) यांत्रिक, (वर्ग II बातानुकूलन, बातानुकूलन श्रेणी II, डीजल श्रेणी II, रोड रोलर श्रेणी II, सहायक रेडियो (48) राज (चरामी) (49) मिश्री (50) मिश्री श्रेणी II, बातानुकूलन श्रेणी II, स्थायी पक्, मबेक्षण संगराण, संकर्म (51) राज, वर्ग क (52) गांवागार (53) सांभागार (इंटरटाइल) (54) रंगमाज (55) रंगमाज (चयन श्रेणी II और III, वर्ग II गृहयुक्त लाटर और प, लिफ्टर, पाविशगर रक (56) प्लास्टरकर्ता (57) प्लास्टरकर्ता (राज श्रेणी II) (58) नयमाज (59) नयमाज (चयन श्रेणी, वर्ग II, सहायक ज्येष्ठ कनिष्ठ, मिश्री श्रेणी III (60) नयमाज मिश्री (61) नयमाज एवं फिटर (62) पाविशगर (63) पाविशगर (फर्ग) (64) पम्प चालक (65) पम्प चालक (चयन श्रेणी, श्रेणी II और III, वर्ग II) (66) पम्प इंजन चालक (67) पी०ई० चालक (68) पम्प वाला (69) पम्पवाला (सहायक) (70) पम्पर (71) पाविशगर (स्प्रे सहित) श्रेणी II (72) रंगमैन (73) रिबिटरकटर (सहायक) (74) रिबिटर (75) रिबिटरकटर (76) सड़क निर्देशक श्रेणी II (77) रेलवे प्लेटलेयर (78) राइ वाइंडर (79) आराकण (80) आराकण (चयन श्रेणी वर्ग II) (81) मेरु (82) मेरु पाइल इन्फेक्शन प्लेन्स बायलर सहित (83) मैनेजमेन्ट (84) पार, भारमाधक (85) स्प्रेमैन (86) स्प्रेमैन रोडम (87) संगतराण (88) संगतराण (चयन श्रेणी, श्रेणी II वर्ग II (89) स्टोन बिजलर (90) स्टोन बिजलर वर्ग II (91) पापण बिस्फोटक (92) उपआवरसिपर (अनहित) (93) सर्वेक्षक (94) सर्वेक्षक (सहायक) (95) वर्जी (96) वर्जी (पोणिश) (97) तार स्प्रेयर (98) तारमैन (99) लाइनमैन (100) टाइलर वर्ग II, दीवार, फर्ग, छतें, (101) टाइलर चयन श्रेणी (102) टेल-कर (103) टेलकर (चयन श्रेणी, श्रेणी II और III वर्ग II) (104) फ्लैंगर (105) टेलमैन (106) टर्मर (107) अपोलिणमाज (108) अपोलिणमाज (श्रेणी II और श्रेणी III) (109) रंगमाज स्प्रे वर्ग II, (110) काष्ठ कर्क चयन श्रेणी III, काष्ठ कर्क चयन श्रेणी (112) काष्ठ कर्क वर्ग II, (113) वर्क सरकार (114) सलाईगर (115) गैर-सलाईगर (116) सलाईगर वर्ग II, पुल कार्य, (117) कूप निष्पञ्जक (118) सकेदी वाला (119) सकेदी वाला, (चयन श्रेणी वर्ग II) (120) वायर मैन मिश्री (121) वायरमैन मिश्री, श्रेणी II और III, वर्ग I, यांत्रिक निष्पञ्ज, (122) सकेदी पुताई और और रंगीत पुताई वाला (123) वातिक औजार प्रचालक (124) प्रचालक (फिटर) (125) बोरमैन (126) बेधक (127) छिलाईदार (128) छिलाईदार एवं

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|
| पिसाईगार (129) रसायन (प्रधान) (130) ड्रिलर (कूप बंधन) (131) चालक (लॉको ट्रक) (132) बिजली मिस्री (सहायक) (133) यांत्रिक (नलकूप) (134) सिनेमा परियोजना क्लैम्प शील संपोषक, (135) मोटर वाहन (136) सौम्य प्रेषक (137) नावधानी (138) प्रचालक (बैबिंग संयंत्र) सिनेमा परियोजना क्लैम्प शील संपोषक फ्रेम, डेरिक डोजल, इंजन, डोजर, टैपराइन ड्रिल, डम्पर उखनक: फॉक लिफ्ट, जनिश, ग्रेडर ट्रैक ट्रैम्पर और पटरी तोड़ने वाला, लोडर, पम्प पाइप चालन, स्क्रैप्ट, स्क्रॉपिंग संयंत्र, शाबेल ट्रैक्टर वाइप्रेटर: सेन्सेयर, (139) रेल गार्ड (140) मरम्मत कर्ता (बैटरी) (141) शरपेर स्लोटर (142) स्प्रेंगर (अस्फाल्ट), (143) स्टेशन मास्टर (144) सर्वेक्षक (सिल्ट) (145) दस्तकार (146) सड़क निरीक्षक (147) टर्नर/मिलर (148) टायरबालकेनाइजर, (149) कोई अन्य प्रवर्ग चाहें वे किसी भी नाम से पुकारे जाएं जो कि कुशल प्रकृति के हों | 17.75 | 16.25 | 14.50 | 13.50 | 12.00 |

अतिरिक्त कुशल:

(1) आर्नेचर बाइंडर श्रेणी I, (2) लौहकार श्रेणी I और वर्ग I (3) वायलरमैन श्रेणी I (4) वायलर मैनफोर्मरमैन श्रेणी I (5) ईट बिछाने वाला वर्ग I (6) कचल सयोजक श्रेणी I (7) काष्ठकार श्रेणी I और वर्ग I (8) सेलॉटैक्स कटर और गजालक-कर्ता (9) बार्नेमैन वर्ग I (10) जाल पड़ताल कर्ता (ज्येष्ठ) (11) चालक लारी, श्रेणी I, मोटर लारी श्रेणी I मोटर घान वर्ग I और डोजल इंजन श्रेणी I, रोडगानर श्रेणी I, पम्प श्रेणी I वर्ग I, (12) बिजली मिस्री श्रेणी I और वर्ग I (13) फिट्टर श्रेणी I, वर्ग I पाइप वर्ग I (प्रधान) (14) फॉर्मर (सहायक) (15) लाइनमैन श्रेणी I (16) राज (कुशल श्रेणी I, वर्ग I) (17) मास्टरगिरि, यांत्रिक वर्ग I और वर्ग II, (18) यांत्रिक (प्रधान) या बिजली मिस्री (19) यांत्रिक (डोजन) श्रेणी I, रोड रोलर श्रेणी I वातानुकूलन श्रेणी I वर्ग I वातानुकूलन (20) मिस्त्री श्रेणी I, (21) मिस्त्री वातानुकूलन श्रेणी I (22) ओवर मिस्त्री (23) ओवरमिस्त्री (ज्येष्ठ और कनिष्ठ) (24) रंगसाज श्रेणी I, वर्ग I (स्त्री) (25) प्लास्टर कर्ता (मिस्त्री) वर्ग I, (26) नलसाज (प्रधान) वर्ग I मिस्री श्रेणी I (27) आराकण वर्ग I (28) संगतराश वर्ग I (29) संगतराश श्रेणी I (30) स्टोन बिजलर वर्ग I (31) पाषाण मिस्री वर्ग I, (32) उप-ओवरसियर (अहित) (33) टाइलर वर्ग I (34) टोनकार श्रेणी I और वर्ग I, (35) पोलिशसाज श्रेणी I (36) वाणिज्यकार वर्ग I (37) सलाईगर एवं फिट्टर और वातानुकूलित यांत्रिक (38) सलाइक सलाईगर (गेम) वर्ग I, (39) सफेदी वाला वर्ग I (40) वायरमैन श्रेणी I वर्ग I (41) काष्ठकर्ता वर्ग I (42) पिसाईकार और श्रेणी I (43) प्रचालक बैबिंग प्रचालक श्रेणी I, क्लैम्प शील श्रेणी I, संपोषित श्रेणी I, फ्रेम श्रेणी I, डोजल इंजन श्रेणी I, ड्रिल श्रेणी I डम्पर श्रेणी I, उखनक श्रेणी I, फोके लिफ्ट श्रेणी I, जनिश श्रेणी I स्केयर श्रेणी I, स्क्रॉपिंग संयंत्र श्रेणी I, शाबेल श्रेणी I, शाबेल और ड्रैगलाइन ट्रेक्टर श्रेणी I, बाइप्रेटर श्रेणी I, रिपर श्रेणी I, रिपर श्रेणी II, (44) शरपेर/स्लोटर श्रेणी I, (45) दस्तकार वर्ग I (46) टर्नर/मिलर श्रेणी I (47) टायर बालकेनाइजर श्रेणी I, (48) सड़क निरीक्षक श्रेणी I (49) स्वायर वर्ग I, (50) कार्य (सहायक) श्रेणी I (51) कोई अन्य प्रवर्ग जो अतिरिक्त कुशल प्रकृति के हैं चाहें किसी भी नाम से पुकारे जाएं

22.25 20.25 18.50 16.50 15.25

लिपिकीय:

(1) एम० सी० लिपिक (2) मुंशी (मैट्रिकुलेट, नान-मैट्रिकुलेट) (3) भण्डार लिपिक (मैट्रिकुलेट, नान मैट्रिकुलेट) (4) भण्डार निगमकर्ता (5) भण्डार रक्षक (6) भण्डार रक्षक (श्रेणी I, II) मैट्रिकुलेट, नान-मैट्रिकुलेट (7) मिलान लिपिक (8) समय पाल (9) समयपाल मैट्रिकुलेट, नान-मैट्रिकुलेट (10) ओजार कोषर, I (11) कार्य-मुंशी (12) कार्य मुंशी (अधीनस्थ) (13) लेख लिपिक (14) लिपिक (15) संगणक (16) टेलीफोन प्रचालक (17) टंक (18) कोई अन्य प्रवर्ग, चाहें जिस नाम से पुकारे जाएं जो कि लिपिकीय प्रकृति के हों

17.75 16.25 14.50 13.50 12.00

स्पष्टीकरण-इस अधिसूचना के प्रयोजनार्थ-

(1) (क) क्षेत्र क, ख-1, ख-2 और ग में इस अधिसूचना के उपबन्ध 1 में यथा विनिर्दिष्ट सभी स्थान समाविष्ट हैं जिनमें नगर निगम या नगरपालिका या छावनी बोर्ड तथा किसी स्थान विशेष की अधिसूचित क्षेत्र समिति की परिधि से आठ किलोमीटर की दूरी के भीतर आने वाले

सभी स्थान सम्मिलित हैं; और क्षेत्र "घ" में वे सभी स्थान हैं जो क, ख-1 ख-2 और ग क्षेत्रों में सम्मिलित नहीं हैं;

(ख) केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को न० प्र० धन के संदाय के प्रयोजन के लिए वित्त मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जोड़े गए या

ऊँचा क्षेत्रों में लागू हुए स्थान को भी उपग्रह में विनिर्दिष्ट वर्गीकरण के प्रयोजन के लिए उन्हीं तारीखों से जोड़ा गया समझा जाएगा।

(2) "घ" वर्ग क्षेत्रों में जहाँ न्यूनतम मजदूरी क्षेत्र वार आधार पर नियत की गई है और जहाँ केन्द्रीय सरकार ने सर्वोच्च या पर्वतीय भूमा या किसी अन्य विशेष अने का संदाय मंजूर किया है, सड़कों के निर्माण या अनुरक्षण या निर्माण संक्रियाओं, पत्थर तोड़ने और पत्थर पीसने, भवनों के अनुरक्षण और धातु पथों के सन्निर्माण और अनुरक्षण में नियोजित कर्मचारियों को उन्हें देय न्यूनतम मजदूरी के अतिरिक्त अधिनियम के अधीन नियत या पुनर्व्यक्त न्यूनतम मजदूरी से दस प्रतिशत अधिक संवत्त किया जाएगा।

(3) जहाँ किसी क्षेत्र में इस अधिसूचना द्वारा नियत की गई मजदूरी का न्यूनतम वर राज्य सरकारों द्वारा सड़कों के निर्माण या अनुरक्षण या निर्माण संक्रियाओं, पत्थर तोड़ने और पत्थर पीसने, भवनों के अनुरक्षण और धातु पथों के सन्निर्माण और अनुरक्षण में नियोजित कर्मचारियों के लिए जिनके संबंध में राज्य सरकार समुचित सरकार है नियत की गई मजदूरी की न्यूनतम दरों से कम है वहाँ उन क्षेत्रों को बावत इस अधिसूचना के अधीन राज्य सरकारों द्वारा नियत की गई मजदूरी ही मंदाय होंगी।

(4) गुरुण-कार्य में काम करने वाले कर्मचारियों को इस अधिसूचना के अधीन समुचित प्रवर्गों के लिए नियत की गई न्यूनतम मजदूरी के अतिरिक्त 20 प्रतिशत और संवत्त किया जाएगा।

(5) (क) "अकुशल कार्य" से वह कार्य अभिप्रेत है जिसमें बहुत थोड़ी या कुछ भी कुशलता या कार्य या अनुभव अपेक्षित न करने वालों साधारण क्रियाएँ सम्मिलित हैं;

(ख) "अर्द्ध-कुशल कार्य" से वह कार्य अभिप्रेत है जिसमें कार्य के अनुभव से अर्जित कुछ मात्रा में कुशलता या मक्षमता सम्मिलित है और जो कुशल कर्मचारों के पर्यवेक्षण या मार्ग-दर्शन के अर्जित किए जाने योग्य है और इसके अंतर्गत अकुशल पर्यवेक्षी कार्य भी आता है;

(ग) "कुशल कार्य" से वह कार्य अभिप्रेत है जिसमें कार्य के अनुभव से अथवा शिक्षा के रूप में या किसी तकनीकी या व्यावसायिक संस्था में प्रशिक्षण के माध्यम से अर्जित कुशलता या मक्षमता अपेक्षित है और जिसके पानन में स्पष्टरेणा और विवेक बुद्धि आवश्यक है;

(घ) "अत्यधिक कुशल कार्य" से ऐसा कार्य अभिप्रेत है जिसे करने के लिए सघन तकनीकी या वृत्तिक प्रशिक्षण या कई वर्षों के व्यावहारिक कार्य अनुभव से अर्जित उच्चतर को पूर्णता और मक्षमता की आवश्यकता होती है और कर्मकार से यह अपेक्षा की जाती है कि वह इन कार्यों के निष्पादन की वाक्म किए जाने वाले निर्णयों या विनिश्चयों के लिए पूरी जिम्मेदारी ले।

(6) इस अधिसूचना द्वारा नियत की गई मजदूरी की न्यूनतम दरें डेकेदारों द्वारा नियोजित कर्मचारियों को भी लागू होंगी।

(7) मजदूरी को न्यूनतम दरें सर्वसामान्येशी दरें हैं और उसमें विधायन के साप्ताहिक विवरण के लिए मजदूरी भी सम्मिलित है।

(8) 18 वर्ष से कम आयु वाले युवा व्यक्तियों और निःशक्त व्यक्तियों के लिए मजदूरी की न्यूनतम दरें इस अधिसूचना द्वारा समुचित प्रवर्ग के व्यवस्था कर्मकार के लिए नियत की गई दरों का क्रमशः 80 और 100 प्रतिशत होंगी।

अनुसूच-1

| राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों का नाम | नगरों | | | उपनगरों का वर्ग |
|-------------------------------------|----------|---|---|---|
| | क | ख | ख-2 | ग |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| भारत प्रदेश | हैदराबाद | — | विजयवाड़ा (वैजयवाड़ा) विशाखापत्तनम (विजयापट्टम) | अदोली, अंकापल्ले अर्नेतपुर (वान्दार मैसोमी पत्तनम) भीमावरम, विराया, चित्तूर कुड्डापट्ट, एलरु, गुडी- बड्डा, गुड्डा-कल, गुंतूर काकीनाडा, करीमनगर, खम्मम, कोथागुडम, करनूल, महबूबनगर, नंदमाल, नैलोर, निजामाबाद, ओगोल, ओसातुर, राजाहमुन्दरी, श्रीकाकुलम, तैनाली, तिरुपति, विजयपुरी, विजयानगरम, वारंगल। |
| भ्रसम | — | — | गोहाटी | — |
| बिहार | — | — | पटना, घनबाद, जमशेदपुर | आरा, बेतिया, भागलपुर, बिहार-शरीफ, बोकारो, इस्लामनगर, छपरा, दरभंगा, दानापुर, गया, हजारी- बाग, कटिहार, मंगेर, जमालपुर, मुजफ्फरपुर, मुर्शिदा, रांछी |
| चण्डीगढ़ | — | — | — | चण्डीगढ़ |
| दिल्ली | दिल्ली | — | — | — |
| गुजरात | अहमदाबाद | — | सुरत, बड़ोदरा (बड़ोदा) भावनगर राजकोट | धानद, भूज, भड़ोच, कैम्बे, धोराजी, गांधरी, गांडव जावनगर, जूनागढ़, कलोल, महमाला, मोरवी, नादि- याद, नवमारी, पाटन, पोरबंदर, सुरेन्द्रनगर, वेरावल। |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---------------|---------|---|---|--|
| हरियाणा | — | — | — | ग्रम्बावा, भिवानी, फरीदाबाद, गूडगांव, हिसार, करनाल, कैथल, पानीपत, रोहतक, मिरसा, सोनीपत, यमुना-नगर । |
| जम्मू-काश्मीर | — | — | श्रीनगर, जम्मू | — |
| कर्नाटक | बेंगलूर | — | हुबली, धारवाड़ मैसूर | बागलकोट, बैलगांव, बेलारी, भद्रावती, बिद्वार, बीजा-पुर, चिन्नशुंग, दोवनगिरि, गडग-बेतगांव, गूलबर्ग, हसन, होस्पेट, कोलार-स्वर्ण क्षेत्र, मांड्या, मंगलूर, रायचूर, शिमोगा, टुमकूर । |
| केरल | — | — | कोचीन, त्रिवेंद्रम, आनबे, कार्ताकट (कोजी-कांड) | अलेप्पी, बाडागारा, कन्नानूर, चंगनाचेरी, कायम कुलम, कोट्टयम, पालघाट, तेलीचेरी, त्रिचूर, विन्नलोन । |
| मध्य-प्रदेश | — | इंदौर जबलपुर | ग्वालियर, (लखर) भिलाई भोगान | बिलासपुर, बुरहानपुर, छिंदवाड़ा, दमोढ़, देवास, दुर्ग, इंदारसी, खंडवा, मंदसौर, मण्डोबा, मूडबारा, सूरीना, रायपुर, नीमच, रायगढ़, रतलाम, रीवा, सागर, सतना, उज्जैन, विदिशा । |
| महाराष्ट्र | मुम्बई | — | नागपुर, पिम्परी-शोलापुर छिंदवाड़ा, नासिक, पुणे | अमलपुर उपनगर समूह, अहमदाबाद, अकोला, अमलनेर, अम्बरनाथ, अमरावती, औरंगाबाद, बारसी, भिवंडी, भुसावल, चाश, चंद्रपुर, धुलिया, डोम्बोवली, गोंदिया, हजूरकरगंज, जलगांव, जालना, कल्याण, कैमटी, खामगांव, कोल्हापुर, लातूर, मरवगांव, नांदेड़, नंदुरबार, नासिक मार्ग, देवनाली, पंढरपुर परभनी, सांगली, मिराज, मतारा, उल्हासनगर, योतमात, वधो । |
| उड़ीसा | — | — | राउरकेला | बालासोर, बिहरामपुर, भुवनेश्वर, कटक, पुरी, सम्बलपुर |
| पांडिचेरी | — | — | — | पांडिचेरी |
| पंजाब | — | — | अमृतसर लुधियाना | अंबोहर, बटासा, भटिंडा, फिरोजपुर, हंशियापुर, जालंधर, मलेर-कोटला, मोगा, पठानकोट, पटियाला, फगवाड़ा । |
| राजस्थान | — | जयपुर | अजमेर | अलवर, अम्बर, भरतपुर, बीलवाड़ा, बीकानेर, चुरू-गंगानगर, जोधपुर, कोटा, सीकर, टांक, उदयपुर । |
| तमिलनाडु | मद्रास | कोयम्बतूर मदुराई | सलेम, तिरुचिरापल्ली, (त्रिचिनोपोली) | अम्बूर, अन्नाकोटाई, बिदामबरम, बोवो नायकनूर, कडापो डिडीगुल, इरोड, गुडियाथम-कडायानल्लूर, कांचीपुरम, कराई कुडी, करूर, कुम्भ-कोनम, मथुरम, कोविलयट्टी, मेट्ट्या-पालयम, माय, पट्टीनम, नगर-कोडल, पलायमकोटाई, पोलच्ची, पुडुकोटाई, राजापलयम, निवाकाणी, श्रीरंगम, श्री बिलीपुसुर, ताम्बरम, तंबवूर, (तंजोर) छिडीवनम, तिरुनेलवेली, तिरुमूर, तिरु-वन्नामलाई, तुतीकोरिन, थालपराई, वनियाम्बाडी, बैलोर, बिल्पुरम, बिरु-नगर । |
| उत्तर-प्रदेश | — | कासपुर लखनऊ, आगरा इलाहाबाद बाराबंसी (बनारस) | मेरठ | अलीगढ़, (कोयल अलीगढ़) अमराहा, बालिया, बहराष्ट, बांवा, बरेली, बस्ती, बदायूं, बुलन्दशहर, चंदौसी, देहरादून, इटावा, फैजाबाद एवं अयोध्या, फर्रुखाबाद एवं फतेहगढ़, फतेहपुर, फिरोजाबाद, गाजियाबाद, गाजीपूर, मोहा, गोरखपुर, हल्द्वानी एवं काठ-गोबाम, हापुड़, हरदोई, हरिद्वार, हाथरस, जौनपुर, झांसी, बुर्जा, काशीगंज, मथुरा, मउनाथ भंजन, मिर्जापुर, मुरादबाद, मुजफ्फर नगर, पीलीभीत, |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|-----------------------|-----|-------------------|-----|---|
| | | | | रामपुर, रङ्गी, महारनपुर, सम्भल, शाहजहाँपुर, मोतापुर । |
| पश्चिमी बंगाल कलकत्ता | — | आसनसोल, दुर्गापुर | | धेधवती, बानी, बनगाँव, बंकुरा, बामवेरिया, बैरघपुर, बशीरहट, बैरहानपुर, भाटापारा, बज-बाज, बर्दवान, बकलुडा, चम्पदानी, चन्दर नगर, कूचबिहार, इंगलिश बाजार, हाथी-शहर, हुगली, बिनसुरा, जलपाईगुडी, कमरुद्दी, कंचनपारा, खडगपुर, कुष्मानगर, मिर्जापुर, नवाबदीप, नहाटी, उत्तरी बमदम, पानीहाटी, पुरलिया, रानाघाट, रिझरा, शालिपुर, सेरामपूर, सिस्तीगुडी, टीटागढ़, उत्तरपारा, कोटरंग । |
| गोवा, दमन और दीव | — | गोवा, मरमूगोवा | --- | |

[संख्या एस-32019/6/83-इन्फू० सी०(एम०इन्फू)]

MINISTRY OF LABOUR AND REHABILITATION

(Department of Labour)

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th October, 1983

S.O. 749(E).—Whereas certain proposals to revise the minimum rates of wages payable to the categories of employees employed in the employments (i) in the construction or maintenance of roads or in building operations (ii) in stone breaking or stone crushing (iii) in the maintenance of buildings and (iv) in the construction and maintenance of runways were published as required by clause (b) of sub-section (1) of section 5 of the Minimum Wages Act, 1948 (11 of 1948) in the Gazette of India, Extraordinary Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 29th June, 1983 under the notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Rehabilitation (Department of Labour) No. S.O. 481(E) dated the 29th June, 1983 for the information and inviting objections and suggestions from the persons likely to be affected thereby till the expiry of the period of two months from the date of publication;

And whereas, the said Gazette was made available to the public on the 29th June, 1983;

And whereas, the objection and suggestions received on the said proposals have been considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (b) of Sub-section (1) of section 3 read with clause (iii) of sub-section (1) of section 4 and sub-section (2) of section 5 of the Minimum Wages Act, 1948 (11 of 1948), and in supersession of notification of the Government of India in the Ministry of Labour number S.O. 619(E) dated the 26th August, 1982, the Central Government after consulting the Advisory Board revises the minimum rates of wages as specified in column (2) to (6) of the Schedule annexed hereto, payable to the categories of employees employed in employments in the construction or maintenance of roads or in building operations, in stone breaking or stone crushing, in the maintenance of buildings; and in the construction and maintenance of runways as specified in the corresponding entries in column (1) of the said Schedule and directs that this notification shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

SCHEDULE

| Category of work | All inclusive minimum rates of wages per day | | | | |
|------------------|--|----------|----------|--------|--------|
| | Area A | Area B-1 | Area B-2 | Area C | Area D |
| | Rs. P. | Rs. P. | Rs. P. | Rs. P. | Rs. P. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

UNSKILLED

(1) Bajri Spreader (2) Beldar (Adult Male/Female; Adolescent/Boys above 12 years, Girls; Child) (3) Beater Woman (4) Bellowman (5) Chain Man (6) Boat Man (7) Bucket Man

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--|-------|-------|------|------|------|
| (8) Carrier (Stone) (9) Carrier (Water) (10) Cart Man (11) Caretaker (Bridge) (12) Cleaner (Crane Track; Cinder for Ash Pit) (13) Chowkidar (14) Concrete (Hand Mixer) (15) Daffadar (16) Driver (Bullock; Camel, Donkey, Mule) (17) Flag Man (18) Flagman (Blast Train) (19) Gate Man (20) Gangman (21) Gang Man (Permanent Way) (12) Handle Man (23) Jumper Man (24) Kamin (Female Work) (25) Khalasi (26) Khalasi (Man/Male; Woman/Female; Boys/Girls; 1/II; Bridge; Electrical; Marine; Moplah; Shore; Store; Steam Road Roller; Survey) (27) Labourer (Garden) (28) Lamp Man (29) Mali (30) Mazdoor (31) Mazdoor (Adult Male/Man; Adult Female/Women) (32) Mazdoor (Adolescent/Boys above 12 years age; Girls; Child; Lorry; Trained) (33) Petrolman (34) Peon (35) Searcher (36) Signal Man (37) Strikers (38) Striker (Moplah Gang) (39) Sweeper (40) Tatti Boy (41) Tile Turner (42) Trolley Man (43) Valve Controller (44) Valveman (45) Watchman (46) Waterman (47) White Washer (48) Wooderman (49) Wooder Women (50) Borryman (51) Coal man (42) Condenser Attendant (53) Grass Cutter (54) Muchhars Jamadars (55) Slingers (56) Shunters (57) Any other Categories by whatever name called which are of an unskilled nature | 11.25 | 10.00 | 9.25 | 8.25 | 7.50 |

SEMI-SKILLED/UNSKILLED SUPERVISORY

| | | | | | |
|--|-------|-------|-------|-------|------|
| (1) Belchawala (2) Bhisti (3) Bhisti (with Mushk) (4) Boatman (Head) (5) Breaker (6) Breaker (Rock); Rock Stone; Stone Metal; Stone? (7) Cane Weaver (8) Chain Man (Head) (9) Charpoy Stringer (10) Checker (11) Chowkidar (Head) (12) Cracker (13) Dafti (14) Dollyman (15) Driller (16) Driller (Hole; Rock) (17) Driver (skin) (18) Excavator (19) Ferreoman (20) Fireman (21) Fireman (Brick Kiln; Steam Road Roller) (22) Gate Keeper (23) Gharami (Thatcher) (24) Glass Man (25) Greaser (26) Greaser-cum-fireman (27) Grinder (28) Hammerman (29) Helper (Artisan) (30) Helper (Sawyer) (31) Jamadar (32) Keyman (33) Khalasi (Head Survey; Rivetters-Moplah Gang; Supervisor) (34) Labourer (Rock-cutting) (35) Lascar (36) Mali (Head) (37) Mate (38) Mate (Blacksmith; Road; Carpenter; Engine Driver and or Feeder; Fitter; Gang; Khalasi; Mazdoor, Mason; Permanent Way; Pump-Driver; Turner) (39) Mazdoor (Heavy-Weight; Charge-Man; Mistri; Head) (40) Muccadam (41) Night Guard (41 A) Runner (Post dak) (42) Oil Man (43) Quarry Man (44) Quarry Operator (45) Store Man (46) Stocker (47) Thatcher (48) Stocker and boilerman (4) Thoombaman (Spade Worker) (50) Tindals (51) Trolleyman (Head; Motor) (52) Fitter (Asstt. Semi-skilled) (53) Jamadar (Semi-skilled) (54) Mate (Store) (55) Pump Attendant (56) Bearer (57) Breaksman (58) Crowber Man (59) Cook (60) Dandee (61) Farash (62) Hacksaw Man (63) Helper (Locco-Crane/Truck) (64) Kasab (65) Khalasi (Structural) (66) Laboratory Boy (67) Manjee (Boatman) (68) Masalchi (69) P.M. Mates (70) Pointsman (71) Seacummy (72) Topaz (73) Topkar (Big Stone Breaker) (74) Trolley Jamadar (75) Winchman (76) Asstt. Wireman (77) Any other categories by whatever name called which are of a semi skilled nature | 14.00 | 12.75 | 11.50 | 10.50 | 9.50 |
|--|-------|-------|-------|-------|------|

SKILLED

| |
|--|
| (1) Asstt. Mistry (2) Armature Winder Grade II and III (3) Bhandari (4) Blacksmith (5) Blacksmith (Selection Grade; Grade II; III; Class II & III; Head) (6) Boilerman (7) Boiler man Grade II and III (8) Boiler Foreman Grade II (9) Work (Asstt.) (10) Brick Layer (11) Bricklayer (Selection Grade; Class II) (12) Blasterer (13) Carpenter (14) Carpenter (Selection Grade; Grade II & III; Class I and III; Assistant; B.I.M. Road) (15) Cabinet Maker (16) Caneman (17) Celotux Cutter Maker (18) Chargeman Class II; and Class III (19) Carpenter (Ordinary) (20) Checker (Junior) (21) Chick maker (22) Chick Man (23) Concrete Mixture Mixer (24) Concrete Mixer Operator (25) Cobbler (26) Coremaker (27) Driver (28) Driver (Motor; Vehicle; Motor Vehicle Selection Grade; Motor Lorry; Motor Lorry Grade II; Lorry; Lorry Grade II; Diesel Engine; Diesel Engine Grade II; Mixer Mechanical; Road Roller I.C. and Cement Mixer etc. Road Roller) (29) Road Roller Driver Grade II (30) Driver (Engine Static; Stone Crusher; Tractor-/Bull Dozer; Steam Road Roller; Water Pump Mechanical; Steam Crane; Assistant Road Roller; Mechanical; Tractor with Bull Dozer Mechanical Transport; Engine; Static & Road Roller; Boiler Attendant; Engine) (31) Operator (Stone Crusher Mechanical) (32) Distemperer (33) Electrician (34) Electrician (Grade II; Class II; Class III) (35) Fitter (36) Fitter (Selection Grade; Grade II; III; Class II; III; Assistant; Pipe; Pipe Class II; Pipe Line; Bending Bars for reinforcement cum-Mechanic; Mechanic & Plumber) (37) Gharami (Head) (38) Glazier (39) Hole Driller for Blasting (40) Joner (41) Joiner (Cable; Grade II) (42) Line Man (Grade II; III; HT/LT) (43) Mason (44) Mason (Selection Grade; Grade II and III; Class II and III; Class B Mistry; Stone; Stone Class II; Brick Work; Stone Work; Bricklayer; Tile Flooring; B.I.M.; Muccadam; Head; Stone Cutting; Ordinary) (45) Machinist (46) Mechanic (47) Mechanic (Class II; Air Conditioning; Air Conditioning Grade II; Diesel Grade II; Road Roller |
|--|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|
| Grade II; Assistant; Radio) (48) Masson (Gharami) (49) Mistry (50) Mistry (Grade II); Airconditioning Grade II P. Way; Survey; Santras; Works) (51) Mason Class A (52) Moulder (53) Moulder (Brick; Tile) (54) Painter (55) Painter (Selection Grade : Grade II and III; Class II; Assistant; Lotter; and Polisher; Polisher; Rough) (56) Plasterer (57) Plasterer (Mason Grade II) (58) Plumber (59) Plumber (Selection Grade; Class II; Assistant Senior; Junior; Mistry Grade II; (60) Plumbing Mistry (61) Plumber-cum fitter (62) Polisher (63) Polisher (Floor) (64) Pump Driver (65) Pump Driver (Selection Grade; Grade II and III; Class II) (66) Pump Driver (Selection Grade: (67) P.E. Driver (68) Pump Man (69) Pump Man (Asstt.) (70) Pumper (71) Polisher (with spray Grade II (72) Ratan Man (73) Rivet Cutter (Asstt.) (74) Rivetter (75) Rivetter (Cutter) (76) Road Inspector Grade II (77) Railway Plate Layer (78) Rod Binder (79) Sawyer (80) Sawyer (Selection Grade Class II) (81) Serang (82) Serangpile Driving Pantooms with Boiler (83) Shapsman (84) Shift-in-charge (85) Sprayman (86) Sprayman (Roads) (87) Stone Cutter (88) Stone Cutter (Selection Grade; Grade II; Class II) (89) Stone Chisler (90) Stone Chisler (Class II) (91) Stone Blasterer (92) Sub-Overseer (unqualified) (93) Surveyors (94) Surveyors (Asstt.) (95) Tailor (96) Tailor (upholstry) (97) Tar Sprayer (98) Tar man (99) Line Man (100) Tiler Class II; Wall; Floor; Roof) (101) Tiler (Selection Grade) (102) Tine Smith (103) Tin Smith (Selection Grade : Grade II; and III; Class II) (104) Tinker (105) Trailers (106) Turner (107) Upholsterer (108) Upholsterer (Grade II and III) (109) Painter Spray Class II (110) Wood Cutter (111) Wood Cutter Selection Grade (112) Wood Cutter Class II (113) Work Sircar (114) Welder (115) Welder Gas (116) Welder (Class II; Bridge Work) (117) Well Sinker (118) White Washer (119) White Washer (Selection Grade; Class II) (120) Wireman (121) Wireman (Grade II & III; Class I; Mechanic; Electrical) (122) White Washing & Colour Washing Man (123) Operator Pneumatic Tools (124) Operator (Fitter) (125) Boreman (126) Borer (127) Chipper (128) Chipper-cum-Grinder (129) Cook (Head); (130) Driller; (Well-Boring) (131) Driver (Loco/Truck) (132) Electrician (Asstt.) (133) Mechanic (Tube-well) (134) Mistry (Steel; Tube-well; Telephone) (135) Meter Reader (136) Metrological Observer (137) Navghani (138) Operator (Batching Plant; Cinema Project; Clamp Shelf; Compressor; Grane Dorrick; Diesel Engine; Doser; Dragline; Drill; Dumper; Excavator; Fork Lift; Generator; Grader; Jack hammer and pavement breaker Loader; Pump; Pile Driving; Scraper; Screening Plant Shovel; Tractor; Vibrator; Weight Batchter (139) Railway Guards (140) Repairer (Battery) (141) Sharper/Slotter (142) Sprayer (Asphalt) (143) Station Master (144) Surveyor (Silt) (145) Tradesman (146) Train Examiner (147) Turner/Miller (148) Tyre Vulcaniser (149) Any other categories by whatever name called which are of a skilled nature | 17.75 | 16.25 | 14.50 | 13.50 | 12.00 |

Highly Skilled

| | | | | | |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|
| (1) Armature Winder Grade I (2) Blacksmith Grade I and Class I (3) Boilerman Grade I (4) Boilerman Foreman Grade I (5) Brick Layer Class I (6) Cable Joiner Grade I (7) Carpenter Grade I and Class I (8) Celotex Cutter and Decortor (9) Chargeman Class I (10) Checker (Senior) (11) Driver Lorry Grade I; Motor Lorry Grade I; Motor Vehicle Class I and Diesel Engine Grade I; Road Roller Grade I; Pump Grade I; Pump Class I (12) Electrician Grade I and Class I (13) Fitter (Grade I; Class I; Pipe Class I; (Head); (14) Foreman (Asstt.) (15) Line Man Grade I (16) Mason (Skilled Grade I; Class I) (17) Mast Rigger Mechanic Class I and Class II (18) Mechanic (Head) or Electrician (19) Mechanic (Diesel) Grade I; Road Roller Grade I; Airconditioning Grade I; Class I; Air Conditioning (20) Mistry Grade I (21) Mistry (Airconditioning Grade I) (22) Overseer (23) Overseer (Senior & Junior) (24) Painter (Grade I; Class I; Spray) (25) Plasterer (Mason) Class I (26) Plumber (Head Class I; Mistry Grade I) (27) Polisher (with spray) Grade I (28) Road Inspector Grade I (29) Sawyer Class I (30) Stone Cutter Class I (31) Stone Cutter Gr. I (32) Stone Chisler Class I (33) Stone Mason Class I (34) Sub-Overseer (Qualified) (35) Tiler Class I (36) Tinsmith Grade I and Class I (37) Upholsterer Grade I (38) Varnisher Class I (39) Welder-cum-Fitter and Air Conditioning Mechanic (40) Welder (Gas) Class I (41) White Washer Class I (42) Wireman Grade I; Class I (43) Wood Cutter Class I (44) Grinder (Tool) Grade I (45) Operator (Batching Plant Grade I; Clamp Shell Grade I; Compressor Gr. I; Crane Gr. I; Diesel Engine Gr. I; Doser Gr. I; Dragline Gr. I; Drill Gr. I; Dumper Gr. I; Excavator Gr. I; Fork Lift Gr. I; Generator Gr. I; Grader Gr. I; Loader Gr. I; Pile Driving Gr. I; Pump Gr. I; Scraper Gr. I; Screening Plant Gr. I; Shovel Gr. I; Shovel & Dragline; Tractor Gr. I; Vibrator Gr. I; Rigger Gr. I; Rigger Gr. II) (46) Sharper/Slotter Gr. I (47) Tradesman Class I (48) Turner/Miller Gr. I (49) Tyre Vulcaniser Gr. I (50) Work (Asstt.) Gr. I (51) Any other categories by whatever name called which are of a highly skilled nature | 22.25 | 20.25 | 18.50 | 16.50 | 15.25 |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|

Clerical

- (1) M.C. Clerk (Munshi) (Matriculate; non-Matriculate) (3) Store Clerks (4) Store issuer (5) Store Keeper (6) Store Keeper (Gr. I; Gr. II; Matriculate II; Non-Matriculate) (7) Tally

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|
| Clerk (8) Time Keeper (9) Time Keeper (Matriculate; Non-Matriculate) (10) Tool Keeper (11) Work Munshi (12) Work Munshi (Subordinate) (13) Accounts Clerk (14) Clerks (15) Computer; (16) Telephone Operator (17) Typists (18) Any other categories by whatever name called which are of a clerical nature. | 17.75 | 16.25 | 14.50 | 13.50 | 12.00 |

Explanation :—For the purpose of this notification :—

(1) (a).—Area A, B-1, B-2 and C shall comprise all places as specified in the Annexure I to this notification including all places within a distance of eight kilometres from the periphery of the Municipal Corporation or Municipality or Cantonment Board, Notified Area Committee of particular place; and Area 'D' shall comprise all the places not included in Areas A, B-1, B-2 and C.

(b) The places added or upgraded from time to time by the Ministry of Finance for the purpose of payment of city compensation allowance to Central Government employees shall also be taken to be added from such dates for the purpose of classification specified in the annexure.

2. Employees employed in the employments in the construction or maintenance of roads or in building operations, in stone breaking and stone crushing, in the maintenance of buildings and in the construction and maintenance of runways, in D class areas, where the minimum rates of wages have been fixed on area-wise basis and where the Central Government has sanctioned payment of winter allowance or hill allowance or any other special allowance, shall be paid, in addition to the minimum rates of wages fixed by this notification, an amount equal to 10 per cent of the minimum rates of wages so fixed.

3. Where in any area the minimum rates of wages fixed by this notification are lower than the minimum rates of wages fixed by the State Government for employees in employment in the construction or maintenance of roads or in building operation in stone breaking or stone crushing, in the maintenance of buildings, and in the construction and maintenance of runways, in relation to which the State Government is the appropriate Government, the rates of wages fixed by the State Government shall, in respect of those areas, be deemed

to be the minimum rates of wages, payable under this notification.

(4) Workers employed on tunnel working shall be paid 20 per cent extra of the minimum wages fixed under this notification for the appropriate category.

(5) (a) "Unskilled work" means work which involves simple operations requiring little or no skill or experience on the job.

(b) "Semi-skilled work" means work which involves some degree of skill or competence acquired through experience on the job which is capable of being performed under the supervision or guidance of a skilled employee, and includes unskilled supervisory work.

(c) "Skilled work" means work which involves skill or competence acquired through experience on the job or through training as an apprentice in a technical or vocational institute and the performance of which calls for initiative and judgement;

(d) "Highly skilled work" means work which calls for a high degree of perfection and full competence in the performance of certain tasks, acquired through intensive technical or professional training, or practical work-experience for long years and also requires of a worker to assume full responsibility for the judgement or decisions involved in the execution of these tasks.

(6) The minimum rates of wages fixed by this notification are applicable to employees engaged by contractors also.

(7) The minimum rates of wages shall consist of all inclusive rates and include also the wages for weekly day of rest.

(8) The minimum rates of wages payable to young persons below 18 years of age and for disable persons shall be 80 per cent and 100 per cent respectively of the rates fixed by this notification for adult workers of the appropriate category.

ANNEXURE-I

| Name of the State/ Union Territory | Class of Cities/Towns | | | |
|---------------------------------------|-----------------------|-----|--------------------------|--|
| | A | B-1 | B-2 | C |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Andhra Pradesh | Hyderabad | — | Vijayawada (Bazwada), | Adoni, Anakapalle (Masulipatam), Anantapur, Bandar Bheemavaram, Chirala, |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----------------|-----------|-------------------------------------|--|---|
| | | | Visakhapatnam (Vizagapatnam) | Chittoor, Cuddapah, Eluru, Gudivada Guntakka, Guntur, Kakinada, Karim nagar, Khammam, Kothagudem, Kur- nool, Mahbubnagar, Nandyal, Nellore, Nizamabad, Ongole, Proddatur, Raja- mundry, Srikakulam Tenali, Tirupati, Vijapuri, Vizianagaram, Warangal. |
| Assam | ... | ... | Gauhati | ... |
| Bihar | ... | ... | Patna, Dhanbad, Jamshedpur. | Arrah, Bettia, Bhagalpur, Bokaro Steel City, Biharsharif, Chapra, Darbhanga, Dinapur, Gaya, Hazaribagh, Katihar, Monghyr, Jamalpur, Muzaffarpur, Pur- nea, Ranchi. |
| Chandigarh | ... | ... | | Chandigarh. |
| Delhi | Delhi | ... | ... | ... |
| Gujarat | Ahmedabad | ... | Surat, Vadodara (Baroda), Bhuvanagar, Rajkot. | Anand, Bnuj, Broach, Cambey, Dhoraji, Godhra, Gondal, Jamnagar, Junagarh, Kalol, Mahasana, Morvi, Nadiad, Nav- sari, Patan, Porbandar, Surendranagar, Veraval. |
| Haryana | ... | ... | ... | Ambala, Bhiwani, Faridabad, Gurgaon, Hissar, Kurna, Kuthal, Panipat, Rohtak, Sirsa, Sonapat, Yamunagar. |
| Jammu & Kashmir | ... | ... | Srinagar, Jammu. | ... |
| Karnataka | Bangalore | .. | Hubli, Dharwar, Mysore. | Bagalkot, Belgaum, Bellary, Bhadravati, Bidar, Bijapur, Chitradurga, Devanagar, Gadag Betgari, Gulbarga, Hassan, Hos- pet, Kolar Gold Fields, Mandya, Mangalore, Raichur, Shimoga, Tum- kur. |
| Kerala | .. | .. | Cochin, Trivandrum, Alwaye, Calicut (Kozhikode). | Allepey, Badagar, Cannanore, Changa- nacherry, Kayamukulam, Kottayam, Palghat, Tellicherry, Trichur, Quilon. |
| Madhya Pradesh | ... | Indore, Jabalpur | Bhopal, Bhilai, Gwalior, (Laskar) | Bilaspur, Burhanpur, Chhindwara, Damoh, Dewas, Durg, Itarasi, Khandwa, Mand- saur, Mhow (Cantt.), Morena, Murwara Neemuch, Raigarh, Raipur, Ratlam, Rewa, Sagar, Satna, Ujjain, Vidisha. |
| Maharashtra | Bombay | Nagpur, Poona, Pimpri-Chindwada. | Sholapur, Nasik | Achalpur Town group, Ammednagar, Akola Amalner, Ambarnath, Amravati, Aurang- abad, Barsi, Bhivandi, Bhuswal Chanda, Chandrapur, Dhulia, Dombivli, Gondia, Ichalkaranjia, Jalgaon, Jalna, Kalyan Kamptee, Khamgaon, Kohlapur, Latur, Melegaon, Nanded, Nandurbar, Nasik Road, Deolali, Pandharpur, Parbhani, Sangli-Maraj, Satara, Ulhasnagar, Yeot- mal, Wardna. |
| Orissa | .. | ... | Rourkela | Balasore, Berhampur, Bhubaneswar, Cut- tack, Puri, Sambalpur, |
| Pondicherry | ... | .. | ... | Pondicherry |
| Punjab | .. | .. | Amritsar, Ludhiana | Abohar, Batala, Bhatinda, Ferozepur, Hoshiarpur, Jullundur, Malerkotla, Moga Pathankot, Patiala, Phagwara. |
| Rajasthan | .. | Jaipur | Ajmer | Alwar, Beawar, Bnaratpur, Bhilwara, Bikaner Churu, Ganganagar, Jodhpur, Kota, Sikar, Tonk, Udaipur. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|------------------|----------|--|---|---|
| Tamil Nadu | Madras | Coimbatore, Madurai. | Salem, Tiruchirapalli (Trichinopoly) | Ambur, Aruppukottai, Bodinayakanur, Chidambaram, Cuddalore, Dindigul, Erode, Guidiyatham, Kadayannallur, Kancheepuram, Keraikudi, Karur, Kumbakonam, Mayuram, Nagapattinam, Nagercoil, Palayamkottai Pollachi, Mottupalayam, Pudukkottai, Rajapalayam, Sivakasi, Srirangam, Srivilliputtar, Tambaram, Thanjavur (Tanjore), Tindivanam, Tirunelveli, Tiruppur, Tiruvannamalai, Tuticorin, Valparai, Vaniyambadi, Vellore, Villipuram, Virudhunagar. |
| Uttar Pradesh | ... | Kanpur, Lucknow, Agra, Allahabad, Varanasi (Banaras) | Meerut | Aligarh (Koli Aligarh), Amroha, Balia, Baharaich, Banda, Bareilly, Basti, Badaun, Bullandshahar, Chandausi, Dehradun, Etwan, Faizabad-cum-Ayodhya, Farrukhabad-cum-Fatehgarh, Fatehpur, Ferozabad, Gaziabad, Ghazipur, Gonda, Gorakhpur, Haldwani-cum-Kathgodam, Haur, Hardoi, Haridwar, Hathras, Jaunpur, Jansi, Kanpur, Kasganj, Mathura, Maunabhanjan, Mirzapur, Moradabad, Muzaffarnagar, Pilibhit, Rampur, Roorkee, Saharanpur, Sambhal, Shahjahanpur, Sitapur. |
| West Bengal | Calcutta | ... | Asansol, Durgapur | Baidyabati, Bally, Bangaon, Bankur, Bansbaria, Barrackpur, Basirhat, Berhampur, Bhatpara, Budge, Budge, Burdwan, Chakdaha, Chamdani, Chandernagar, Cooch Behar, English Bazar, Halishaur, Hooghly-Chinsura, Jalpaiguri, Kamarhati, Kanchrapara, Kharagpur, Krishnagar, Midnapur, Nabodwip, Naihati, North Dum Dum, Panihati, Purulia, Ranaghat, Rishra, Santipur, Serampur, Siliguri, Titagarh, Uttarpara-Kotrung. |
| Goa, Daman & Diu | ... | ... | Goa, Marmagao. | |

[S-32019(6)/83-WC (MW)]

अधिसूचना

क्र० आ० 750(अ) :—कृषि नियोजन में नियोजित कर्मचारियों के प्रवर्गों को संवेद्य मजदूरी की न्यूनतम दरों के पुनरीक्षण के लिए प्रस्ताव, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) की अपेक्षाानुसार, भारत सरकार के श्रम और पुनर्वासि मंत्रालय, श्रम विभाग की अधिसूचना संख्या का० आ० 480 (अ०), तारीख 29 जून, 1983 के अधीन भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड (ii), तारीख 29 जून, 1983 के पृष्ठ 1 से 6 पर सभी व्यक्तियों के सूचनार्थ प्रकाशित किए गए थे, जिनमें राजपत्र में उक्त अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो मास की अवधि की समाप्ति तक उन सभी व्यक्तियों से आक्षेप और सुझाव मांगे गए थे, जिनके उनसे प्रभावित होने की संभावना थी;

और उक्त राजपत्र 29 जून, 1983 को जनता को उपलब्ध करा दिया गया था;

और केन्द्रीय सरकार ने उक्त प्रस्ताव के सम्बन्ध में प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर विचार कर लिया है ;

अतः केन्द्रीय सरकार, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा 4 की उपधारा (1) के खंड (iii) और धारा 5 की उपधारा (2) के साथ पठित, धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (ख) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का० आ० 609 (अ) तारीख 21 अगस्त, 1983 का अधिकांश करने हुए तथा सलाहकार बोर्ड से परामर्श करने के पश्चात्, इससे उपावृद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से (6) में यथा विनिर्दिष्ट मजदूरी की न्यूनतम दरों का, जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (1) की तत्सम्बन्धी प्रविष्टि में यथा विनिर्दिष्ट कृषि नियोजनों में नियोजित कर्मचारियों के प्रवर्गों को संवेद्य है, पुनरीक्षण करती है और निर्देश देती है कि यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी ।

अनुसूची

कर्मचारियों के प्रवर्ग

प्रतिदिन मजदूरी की सबसेमाधेशी न्यूनतम दरें

| 1 | क्षेत्र-क | | क्षेत्र ख-1 | | क्षेत्र ख-2 | | क्षेत्र-ग | | क्षेत्र-घ | |
|--|-----------|-------|-------------|-------|-------------|-----|-----------|-----|-----------|-----|
| | रु० | पै० | रु० | पै० | रु० | पै० | रु० | पै० | रु० | पै० |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | | |
| अकुशल : | | | | | | | | | | |
| (1) बेलदार (2) काफ बाप (3) पशुपालन (4) चौकीदार (5) क्लीनर (6) क्लीनर मोटर, गेड, ट्रैक्टर, पशुपालन, एम टी 1. (7) खुला बारा एकत्रित करना, (8) डेरी कुली (9) डेरी बाला (10) स्टोक कोलना (11) ड्रेसर, (12) गाड़ीवान (बैल, खच्चर), (13) फीडर (ग्रहण्ड) सूखी घास, (14) घास काटने वाला, (15) बरबाहा, (16) मक्कदगार (भण्डार, मजदूर), (17) श्रमिक (बायलर, पशुपालन, खेती, साधारण, चढ़ाई और उतराई, बंडल बनाना, डोना उखरक कटाई, विविध प्रकीर्ण बोजन, बुझाई, छपरछाना, प्रतिरोपण, बिराई (18) माली, (19) मजदूर (वक्ष संबंधक, कम्पोरट, डेरी बास का चट्टा लगाना, मिथारी, खाद चट्टा लगाना, दुग्धवक्ष, राशन वक्ष, भण्डार, मलेरिया रोधक एम मार (20) संवेक्षणक (कार्यालय), (21) अपरासी (22) मईस, (23) कुली घास बांधना और डोना (24) झाडुबहा (25) गांठे तोलना और डोना (26) तोलने वाला (गाठ, पल्ली) (27) पाली वाला (28) अस्पलबल वाला, (29) ट्रांली वाला (30) कोई अन्य प्रवर्ग, चाहे वह किसी भी नाम से जान हों, जो अकुशल प्रकार के हैं। | 11.25 | 10.00 | 9.25 | 8.25 | 7.50 | | | | | |
| अर्धकुशल/अकुशल पर्यवेक्षी : | | | | | | | | | | |
| (1) सहायक (धीयरी) (2) परिक्षाजक (साइ, ब्यानास्थल, कुट्टी मशीन, छात्रावास, सुखा स्टाक, अनाज योशर, पम्प, रंगी-पशु, स्थल, अस्पलबल, यार्डसहायक पशुधन (3) सहायक (प्लम्बर), (4) परिचालक, (5) मिश्री, (6) ब्रीडर, (7) सांड-वाला, (8) मक्खनवाला, (9) कोचवान, (10) मोर्ची, (11) कृषक, (12) दफतरी (13) पत्र जितरक, (14) छोबी, (15) ड्रेसर, (16) फेरियर (नाल लगाने वाला), (17) फीडर, (18) फायरमैन, (19) खाला, (20) हूधोड़ा वाला, (21) मक्कदगार, (लोहारा), (22) मक्कदगार (23) जमादार (संतरी), (24) जमादार, (25) खलासी, (26) भागी (ज्येष्ठ), (27) सेंट मिस्त्री, (28) मजदूर (शिक्षित), (29) नालबन्द, (30) तेलवाला, (31) हथवाहा, (32) चट्टा लगाने वाले, (33) पर्यवेक्षी, (34) छपर छाने वाले, (35) वाल्व-मैन (36) वाल्वमैन (ज्येष्ठ), (37) तोलने वाला, (38) तार काटने वाला, (39) तार मिस्त्री, टिन केवल डालने वाला, (40) कोई अन्य प्रवर्ग चाहे किसी भी नाम से जान हों, जो अर्धकुशल प्रकार के हैं। | 14.00 | 12.75 | 11.50 | 10.50 | 9.50 | | | | | |
| कुशल : | | | | | | | | | | |
| (1) कारीगर (वर्ग II, III, IV), (2) लोहार (3) लोहार वर्ग II, (4) बायरलर सैन, (5) बड़ई, (6) बड़ई वर्ग II, (7) बड़ई एवं लोहार, (8) चौधरी, (9) चायक, (10), खानक (डंजन, ट्रैक्टर, एम टी, मोटर), (11) बिजली मिस्त्री, (12) फिटर, (13) राज, (14) राज (वर्ग II), (15) मशीन हूड, वर्ग II, III, IV, (16) मशीन वाला, (17) सेंट श्रेणी I (ज्येष्ठ), (18) मैकेनिक, (19) दुग्ध राइटर, (20) मिस्त्री, प्रधान (21) मोल्डर (22) उपस्थिति राइटर, (23) प्रचालक (नलकूप), (24) पेटर, (25) प्लम्बर (नलमाज), (26) बैलडर, (27) गद्दीखाना, (28) तार मिस्त्री, (29) कोई अन्य प्रवर्ग चाहे वे किसी भी नाम से जान हों, जो कुशल प्रकार के हैं। | 17.75 | 16.25 | 14.50 | 13.50 | 13.00 | | | | | |
| अति कुशल : | | | | | | | | | | |
| (1) कारीगरी वर्ग-1, (2) लोहार वर्ग-1, (3) बड़ई वर्ग-1, (4) मशीन हूड वर्ग-1, (5) राज वर्ग-1, (6) मैकेनिक ज्येष्ठ, (7) कोई अन्य प्रवर्ग चाहे वे किसी भी नाम से जान हों, जो अति कुशल प्रकार के हैं। | 22.25 | 20.25 | 18.50 | 16.50 | 15.25 | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|
| लिपिक वर्ग | | | | | |
| (1) सहायक (फार्म), (2) सहायक, (3) रोकड़िया, (4) लिपिक, (5) मंशी, (6) रजिस्टर पाल, (7) स्टोरकीपर (मण्डारी), (8) समय पाल (टाइम कीपर), (9) टाइपिस्ट, (10) किसी भी नाम से कहलाने वाले कोई अन्य प्रवर्ग जो लिपिक वर्ग प्रकार के हैं | 17.75 | 16.25 | 14.50 | 13.50 | 12.00 |

स्पष्टीकरण :—इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए—

- (1)(क) क्षेत्र ए०बी०-1, बी०-2 और सी० में वे सभी स्थान समाविष्ट होंगे जो इस अधिसूचना के उपाबन्ध में ऐसे क्षेत्रों के रूप में चिन्तित हैं और जिनमें निम्नों या नगर पालिकाओं या छावन, बोर्डों या किसी विशिष्ट स्थान को अधिसूचित क्षेत्र समिति के उपास्तक्षेत्र से 8 किलोमीटर की दूरी के अन्दर के सभी स्थान सम्मिलित होंगे तथा क्षेत्र डी० में वे सभी स्थान समाविष्ट होंगे जो उपाबन्ध में वर्णित नहीं हैं और जिन पर न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 का विस्तार है।
- (ख) केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को त० प्र० भत्ते के संदाय के प्रयोजन के लिए वित्त मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जाड़े गए या ऊंची धेनी में लागू गए स्थानों को भी उपाबन्धों में चिन्तित वर्गीकरण के प्रयोजन के लिए उन्हीं तारीखों में जोड़ा गया समझा जाएगा।
- (2) जहां किसी क्षेत्र में इस अधिसूचना के अधीन नियत की गई मजदूरी की न्यूनतम दरें कृषि के अनुसूचित नियोजन में कर्मचारियों के लिए राज्य सरकार द्वारा जिसके लिए यह समुचित सरकार है नियत की गई मजदूरी की न्यूनतम दरों से कम है, वहां इस अधिसूचना के अधीन न्यूनतम मजदूरी के रूप में उच्चतम दर की जाएगी।
- (3)(क) 'अकुशल कार्य' से वह कार्य अभिप्रेत है जिसमें कार्य की बहुत थोड़ी कुशलता या अनुभव अपेक्षित करने वाली अथवा कुछ भी कुशलता या अनुभव न अपेक्षित करने वाली साधारण विधाएं सम्मिलित हैं।

- (ख) 'अकुशल कार्य' से वह कार्य अभिप्रेत है जिसमें कार्य के अनुभव में अजिन कुछ मात्रा में कुशलता या सक्षमता सम्मिलित है और जो कुशल कर्मचारी के पर्यवेक्षण या मार्ग दर्शन के अधीन किए जाने योग्य है और उसके अन्तर्गत पर्यवेक्षी कार्य भी आता है।
- (ग) 'कुशल कार्य' से वह कार्य अभिप्रेत है जिसमें कार्य के अनुभव में अथवा शिशु के रूप में या किसी तकनीकी या व्यावसायिक संस्थान में प्रशिक्षण के माध्यम में अजिन कुशलता या सक्षमता अपेक्षित है और जिसके पालन में स्वतंत्रता विशेषाधिकार आवश्यक है।
- (ख) 'अति कुशल कार्य' से ऐसा कार्य अभिप्रेत है जिसमें कर्मचारी कार्य के करने में परिपूर्णता की ऐसी उच्च मात्रा और पूर्ण क्षमता की अपेक्षा है जो गहन तकनीकी या वृत्तिक प्रशिक्षण या लम्बे समय तक व्यावहारिक कार्य के अनुभव से प्राप्त की गई है और जिसमें कर्मचारी से यह भी अपेक्षित है कि वह दैनिक कार्यों के निष्पादन के लिए आवश्यक निर्णय विनिश्चय करें इसके लिए पूर्णतः जिम्मेदार हों।
- (4) मजदूरी की न्यूनतम दरें सर्वसमावेशी दरों के रूप में होंगी और उनके अन्तर्गत साप्ताहिक विश्राम दिन की मजदूरी भी होगी।
- (5) मजदूरी की न्यूनतम दरें ठेकेदारों द्वारा नियोजित कर्मचारियों पर भी लागू होती हैं।
- (6)(क) 18 वर्ष से कम के व्यक्तियों के लिए मजदूरी की न्यूनतम दरें समुचित प्रवर्ग के व्यस्क कर्मचारियों की सर्वेय दरों का 80 प्रतिशत होंगी।
- (ख) निर्योग्य व्यक्तियों के लिए मजदूरी की न्यूनतम दरें समुचित प्रवर्ग के समयोग्य व्यक्तियों की दरों के बराबर होंगी।

उपबन्ध—1

| राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों का नाम | नगर | | उपनगरों का वर्ग | |
|----------------------------------|----------|-----|--|--|
| | क | ख-6 | ख-2 | ग |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| आन्ध्र प्रदेश | वैदराबाद | — | विजयवाड़ा (वैजवाड़ा), विशाखापत्तनम (विजयगणपट्टम) | अंकोली, अंकापल्ले, अन्तगुर, बम्बारा (मैकोली पत्तनम), भामावरम, चिराला, चित्तूर, कुडाण्ड, एलूरु, गुडी बड़ा, गुडाकाल, गुन्तूर, काकीनाडा, करीम नगर, खम्माम, कोथागुडम, करनूल, महबूबनगर, मन्ड्याल, नैलोर, निक्षामाबाद, आंगोल, प्रोवाचूर, राजाहमुन्दरी, श्रीकाकुलम, सैनापी, निरुपति, शिजपुरी, विजयनगरम, बारंगल। |
| बिहार | — | — | गोहाटी | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--------------|----------|----------------------------------|---|--|
| बिहार | --- | --- | पटना अतबाद जमशेदपुर | अरा बेतिया भागलपुर, बिहार सरीक, बाकारों- इस्फाल नगर, छपरा, दरभंगा, दानापुर, गया, हजारीबाग, कटिहार, मुर्शिदाबाद, जमानपुर, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, राँची। |
| चण्डीगढ़ | --- | --- | --- | चण्डीगढ़ |
| दिल्ली | दिल्ली | --- | --- | --- |
| गुजरात | अहमदाबाद | --- | सुरत, बड़ोदरा (बन्नीदा) भावनगर, राजकोट | आनन्द, भुज, भडोच, कैम्बे, घांराजी, गोखारी, गोंडल, जामनगर, जूनागढ़, कलोल, मेहसाणा, मोरबी, नाडियाद, तबसारी, पाटन, पोर्बन्दर, सुरेन्द्रनगर, वेरावल। |
| हरियाणा | --- | --- | --- | अम्बाला, भिवानी, फरीदाबाद, गुरुग्राम, हिसार, करनाल, कैथल, पानीपत, रोहतक, मिरसा, सोनीपत, यमुनानगर। |
| जम्मू-कश्मीर | --- | --- | श्रीनगर, जम्मू | |
| कर्नाटक | मंगलूर | --- | हुबली, धारवाड मैसूर | बागलकोट, बेलगाम, बैलरी, भद्रावती, बिवार, बीजापुर, चित्रदुर्ग, दोंबणगिरी, गदाग- बेतगारी, गुलबर्गा, हसन, होस्पेट, कोलार, म्वर्णा मैन्न, माण्ड्या, मंगलूर, रायचूर, शिमोगा, टुमकूर। |
| केरल | --- | --- | कोचीन, त्रिवेन्द्रम, आलवे, मालीकोट (कोजीकोड) | अलेपी, भांडारा, कन्नानूर, चंगना जेरी, कायमकुलम, कोट्टयम, पालघाट, पेचीचेरी, त्रिचूर, वीलीन। |
| मध्य प्रदेश | --- | इंदौर, | जबलपुर ग्वालियर (बलरार) मिर्जा, भोपाल | बिलासपुर, बुरहानपुर, छिंदवाडा, खमोड, देवास, दुर्ग, छटारमी, बंडा, मयसूर, मह, (छाबनी), मुंडवारा, मुरैना, रायपुर, नीसबा, रायगड, रतनाम, रीवा, सागर, सतना उज्जैन, बिदिना। |
| महाराष्ट्र | मुम्बई | नागपुर, पुणे, पिंपरी छिंदवाडा | शोलापुर, नासिक | अचलपुर, उधनगर, समूह, अहमदनगर, अकोला अमलनेर, अम्बरनास, अमरावती, औरंगा- बाद, बारसी, भिबंदी, बुलडाण, चांदा, चन्द्रपुर, बालिया, दोम्बीबली गोदिया, इच्छल करंजिबा, जलगांव, जलना, कल्याण, कैमटी, कामगांव, कोल्हापुर, माधुर, मरलेगांव, मांवेड, नन्दुरबार, नासिक, मार्ग, देवगाली, पन्डरपुर, परभनी, सांगली, मराज, मन्थरा, उल्हास नगर, बोसगांव, बर्घी। |
| उड़ीसा | --- | --- | राउरकेला | नालासौर, बिहारासपुर, कुबनेरबर, कटक, पुरी, सम्बलपुर। |
| पांडिचेरी | --- | --- | --- | पांडिचेरी |
| पंजाब | --- | --- | जमुनसर, लुधियाना | अमोहर, बटाला, मोटडा, फिरोजपुर, हीमसा- पुर, जालंधर, मलेर-कोटला, मोगा, पठान- कोट, पटियाला, फगवाडा। |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|------------------|---------|---|------------------------------------|--|
| राजस्थान | --- | जयपुर | अजमेर | अलवर, अनावर, अरतपुर, भीलवाड़ा, बीकानेर, बूरा, गंगानगर, जोधपुर, कोटा, मीर, टोंक, उदयपुर । |
| तमिलनाडु | भद्राचल | कायम्बूर, मद्राई | मनेम, निरुविराविल्ली (त्रिचिनोपली) | अम्बूर, अरुणाकोट्टाई, चिन्नावरम, चोर्वी नायकनूर, कुडालोर, डिडीगुड, हरोड, मुट्टियाथान काञ्चायलनूर, कांचीपुरम, कराईकुडी, कल्ल, कुम्भकोनम, मयूरम, कोविलयट्टी, मेट्टमा- पानथम, नागापट्टीनम, नगरकोटम, पलायमकोट्टाई, पालक्की, पुडुकोट्टाई, राजापल्लम, मिवाकाशी, श्रीरंगम, श्रीचिली- पुत्तुर, प्राम्बरम, सज्जूर, (तंजारे) छिडीवनम तिरुनेलवेली, निरुम्पुर, थिरुवल्लामलाई, तृतीकोरिन, बालपराई, वनियाम्बाडी, बैयारे, विजयपुरम, थिरुडुनगर । |
| उत्तर प्रदेश | --- | कानपुर, लखनऊ आगरा, इलाहाबाद, बाराबंकी (बनारस) | मेरठ | अलीगढ़ (कोथल अलीगढ़), अमरोहा, बलिया, बहराइच, बांदा, बरेली, बस्ती, बदायूं, बुलन्दशहर, बंदोभी, देहरादून, इटावा, फैजाबाद, एवं अयोध्या, फर्रुखाबाद एवं फतेहगढ़, फतेहपुर, फिरोजाबाद, गाजियाबाद, गाजीपुर, गोंडा, गोरखपुर, हल्द्वानी एवं काठगोदाम, हापुड, हरदोई, हरिद्वार, हाथरस, जौनपुर, झांसी, खुर्जा, काशीगंज, मथुरा, मऊनाथ, भोजन, मिर्जापुर, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, पीलीभीत, रामपुर रुह्यी, सहायपुर, सम्भल, शाहजहांपुर सीतापुर । |
| पश्चिमी बंगाल | कलकत्ता | --- | आसनसोल, दुर्गापुर | बैकुर्ती, बाली, बनगांव, बेंगला, बामचेरिया, बैरकपुर, बशीरहट्ट, बेरहानपुर, भाटापारा, बज-बज, बर्दमान, बकहड़ा, चम्पवानी, चम्बर- नगर, कुचबिहार, इंगलिश बाजार, हाली- शहर, हुगली, चिनसुरा, जलपाईगुडी, कमरहटी, कोचनपारा, छडगपुर, कुष्माण्डनगर, मिर्जापुर, नवाबद्वीप, नेहाटी, उत्तरी-बम-बम, पानीहाटी, पुरुलिया, राताबाट, रिशरा, शक्तिपुर, सेरावपुर, सिलीगुडी, टीटागढ़, उत्तरपारा, कोटरंग । |
| गोवा, दमन और दीव | --- | --- | गोवा, सरमंगोवा | |

[संख्या एम०-३२०१९/७/३३-उल्लू० सी० (एम० उल्लू०)]

S.O. 750(E).—Whereas certain proposals to revise the minimum rates of wages payable to the categories of employees employed in the employment in agriculture were published as required by Clause (b) of sub-section (1) of section 5 of the Minimum Wages Act, 1948 (11 of 1948) at pages 6 to 10 of the Gazette of India Extraordinary Part II, Section 3, sub-section (ii) dated the 29th June, 1983 under the notification of the Government of India, in the Ministry of Labour and Rehabilitation

(Department of Labour) No. S.O. 480(E) dated the 29th June, 1983 for the information of, and inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby, till the expiry of the period of two months from the date of publication of the said notification in the Official Gazette.

And whereas the said Gazette was made available to the public on the 29th June, 1983;

And whereas, the objections and suggestions received on the said proposals have been considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Clause (b) of sub-section (1) of section 3, read with clause (iii) of sub-section (1) of section 4 and sub-section (2) of section 5 of the Minimum Wages Act, 1948 (11 of 1948) and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour Number S.O. 609 (E)

dated the 21st August, 1982 the Central Government after consulting the Advisory Board revises the minimum rates of wages as specified in Column (2) to (6) of the Schedule annexed hereto, payable to the categories of employees employed in the employment in agriculture as specified in the corresponding entries in column (1) of the said Schedule and directs that this notification shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

SCHEDULE

| Categories of employees | All inclusive minimum rates of wages per day | | | | | | | | | |
|--|--|----|----------|----|----------|----|--------|----|--------|----|
| | Area A | | Area B-1 | | Area B-2 | | Area C | | Area D | |
| | Rs. | P. | Rs. | P. | Rs. | P. | Rs. | P. | Rs. | P. |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | |
| Unskilled | | | | | | | | | | |
| 1. Beldar; 2. Calf boy; 3. Cattleman; 4. Chowkidar; 5. Cleaner; 6. Cleaner (motor, shed, Tractor, Cattle Yard, M.T.); 7. Collecting loose fodder; 8. Dairy cattle; 9. Dairyman; 10. Dismantling stocks; 11. Dresser; 12. Driver (bullocks, mule); 13. Feeder (adult) hay; 14. Grass cutter; 15. Grazler; 16. Helper (Store-mazdoor); 17. Labourer; (boiler, Cattle yard, Cultivation; General; Loading and unloading Bundling; Carting; Fertilizers harvesting; Miscellaneous; Seeding; Sowing; Thatching; Transplanting; Weeding); 18. Mali; 19. Mazdoor (Arboriculturist); Compost, Dairy's haysteking; Irrigation; Manure; Stacking; Milkroom; Ration room; Store; Anti-Malaria; M.R.; 20. Messenger (Office); 21. Peon; 22. Syce; 23. Tying & Carrying loose hay; 24. Sweeper; 25. Weighing and Carrying bales; 26. Weighman (bales; pally); 27. Waterman; 28. Stable man; 29. Trolley man; 30. Any other categories by whatever name called which are of unskilled nature | | | | | | | | | | |
| | 11.25 | | 10.00 | | 9.25 | | 8.25 | | 7.50 | |
| Semi-skilled/Unskilled supervisory | | | | | | | | | | |
| 1. Assistant (Chowdhary); 2. Attendant (bull, calving lines; chaff cutter; Hostel; Dry stock; Grain crusher; Pump; Sick-line. Stable; Yard; Stock) 3. Assistant (Plumber) 4. Attendant; 5. Bhisti; 6. Brander; 7. Bullman; 8. Buttermilk; 9. Coachman; 10. Cobbler; 11. Cultivator; 12. Dairy; 13. Delivery man; 14. Dubi; 15. Dresser; 16. Farria; 17. Feeder; 18. Fireman; 19. Gowala; 20. Hammerman; 21. Helper (Blacksmith); 22. Helper; 23. Jamaadar (stand); 24. Jamadar; 25. Khalasi; 26. Mali (Senior); 27. Mate/Mistry; 28. Mazdoor (literate); 29. Nalband; 30. Oilman; 31. Ploughman; 32. Stackers; 33. Supervisor; 34. Thatcher; 35. Valveman; 36. Valveman (senior); 37. Weighman; 38. Wire cutter; 39. Wireman fixing tin cables; 40. Any other categories by whatever name called which are of a semi-skilled nature | | | | | | | | | | |
| | 14.00 | | 12.75 | | 11.50 | | 10.50 | | 9.50 | |
| Skilled : | | | | | | | | | | |
| 1. Artificer (Class II, III, IV); 2. Blacksmith; 3. Blacksmith (Class II); 4. Boiler man; 5. Carpenter; 6. Carpenter Class II; 7. Carpenter-cum-Blacksmith; 8. Chowdhary; 9. Driver; 10. Driver (Engine Tractor; M.T.; motor); 11. Electrician; 12. Fitter; 13. Mason; 14. Mason Class II; 15. Machine hand (Class II, III, IV); 16. Mechanic; 17. Mate Gr. I (Senior); 18. Mechanic; 19. Milk Writer; 20. Mistry (Head); 21. Moulder; 22. Muster writer; 23. Operator; (tube well); 24. Painter; 25. Plumber; 26. Welder; 27. Upholsterer; 28. Wireman; 29. Any other categories by whatever name called which are of a skilled nature | | | | | | | | | | |
| | 17.75 | | 16.25 | | 14.50 | | 13.50 | | 12.00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|
| <i>Highly skilled :</i> | | | | | |
| 1. Artificier Class I; 2. Blacksmith Class I; 3. Carpenter Class I; 4. Machine hand Class I; 5. Mason Class I; 6. Mechanic (Senior); | | | | | |
| 7. Any other categories by whatever name called which are of highly skilled nature | | | | | |
| | 22.25 | 20.25 | 18.50 | 16.50 | 15.25 |
| <i>Clerical :</i> | | | | | |
| 1. Assistant (Farm); 2. Assistant; 3. Cashier; 4. Clerk; 5. Munsif; | | | | | |
| 6. Register Keeper; 7. Storekeeper; 8. Time Keeper; 9. Typist; | | | | | |
| 10. Any other categories by whatever name called which are of a clerical nature | | | | | |
| | 17.75 | 16.25 | 14.50 | 13.50 | 12.00 |

Explanation : For purposes of this notification :—

1. (a) Areas A, B-1, B-2 and C mentioned in the annexure to this notification shall respectively comprise all the places as specified in the said annexure as such areas, and include all places within a distance of eight kilometres from the periphery of a Municipal Corporation or Municipality or Cantonment Board or Notified Area Committee of a particular place, and areas; D shall comprise of all other places not mentioned in the annexure and to which the Minimum Wages Act, 1948 extends.

(b) The places added or upgraded from time to time by the Ministry of Finance for the purpose of payment of city compensatory allowance to Central Government employees shall also be taken to be added from such dates for the purpose of classification specified in the annexure.

2. Where in any area the minimum rates of wages fixed under this notification are lower than the minimum rates of Wages fixed by the State Government for employees in the scheduled employment of agriculture in respect of which it is the appropriate Government, the higher rate shall be payable as minimum wage under this notification.

3. (a) "Unskilled work" means work which involves simple operations requiring little or no skill or experience on the job ;

(b) "Semi-skilled work" means work which involves some degree of skill or competence acquir-

ed through experience on the job and which is capable of being performed under the supervision or guidance of a skilled employee, and, includes unskilled supervisory work;

(c) "Skilled work" means which involves skill or competence acquired through experience on the job or through training as an apprentice in a technical or vocational institute and the performance of which calls for initiative and judgement;

(d) "Highly skilled" work means work which calls for a degree of perfection and full competence in the performance of certain tasks acquired through intensive technical or professional training or practical work experience for long years also requires of a worker to assume full responsibility for the judgement or decisions involved in the execution of these tasks.

4. The minimum rates of wages shall consist of all inclusive rates; and include also the wages for the weekly day of rest;

5. The minimum rates of wages are applicable to employees employed by contractors also;

6. (a) The minimum rates of wages for young persons below 18 years of age shall be 80 per cent of the rates payable to adult workers of the appropriate category.

(b) The minimum rates of wages for disabled persons shall be equal to those of able bodied persons of the appropriate category.

ANNEXURE-I

| Name of the State/ Union Territory | Class of Cities/Towns | | | |
|---------------------------------------|-----------------------|-----|---|---|
| | A | B-1 | B-2 | C |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Andhra Pradesh | Hyderabad | ... | Vijayawada (Bezawada), Visakhapatnam (Vizagapatnam). | Adoni, Anakapalle, Anantapur, Bandar (Masulipatam), Bheemavaram, Chirala, Chittoor, Cuddapah, Eluru, Gudivada, Guntakkal, Guntur, Kakinada, Karim- nagar, Khammam, Kothagudem, Kur- nool, Mahbubnagar, Nandyal Nilloro Nizamabad, Ongole, Proddatur, Raja- mandry, Srikulam Tenali, Tirupati, Vijapuri, Vizianagaram, Warangal. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----------------|-----------|----------------------------------|---|--|
| Assam | ... | ... | Gauhati | ... |
| Bihar | .. | ... | Patna, Dhanbad, Jamshedpur | Arrah, Bettla, Bhagalpur, Bokaro Steel City, Biharsharif, Chapra, Darbhanga, Dinapur, Gaya, Hazaribagh, Katihar, Monghyr, Jamalpur, Muzaffarpur, Purnea, Ranchi. |
| Chandigarh | ... | .. | .. | Chandigarh |
| Delhi | Delhi | ... | .. | .. |
| Gujarat | Ahmedabad | .. | Surat, Vadodara (Baroda), Bhavnagar, Rajkot. | Anand, Bhuj, Broach, Cambay, Dhoraji, Godhra, Gondal, Jamnagar, Junagarh, Kalol, Mehsana, Morvi, Nadiad, Navsari, Patan, Porbandar, Surendranagar, Veraval. |
| Haryana | .. | .. | .. | Ambala, Bhiwani, Faridabad, Gurgaon, Hissar, Karnal, Kithal, Panipat, Rohtak, Sirsa, Sonapat, Yamunanagar. |
| Jammu & Kashmir | .. | .. | Srinagar, Jammu | ... |
| Karnataka | Bangalore | ... | Hubli, Dharwar, Mysore. | Bagalkot, Belgaum, Bellary, Bhadravati, Bidar, Bijapur, Chitradurga, Devanagar, Gadag, Betgari, Gulbarga, Hassan, Hospet, Kolar, Fields Gold, Mandya, Mangalore, Raichur, Shimoga, Tumkur. |
| Kerala | ... | ... | Cochin, Trivandrum, Alwaye, Calicut, (Kozhikode). | Alleppey, Badagara, Cannanore, Changanacherry, Kayamkulam, Kottayam, Palghat, Tellicherry, Trichur, Quilon. |
| Madhya Pradesh | ... | Indore, Jabalpur | Bhopal, Bilal, Gwalior (Laskar). | Bilaspur, Burhanpur, Chhindwara, Damoh, Dewas, Durg, Itarsi, Khandwa, Mandasaur, Mhow (Cantt.), Morena, Murwara, Neemuch, Raigarh, Raipur, Ratlam, Rewa, Sagar, Satna, Ujjain, Vidisha. |
| Maharashtra | Bombay | Nagpur, Poona, Pimpri-Chindwada. | Sholapur, Nasik | Achalpur town group, Ahmednagar, Akola, Amalner, Ambarnath, Amravati, Aurangabad, Barsi, Bhivandi, Bhusawal, Chanda, Chandrapur, Dhulia, Dombivli, Gondia, Ichalkaranjia, Jalgaon, Jalna, Kalyan, Kamptee, Khamgaon, Kolhapur, Latur, Malegaon, Nanded, Nandurbar, Nasik Road, Deolali, Pandharpur, Parbhani, Sangli-Maraj, Satara, Ulhasnagar, Yeotmal, Wardha. |
| Orissa | ... | ... | Rourkela | Balasore, Berhampur, Bhubaneswar, Cuttack, Puri, Sambalpur. |
| Pondicherry | ... | ... | ... | Pondicherry. |
| Punjab | ... | ... | Amritsar, Ludhiana. | Abohar, Batala, Bhatinda, Ferozepur, Hoshiarpur, Jullundur, Malerkotla, Moga, Pathankot, Patiala, Phagwara. |
| Rajasthan | ... | Jaipur | Ajmer | Alwar, Beawar, Bharatpur, Bhiwara, Bikaner, Churu, Ganganagar, Jodhpur, Kota, Sikar, Tonk, Udaipur. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|------------------|----------|--|---------------------------------------|--|
| Tamil Nadu | Madras | Coimbatore Madurai. | Salem, Tiruchirappalli (Trichinopoly) | Ambur, Aruppukottai, Bodinayakanur, Chidambaram, Cuddalore, Dindigul, Erode, Gudiyatham, Kadayannallur, Kancheepuram, Karaikudi, Karur, Kumbakonam, Nayuram, Nagesapatnam, Nagercoil, Palayamkottai, Pollachi, Mettupalayam, Pudukkottai, Rajapalayam, Sivakasi, Srirangam, Srivilliputtar, Tambaram, Thanjavur (Tanjore), Tindivanam, Tirunelveli, Tiruppur, Tiruvannamalai, Tuticorin, Valparai, Vaniyambadi, Vellore, Villipuram, Virudhunagar. |
| Uttar Pradesh | ... | Kanpur, Lucknow, Agra, Allahabad, Varanasi (Banaras) | Meerut | Aligarh (Koli Aligarh), Amroha, Ballia, Bahraich, Banda, Barilly, Basti, Badaun, Bullandshahar, Chandausi, Dehra Dun, Etawah, Faizabad-cum-Ayodhya, Farrukhabad-cum-Fatehgarh, Fatehpur, Ferozabad, Gaziabad, Ghazipur, Gonda, Gorakhpur, Haldwani-cum-Kathgodam, Hapur, Hardoi, Haridwar, Hathras, Jaunpur, Jhansi, Khurja, Kasganj, Mathura, Meerut, Muzaffargarh, Pilibhit, Rampur, Roorkee, Saharanpur, Sambhal, Shahjahanpur, Sitapur. |
| West Bengal | Calcutta | ... | Asansol, Durgapur | Baidyabati, Bally, Bargaon, Bank Bansbaria, Barrackpur, Basirhat, Berhampur, Bhatpara, Bulge Budge, Burdwan, Chakdah, Chaudani, Chander-nagore, Cooch-Bihar, English Bazar, Halishahar, Hooghly-Chinsura, Jalpaiguri, Kamarhati, Kanchrapara, Khuragpur, Krishnanagar, Midnapur, Nabadwip, Naihati, North Dum Dum, Panihati, Purulia, Ranaghat, Rishra Santipur, Serampur, Siliguri, Titagarh Uttarpara-Kotrung. |
| Goa, Daman & Diu | | | Goa, Marmagao | |

[No. S-32019(7)/83-WC(MW)]

का०आ० 751 (ख):—रेड आक्साइड खातों में नियोजित कर्मचारियों के प्रवर्गों को संवेद्य मजदूरी की न्यूनतम दरों के पुनरीक्षण के लिए कुछ प्रस्थापनाएं, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) की अपेक्षानुसार उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए जिनके उनमें प्रभावित होने की संभावना थी, भारत सरकार के श्रम और पुनर्वास मंत्रालय (श्रम विभाग) की अधिसूचना सं० का०आ० 450 (अ) तारीख 11 जून, 1983 के अधीन भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) तारीख 20 जून, 1983 के पृष्ठ 24-25 पर प्रकाशित की गई थी। उक्त व्यक्तियों से उक्त अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से दो मास की अवधि के अवसान तक आक्षेप और सुमात्र मांगें गए थे;

और उक्त राजपत्र 2 जून, 1983 को जनता की उपलब्ध करा दिया गया था और केन्द्रीय सरकार ने उक्त प्रस्थापनाओं के संबंध में प्राप्त आक्षेपों

और सुमात्रों पर विचार कर लिया है।

अतः केन्द्रीय सरकार, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा 4 की उपधारा (1) के खंड (iii) और धारा 5 की उपधारा (2) के साथ पठित धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना सं० का०आ० 634 (अ) तारीख 2 सितम्बर, 1983 को अधिकांत करते हुए तथा सनाहकार बोर्ड से परामर्श करने के पश्चात् रेड आक्साइड के नियोजन में नियोजित ऐसे कर्मचारियों के प्रवर्गों को, जो इससे उपाखण्ड अनुसूची के स्तम्भ (1) तदनुसार प्रविष्टि में विनिश्चित हैं, संवेद्य मजदूरी की न्यूनतम दरें उक्त अनुसूची के स्तम्भ (2) में विनिश्चित रूप में पुनरीक्षित करती है और निवेश वेतों के कि यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी।

अनुसूची

| कार्य का वर्गीकरण | वैयक्तिक मजदूरों की न्यूनतम दरें |
|-------------------|----------------------------------|
| 1 | 2 |

अकुशल :

| | |
|--|--|
| (1) बरबर (2) केसरदेहर (3) चौकीदार (4) बर्बनर (5) ड्रेसर (6) अमिश, (7) लड़ाई करने वाला (8) मजदूर (9) ड्रेसर (10) ड्रेसर (11) ड्रेसर (12) चपरासी (13) पिहर (पुरुष/स्त्री) (14) छांटने वाला (15) ग्राहक (पुरुष/स्त्री) (16) ट्रामर (17) ट्रालीमैन (18) ट्राली ट्रिपर (19) पानी से जाने वाला (20) अन्य प्रयोगों के व्यक्ति चाहे उन्हें किसी भी नाम से बुलाया जाता हो जो अकुशल हैं। | 9.75 रु० (भूमि के ऊपर कार्य करने के लिए) 11.75 रु० (भूमि के नीचे कार्य करने के लिए) |
|--|--|

अर्धकुशल/अकुशल पर्यवेक्षी :

| | |
|---|---|
| (1) आया, (2) बैकन (3) ब्रेकमैन, (4) रीटर्नर (5) डेकर (6) धोबी, (पुरुष/स्त्री) (7) रसोइया (8) फायर मैन, ग्रीजर (9) ग्राहक (10) ग्रीजर (11) हथौड़े वाला (12) मददगार बर्बन, ड्रेसर स्टाण्डर, केशर आपरेटर (13) जमादार (14) खलासी, बुलडोजर आदि (15) लैम्प कक्ष मारमाधक (16) मेट/मालो (घातु उत्पादक क्षति विनिर्धन, 1961 के अधीन सज्जता प्रमाणपत्र के बिना), (17) बाइजर (18) ब्राइडरमैन (19) सेम्पलर, (20) स्टोर मैन (21) खनक (22) अन्य प्रयोगों के व्यक्ति चाहे किसी भी नाम से बुलाया जाता हो जो अर्ध-कुशल/अकुशल पर्यवेक्षी हैं। | 12.25 रु० (भूमि के ऊपर कार्य करने के लिए) 14.75 रु० (भूमि के नीचे कार्य करने के लिए) |
|---|---|

कुशल :

| | |
|--|---|
| (1) लोहार (2) ग्राहक (शार्ट फायरर) (3) बर्बन (4) चार्ज मैन (5) रसायन (6) कम्पाउंडर (7) नक्शानवीस (8) ड्रिलर (9) ड्राइवर, (10) बिजली मिस्त्री (11) फिटर (12) फोरमैन (13) राज, (14) मैकेनिक (15) मिहवाइक (16) मिस्त्री (17) सांजागर (18) आपरेटर (19) ओवर-रियर (20) रंगसाज (21) पाइप फिटर (22) टिनस्मिथ (23) पर्यवेक्षक (24) सर्वेक्षक (25) टिम्बरमैन (26) सराही (27) वेल्डर (28) ब्राइडरमैन (29) अन्य प्रयोगों के व्यक्ति चाहे उन्हें किसी भी नाम से बुलाया जाता हो, कुशल हैं। | 15.00 रु० (भूमि के ऊपर कार्य करने के लिए) 18.00 रु० (भूमि के नीचे कार्य करने के लिए) |
|--|---|

लिपिकारी :

| | |
|--|-------------|
| (1) रोकड़िया (2) लिपिक (3) रजिस्टर कीपर (4) गणकार (5) ड्रेसर (6) डाइम कीपर (7) टंकक (8) अन्य प्रयोगों के व्यक्ति चाहे उन्हें किसी भी नाम से बुलाया जाता हो, जो लिपिकारी हैं। | 15.00 रुपये |
|--|-------------|

हस्तोकरण: इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए—

1. मजदूरों की न्यूनतम दरें सम्मिलित दरें हैं, जिनमें आधारी दर, जीवन निर्वाह भत्ता, आवश्यक वस्तुओं के रिमायटो दर पर किए गए प्रदायों का, यदि कोई हो, नगरी मूल्य सम्मिलित है तथा साप्ताहिक विश्राम के लिए देय मजदूरी भी सम्मिलित है।

2. मजदूरों की न्यूनतम दरें ठेकेदारों द्वारा नियोजित कर्मचारियों को भी लागू हैं।

3. अन्तरह वर्ष से कम आयु के और अचरम्य स्थितियों को देय मजदूरी की न्यूनतम दरें समुचित प्रयोग व्यवस्था कर्मचारियों को संदेय दरों का क्रमशः 80 प्रतिशत और 100 प्रतिशत होगी जैसा कि ऊपर अनुसूची में विनिर्दिष्ट है।

4. (क) "अकुशल कार्य" से वह कार्य अभिप्रेत है जिसमें कार्य की बहुत सी कठिनाई या अनुभव अपेक्षित करने वाली अथवा कुछ भी कठिनाई या अनुभव न अपेक्षित करने वाली साधारण श्रम सम्मिलित है।

(ख) "अर्धकुशल कार्य" से वह कार्य अभिप्रेत है जिसमें कार्य के अनुभव से अर्जित कुछ मात्रा में कठिनाई या सज्जता सम्मिलित है और जो कृत्रिम कर्मचारी के पर्यवेक्षण या मार्ग दर्शन के अधीन किए जाने योग्य है और इसके अन्तर्गत अकुशल पर्यवेक्षी कार्य भी आता है।

(ग) "कुशल कार्य" से वह कार्य अभिप्रेत है जिसमें कार्य के अनुभव से अथवा शिक्षा के रूप में या किसी तकनीकी या व्यावसायिक संस्था में प्रशिक्षण के माध्यम से अर्जित कठिनाई या सज्जता अपेक्षित है और जिसके पालन में स्वतंत्रता और निवेकबुद्धि आवश्यक है।

5. जहाँ संविदा या करार पर आधारित या अन्यथा किसी कर्मचारी की मजदूरी की विश्राम दरें हममें अतिरिक्त दरों से उच्चतर हैं, वहाँ इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए ऐसी उच्चतर दरें मजदूरी की न्यूनतम दरें मानी जाएंगी।

6. वे श्रमिक "खनिक" माने जाएंगे, जो रेड आक्साइड अयस्क के उत्खनन, तोड़ने/वर्गीकरण तथा ड्रेसिंग-कार्य में नियोजित हैं तथा रेड-आक्साइड बेंड/रीफ पर इसके अन्य आनुवंशिक कार्य भी उसी व्यक्ति द्वारा किए जाते हैं।

[एस०-32019/3/81-बन्धु०सी० (एम०डब्ल्यू)]

S.O. 751(E).—Whereas certain proposals to revise the minimum rates of wages payable to the categories of employees employed in redoxide mines were published as required by clause (b) of sub-section (1) of section 5 of the Minimum Wages Act, 1948 (11 of 1948) at pages 25-26 of the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (ii), dated 20th June, 1983 under the notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Rehabilitation (Department of Labour) number S.O. 450(E) dated the 18th June, 1983 for information of and inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby till the expiry of the period of two months from the date of publication of the said notification in the Official Gazette;

And whereas the said Gazette was made available to the public on the 20th June, 1983;

And whereas the objections and suggestions received on the said proposals have been considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 3 read with clause (iii) of sub-section (1) of section 4 and sub-section (2) of section 5 of the Minimum Wages Act, 1948 (11 of 1948), and in supersession of notification of the Government of India in the Ministry of Labour Number S.O. 634(E) dated the 2nd September, 1982 the Central Government after consulting the Advisory Board, revises the minimum rates of wages as specified in column (1) of the Schedule annexed hereto, payable to the categories of employees employed in employments in redoxide mines as specified in the corresponding entries in column (1) of the said Schedule and directs that this notification shall come into force on the date of its publication in the official Gazette.

SCHEDULE

| Classification of work | Minimum rates of wages per day |
|------------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 |

Unskilled :

| | |
|--|---|
| (1) Butler, (2) Caretaker, (3) Chowkidar, (4) Cleaner, (5) Dresser, (6) Labourer, (7) Loader, (8) Mazdoor, (male/female), (9) Messenger, (10) Number-taker, (11) Office boy, (12) Peon, (13) Picker (male/female), (14) Sorter, (15) Sweeper (male/female), (16) Trammer, (17) Trolleyman, (18) Trolley triper, (19) Water carrier, (20) Other categories by whatever name called which are unskilled. | Rs. 9.75 (for work above ground) Rs. 11.75 (for work below ground) |
|--|---|

Semi-skilled/unskilled supervisory:

| | |
|---|--|
| (1) Ayah, (2) Bankman, (3) Brakesman, (4) Cash guards, (5) Checker, (6) Dhobi (male/female), (7) Greaser, (8) Fireman, (9) Grinder, (10) Cook, (11) Hammerman, (12) Helper (carpenter, Driller, Blater, crusher operator), (13) Jamadar, (14) Khalasi (Bulldozer etc.), (15) Lamp room incharge, (16) Mate/Mali (without competency certificate under Metalliferous Mines Regulations, 1961), (17) Oiler, (18) Pointsman, (19) Sampler, (20) Storeman (21) Miner, (22) Other categories by whatever name called which are semi-skilled/unskilled supervisory, | Rs. 12.25 (for work above ground) Rs. 14.75 (for work below ground) |
|---|--|

1

2

Skilled :

| | |
|---|--|
| (1) Blacksmith, (2) Blaster (shot-firer), (3) Carpenter, (4) Charge-man (6) Chemist, (6) Compounder, (7) Draughtsman, (8) Driller, (9) Driver, (10) Electrician, (11) Fitter, (12) Foreman, (13) Mason, (14) Mechanic, (15) Midwife, (16) Mistry, (17) Moulder, (18) Operator, (19) Overseer, (20) Painter, (21) Pipefitter, (22) Supervisor, (23) Surveyor, (24) Tin-smith, (25) Timberman, (26) Turner, (27) Welder, (28) Wireman, (29) Other categories by whatever name called which are skilled. | Rs. 15.00 (for work above ground) Rs. 18.00 (for work below ground) |
|---|--|

Clerical :

| | |
|--|-----------|
| (1) Cashier, (2) Clerk, (3) Register keeper, (4) Store-keeper, (5) Tracer, (6) Time-keeper, (7) Typist, (8) Other categories by whatever name called which are clerical. | Rs. 15.00 |
|--|-----------|

Explanations for the purpose of this notification :

(1) The minimum rates of wages are all inclusive rates including the basic rate, the cost of living allowance and the cash value of the concessional supply, if any, of essential commodities and include also the wages payable for the weekly day of rest.

(2) The minimum rates of wages are applicable to employees employed by contractors also.

(3) The minimum rates of wages for persons below 18 years of age and for disabled persons shall be 80 per cent and 100 per cent of the rates payable to the adult workers of the appropriate category as specified in the Schedule above.

(4) (a) "unskilled" work is one which involves simple operations requiring little or no skill or experience on the job;

(b) "semi-skilled" work is one which involves some degree of skill or competence acquired through experience on the job and which is capable of being performed under the supervision or guidance of a skilled employee and includes unskilled supervisory work;

(c) "skilled" work is one which involves skill or competence acquired through experience on the job or through training as an apprentice in a technical or vocational institute and the performance of which calls for initiative and judgement.

(5) Where the existing rates of wages of any employee, based on contract or agreement or otherwise are higher than the rates notified herein,

the higher rates shall be treated as the minimum rates of wages applicable for the purpose of this notification to such employees.

(6) Workers engaged in excavating, breaking/ sorting and dressing of redoxide ores and also for doing other works incidental thereto performed by the same person at red oxide bed roof shall be regarded as "Miner".

[S-32019]3/83-WC(MW)]

का० आ० 752 (अ).—कोमाइट खानों में नियोजित कर्मचारियों के प्रवर्गों की संश्लेष मजदूरी की न्यूनतम दरों के पुनरीक्षण के लिए प्रस्तावनाएं, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) की अनेकानुसार उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रिनके प्रसारित होने के संभावना थी, भारत सरकार के धन और पुनर्वास मंत्रालय (धन विभाग) की अधिसूचना सं० का० आ० 440 (अ) तारीख 18 जून, 1983 के अधीन भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 3, खण्ड 3, उपखंड (2) तारीख 20 जून, 1983 के पृष्ठ 3-4 पर प्रकाशित की गई थी। उक्त व्यक्तियों से उक्त अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से दो मास की अवधि के अन्ततः तक आशेष और सूभाव मंगे गए थे:

और उक्त राजपत्र 20 जून, 1983 को जनता की उपलब्ध करा दिया गया था:

और केन्द्रीय सरकार ने उक्त प्रस्तावनाओं के संबंध में प्राप्त आशेषों और सूभावों पर विचार कर लिया है,

अतः, केन्द्रीय सरकार, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (3) और धारा 5 की उपधारा (2) के साथ पठित धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के धन मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० आ० 838 (अ) तारीख 2 सितम्बर, 1982 को अधिकांशतः कर्तव्य तथा सहायक बोर्ड से परामर्श करने के पश्चात् कोमाइट खानों के नियोजित ऐसे कर्मचारियों के प्रवर्गों को, जो हमने उदाहरण अनुसूची के स्तम्भ (1) तत्स्थानों प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट है, संश्लेष मजदूरी की न्यूनतम दरें उक्त अनुसूची के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट रूप में पुनर्निर्दिष्ट करती है और विदेश देती है कि यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी।

अनुसूची

| कार्य का वर्गीकरण | दैनिक मजदूरी की न्यूनतम दरें |
|-------------------|------------------------------|
| 1 | 2 |

कोमाइट खानें

अकुशल :

| | |
|---|--|
| आया, परिवारिका, बेकर (हस्त चालित उपकरण का प्रयोग करने वाला), बेलघार, (केस्टोन), चोकोवार, कर्पेनर, रसोईया, मखनार, हथोड़ा चलाते वाला, लवाई करने वाला, लारी मखनार, मजदूर (पुष्प, स्त्री), सर्वेक्षक, | 9.75 रु० (भूमि के ऊपर कार्य करने के लिए) 11.75 रु० (भूमि के नीचे कार्य करने के लिए) |
|---|--|

1

2

खलासी, भाकिस बाव, चपरासी/संदेशवाहक, सफेस लेंडर, माइकल (पुष्प/स्त्री), चोकोवार, पानी बासा, पानी ले जाने वाला, लकड़ा काटने वाला, अन्य प्रवर्ग चाहे वे किसी भी नाम से ज्ञात हों, जो अनुशाल हों।

अर्द्धकुशल/अकुशल पर्यवेक्षी :

| | |
|--|---|
| विस्फोटक, सहायक फिट्टर, सहायक, फ़िल प्रवाहक, सहायक, परिवारिक "ग" प्रवर्ग सहायक मैकेनिक फेस बैक्समेन, ब्रेकर (यांत्रिक उपकरणों के लिए), का प्रयोग करने वाला, बटनर, सह-रसोईया, अभिरक्षक (रसोईया, बेकर, चार्जिंग सहायक, ओषागार परिवारिक, मखनार, बड़ई), लोहार, मिस्त्री मैकेनिक, हथोड़ा चलाते वाला, लैम्प रूम परिवारिक, पम्प परिवारिक, माथो, खतन मंद, खनक, मैकेनिक, मखनार मेज रार, प्वांटरन, पारसी, टेसीफोन परिवारिक, टिम्बरमेन, अग्रनिशिन, केब परिवारिक, रोगनदन, पंखा परिवारिक, अन्य प्रवर्ग चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हों, जो अर्द्धकुशल/अकुशल पर्यवेक्षी हैं। | 12.25 रु० (भूमि के ऊपर कार्य करने के लिए) 14.75 रु० (भूमि के नीचे कार्य करने के लिए) |
|--|---|

कुशल :

| | |
|--|---|
| एयर विन हालेअ प्रवालक, आटो विजली मिस्त्री, पेंटर, लोहार, विस्फोटक, संपोषित प्रवालक/बालक, कंक्रिट मिश्रक प्रवालक, चार्जिंग, बड़ई, कम्पाउंडर, कैमिस्ट, फ़िल प्रवालक, ड्राईवर, आटा विजली मिस्त्री, बेतार प्रवालक, फार्मेटर, फिट्टर, फेरो ड्राईवर, होट प्रवालक/वाहन आर्द एम. सी. ओ. ड्राईवर, इगुगर जारो ड्राईवर, लोको ड्राईवर, लोडर, प्रवालक, लाइन मेन मैकेनिक, मिस्त्री, मिडवैइफ, मिस्त्री पम्प प्रवालक/बालक, कुशल मजदूरी, पर्यवेक्षी मैकेनिक/पर्यवेक्षी विजली पम्पर बलिज प्रवालक, सर्वेक्षक, एयेण्ट मैकेनिक, टर्नर, टिम्बर मिस्त्री, वायर मेन, वेल्डर, बर्क मिस्त्री, इजन बालक, पहरा और निगरानी प्रवारी, अन्य प्रवर्ग चाहे वे किसी भी नाम से ज्ञात हों, जो कुशल हैं। | 15.00 रु० (भूमि के ऊपर कार्य करने के लिए) 18.00 रु० (भूमि के नीचे कार्य करने के लिए) |
|--|---|

लिपिकीय :

| | |
|--|-----------|
| लेखाकार, सहायक लिपिक, मैगजीन लिपिक, रोकशिया, मुंशी, अभिलेखापाल/काईल, लिपिक, भण्डारी, आशुभितिक, टाईमकीपर, टंकक, अन्य प्रवर्ग चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हों, जो लिपिकीय हैं। | 15.00 रु० |
|--|-----------|

स्पष्टीकरण : इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए—

(1) (क) "अकुशल कार्य" से वह कार्य अभिप्रेत है जिसमें कार्य की बहुत थोड़ी कुशलता या अनुभव अपेक्षित करने वाली अवस्था कुछ भी कुशलता या अनुभव न अपेक्षित करने वाली साधारण क्रियाएं सम्मिलित हैं;

(ख) "अर्द्धकुशल कार्य" से वह कार्य अभिप्रेत है जिसमें कार्य के अनुभव से अजिह कुछ मात्रा में कुशलता या सक्षमता सम्मिलित है और जो

कुशल कर्मचारी के पर्यवेक्षण या मार्ग दर्शन के अधीन किए जाने योग्य है और इसके अंतर्गत अकुशल पर्यवेक्षी कार्य भी आता है;

(ग) "कुशल कार्य" से वह कार्य अभिप्रेत है जिसमें कार्य के अनुभव से अथवा शिक्षा के रूप में या कितनी तकनीकी या ग्यावसायिक संस्था में प्रशिक्षण के माध्यम से अर्जित कुशलता या सक्षमता अपेक्षित है और जिसके पालन में स्वप्रेरणा और विवेकबुद्धि आवश्यक है।

2. प्रस्तावित न्यूनतम दरें सर्वसम्मिलित दरें हैं, जिनमें आधारी दर, जीवन निर्वाह भत्ता, आवश्यक वस्तुओं के रियायती दर पर किए गए प्रवासों का, यदि कोई हो, नकदी मूल्य सम्मिलित है तथा साप्ताहिक विश्राम के लिए देय मजदूरी भी सम्मिलित है।

3. मजदूरों को न्यूनतम दर डेफेंसरी द्वारा नियोजित कर्मचारियों को भी लागू है।

4. जहाँ संविदा या करार आवि पर आधारित मजदूरों की विद्यमान दरें प्रोविनिस के प्रयोजन अधिसूचित दरों से उच्चतर हैं वहाँ ऐसी उच्चतम दरें तर्जिमा की जायेंगी और वे न्यूनतम मजदूरों की दरें माना जाएंगी।

5. अठारह वर्ष से कम आयु के और असमर्थ व्यक्तियों को देय मजदूरी की न्यूनतम दरें समुचित प्रवर्ग के व्यस्क कर्मचारियों को संदेय दरों का क्रमशः 80 प्रतिशत और 100 प्रतिशत होगी।

6. कोमाइट खात में काम करने वाला श्रमिक, जो उरखतन और कोमाइट अयस्क हटाने तथा इसके सम्बन्ध कार्य में लगा है, "खनक" माना जाएगा।

[एस 32019(3)/83-इस्सू सी (एम. इस्सू)]

S.O. 752(E).—Whereas certain proposals to revise the minimum rates of wages payable to the categories of employees employed in chromite mines were published as required by clause (b) of sub-section (1) of section 5 of the Minimum Wages Act, 1948 (11 of 1948) at pages 4-5 of the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 20th June, 1983 under the notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Rehabilitation (Department of Labour) number S.O. 440(E) dated the 18th June, 1983 for information of and inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby, till the expiry of the period of two months from the date of publication of the said notification in the Official Gazette;

And whereas the said Gazette was made available to the public on the 20th June, 1983;

And whereas the objection and suggestions received on the said proposals have been considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 3 read with clause (iii) of sub-section (1) of section 4 and sub-section (2) of section 5 of the Minimum wages Act, 1948 (11 of 1948) and in supersession of notification of the Government of India in the Ministry of Labour number S.O. 638(E) dated the

2nd September, 1982, the Central Government, after consulting the Advisory Board, revises the minimum rates of wages as specified in column (2) of the Schedule annexed hereto payable to the categories of employees employed in employments in chromite mines as specified in the corresponding entries in column (1) of the said schedule and directs that this notification shall come into force on the date of its publication in the official Gazette.

SCHEDULE

| Classification of work | Minimum rates of wages per day |
|------------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 |

UNSKILLED

| | |
|--|---|
| Ayah, Attendant, Breaker (using manual appliances), Beldar (canteen), chowkidar, cleaner, cook-helper, hammerman, loader, lorry helper, Mazdoor (male/female), Survey khalasi, Sweeper (male/female), Surface lander, Office boy, Watchman, Waterman, Water Carrier, Peon, Messenger, Wood cutter, other categories by whatever name called which are unskilled. | Rs. 9.75 (for work above ground) Rs. 11.75 (for work below ground) |
|--|---|

SEMI-SKILLED/UNSKILLED SUPERVISORY

| | |
|---|--|
| Assistant to balster, Assistant to fitter, Assistant drill operator, Attendant 'C' category, Assistant mechanic, Banksman, Breaker (using mechanical appliances), Butler-cum-cook, Caretaker, Cook, Checker, Charge room Assistant, Dispensary attendant, Helper (carpenter, blacksmith, mason, mechanic, (mining), Hammerman, Miner, Lamp room attendant, Pump attendant, Mali, Mining mate, Mechanic helper, Mall runner, Points-man, Sampler, Telephone Attendant, Timberman, Untrained creche attendant, Ventilation fan attendant. Other categories by whatever name called which are semi-skilled/unskilled category. | Rs. 12.25 (for work above ground) Rs. 14.75 (for work below ground) |
|---|--|

SKILLED

| | |
|--|--|
| Airwinch haulage operator, Auto-electrician, Painter, Blacksmith, Blaster, Compressor operator/Driver, Concrete mixer operator, Charginan, Carpenter, Compo- under, Chemist, Drill operator, Drill mechanic, Driver auto. Electrician, Wireless Operator, Foreman, Fitter, Ferry driver, Hoist operator/Driver, IMCO driver, Issuer Lorry driver, Loco driver, Loader operator, Lineman, Mechanic, Mason, Midwife, Mistry, | Rs. 15.00 (for work above ground) Rs. 18.00 (for work below ground) |
|--|--|

1

2

Pump operator/Driver, Skilled mazdoor, supervisor (Mechanic), Supervisor Electrical, Stone crusher operator, Surveyor, Senior Mechanic, Turner, Timber Mistry, Wireman, Welder, Work Mistry, Mining engine Driver, Incharge of watch and ward. Other categories by whatever name called which are skilled.

CLERICAL

Accountant, Assistant, Clerk, Magazine clerk, Cashier, Munshi, Record keeper/File clerk, store keeper, Stenographer, Time-keeper, Typist. Other categories by whatever name called which are clerical.

Explanation: For the purpose of this notification:—

- (1) (a) 'unskilled work' is one which involves simple operations requiring little or no skill or experience on the job.
- (b) 'semi-skilled work' is one which involves some degree of skill or competence acquired through experience on the job and which is capable of being performed under the supervision or guidance of a skilled employee and includes unskilled supervisory work;
- (c) 'skilled work' is one which involves skill or competence acquired through experience on the job or through training as an apprentice in a technical or vocational institute and the performance of which calls for initiative and judgement.

(2) The minimum rates of wages fixed are all-inclusive rates including the basic rate, the cost of living allowance and the cash value of concessional supply, if any, of essential commodities and also includes the wages payable or the weekly day of rest.

(3) The minimum rates of wages are applicable to employees employed by the contractors also.

(4) Where the prevailing rates of wages based on contract, agreement etc. are higher than the rates notified under the Act, the higher rates would be protected and treated as minimum wages.

(5) The minimum rates of wages for young persons below 18 years of age and disabled persons shall be 80 per cent and 100 per cent respectively of the rates payable to adult workers of the appropriate category.

923 GI/83-4

(c) A worker in a chromite mine who is engaged in extraction and removal of chromite ores as well as incidental jobs shall be designated as 'Minor'.

[No. S-32019(3)|83-WC(MW)]

का० आ० 753 (अ):—गांधी खानों में नियोजित कर्मचारियों के प्रवर्गों को संदेय मजदूरी की न्यूनतम दरों के पुनरीक्षण के लिए कुछ प्रस्थापनाएं, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11), की धारा 5 की उपधारा (i) के खंड (ख) की अपेक्षानुसार उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए जिनके उनसे प्रभावित होने की संभावना थी, भारत सरकार के श्रम और पुनर्वास मंत्रालय (श्रम विभाग) की अधिसूचना सं० का० आ० 451 (अ) तारीख 18 जून, 1983 के अधीन भारत के राजपत्र असाधारण, भाग-2, खंड 3, उपखंड (ii) तारीख 20 जून, 1983 के पृष्ठ 26-27 पर प्रकाशित की गई थी। उक्त व्यक्तियों से उक्त अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से दो मास की अवधि के अवसान तक आक्षेप और सुझाव मांगे गए हैं :

और उक्त राजपत्र 20 जून, 1983 को जनता को उपलब्ध करा दिया गया था;

और केन्द्रीय सरकार ने उक्त प्रस्थापनाओं के संबंध में प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर विचार कर लिया है;

अतः, केन्द्रीय सरकार, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (iii) और धारा 5 की उपधारा (2) के साथ पठित धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० अ० 637 (अ) तारीख 2 मिनम्बर, 1982 को अधिकांश करते हुए तथा सलाहकार बोर्ड से परामर्श करने के पश्चात् तांबा खानों के नियोजन में नियोजित ऐसे कर्मचारियों के प्रवर्गों को, जो इससे उपाब्ध अनुसूची के स्तम्भ (1) तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट हैं, संवेद्य मजदूरी की न्यूनतम दरें उक्त अनुसूची के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट रूप में पुनरीक्षित करती है और निर्देश देती है कि यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी।

અનુસૂચી

| कार्य का वर्गीकरण | दैनिक मजदूरी की न्यूनतम दरें |
|--|---|
| 1 | 2 |
| अकुशल : | |
| माया, ब्रेकर (हस्तचालित साधनों का उपयोग करने वाले), चौकीदार, कचोतर, रसोइया, मददगार, हथौड़ा चलाने वाला, ड्रामर, मजदूर (पुरुष या महिला) आफिसबाय, चपरासी/भंडेवावाहक, पानी वाला, सर्वेक्षक, खलासी, झाड़ूकण (पुरुष/महिला) प्रहरी, अन्य प्रवर्ग चाहें वे किसी भी नाम से जान हों, जो अकुशल हैं। | 9.75 रु० (भूमि के ऊपर कार्य करने के लिए) 11.75 रु० (भूमि के नीचे कार्य करने के लिए) |
| अर्धकुशल/अकुशल पर्यवेक्षी : | |
| विस्फोटकर्ता का मददगार, फिटर का मददगार, सहायक त्रिष प्रचालक, त्रेकर, (यांत्रिक साधनों का उपयोग करने वाला), बटलर और रसोइया, चैकर, ओघालय, परिवार, मददगार, (बगई, | 12.25 रु० (भूमि के ऊपर कार्य करने के लिए) 14.75 रु० (भूमि के नीचे कार्य करने के लिए) |

1

2

सोहार, राज, मैकेनिक, खनक*, (लैम्प रूम परिसर, पम्प परिसर माली, खनक मेंट, पाइपिंग-मैन, नमूना लेने वाला, टेलीफोन परिसर, अप्रशि-सित शिक्षक परिसर, संवातन पंखा परिसर, अन्य प्रवर्ग बाह्य वे किसी भी नाम से जान हों, जो अर्द्धकुशल या अकुशल पर्यवेक्षी है।

कुशल

बायु विच, कर्षण प्रचालक, आटो, बिजली मिस्त्री, 15.00 रु० (भूमि के ऊपर पेन्टर, खोदार्ग, बिस्फोटकता, संपीड़न प्रचालक, कार्य करने के लिए) कंथीट मिश्रण प्रचालक, चार्जमैन, फिटर, पैरो 18.00 रु० (भूमि के नीचे चालक, उत्तोलक चालक, लाईन मैन, मैकेनिक, कार्य करने के लिए) राज, मिडवाइफ, मिस्त्री, पम्प प्रचालक, कुशल मजदूर पर्यवेक्षक (मैकेनिक), प्रस्मर वनित्र प्रचालक, इसको चालक, लोको चालक, निमको लोडर आपरेटर, सर्वेक्षक, टर्नर, क्राण्ट मिस्त्री, बायरमैन, वेल्डर, कार्य मिस्त्री, वाईडिंग इंजन चालक, भार माधक निर्गमनी, अन्य प्रवर्ग बाह्य वे किसी भी नाम से जान हों, जो कुशल है।

लिपिकीय

लेखापाल, सहायक लिपिक, पत्रिकाविक, रोक- 15.00 रुपए ड्रिया, मूषी, अभिलेखापाल/फार्मल लिपिक, भंडारी टाईम कीपर, आशुलिपिक, टंकक, अन्य प्रवर्ग बाह्य वे किसी भी नाम से जान हों, जो लिपिकीय है।

स्पष्टीकरण: इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए—

1. (क) "अकुशल कार्य" से वह कार्य अभिप्रेत है, जिसमें बहुत कुशलता अपेक्षित करने वाली या कुछ भी कुशलता अथवा अनुभव न अपेक्षित करने वाली साधारण क्रियाएं सम्मिलित हैं;

(ख) "अर्द्धकुशल कार्य" से वह कार्य अभिप्रेत है जिसमें कार्य के अनुभव से अजित कुछ मात्रा में कुशलता या सक्षमता सम्मिलित है और जो कुशल कर्मचारी के पर्यवेक्षण या मार्ग दर्शन के अधीन किए जाने योग्य है और इसके अन्तर्गत अकुशल पर्यवेक्षी कार्य भी है;

(ग) "कुशल कार्य" से वह कार्य अभिप्रेत है जिसमें कार्य के अनुभव से अथवा शिष्टु के रूप में या किसी तकनीकी या व्यावसायिक संस्था में प्रशिक्षण के माध्यम से अजित कुशलता या सक्षमता अपेक्षित है जिसके पालन में स्वप्रेरणा और विवेकबुद्धि आवश्यक है।

2. मजदूरी की प्रस्तावित न्यूनतम दरें वे सर्वसम्मिलित दरें हैं जिनमें आधारो दर, जीवन निर्वाह भत्ता, आवश्यक वस्तुओं के रियायती दर पर किए गए प्रदायों का यदि कोई हो, नकदी मूल्य सम्मिलित है तथा मास-ताहिक विश्राम के लिए देय मजदूरी भी सम्मिलित है।

3. मजदूरी की न्यूनतम दरें ठेकेदारों द्वारा नियोजित कर्मचारियों को भी लागू हैं।

4. जहां संविदा या करार या आधारीत मजदूरी की विद्यमान दरें इस अधिसूचना द्वारा अधिसूचित वर्गों से उच्चतर हैं वहां ऐसी उच्चतर दरें से इस अधिसूचना के प्रयोजनार्थ न्यूनतम मजदूरी की दरें समझी जाएंगी।

5. अठारह वर्ष से कम आयु के और असमर्थ व्यक्तियों को देय मजदूरी की न्यूनतम दरें समुचित प्रवर्ग के व्यस्क कर्मचारियों के लिए इस अधिसूचना द्वारा नियत दरों का क्रमशः 80 प्रतिशत और 100 प्रतिशत होगी।

6. ताम्र खान में काम करने वाले श्रमिक जो बेलचो लोहे की कड़ाहियों आदि जैसे विभिन्न उपकरणों के प्रयोग से माईनकार य. स्क्वर पथ या स्क्रिप आदि में विस्फोटित ताम्र अयस्क, अपशिष्ट या कूड़ा-करकट याद करके ताम्र अयस्क, के निकालने, अपनी गतिविधि सुविधाजनक बनाने के लिए बड़े खण्डों को तोड़ने और या कूड़ा करकट अपशिष्ट सफा करने और/या जब आवश्यक हो छट्टों का प्रयोग करके लूज अयस्क नीचे गिराने की प्रक्रिया में सीधे अन्तर्गत है और ऐसे श्रमिक भी जो न्यूनतमिक इसी प्रकार का कार्य करते हैं; को "खनक" माना जाएगा।

[एस-32019/3/83-उड्यू. सी. (एम. डब्ल्यू.)]

S.O. 753(E).—Whereas certain proposals to revise the minimum rates of wages payable to the categories of employees employed in copper mines were published as required by clause (b) of sub-section (1) of section 5 of the Minimum Wages Act, 1948 (11 of 1948) at pages 27-28 of the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (ii), dated the 20th June, 1983 under the notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Rehabilitation (Department of Labour) number S.O. 451(E) dated the 18th June, 1983 for information of and inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby till the expiry of the period of two months from the date of publication of the said notification in the Official Gazette;

And whereas the said Gazette was made available to the public on the 20th June, 1983;

And whereas the objections and suggestions received on the said proposals have been considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 3 read with clause (iii) of sub-section (1) of section 4 and sub-section (2) of section 5 of the Minimum Wages Act, 1948 (11 of 1948) and in supersession of notification of the Government of India in the Ministry of Labour number S.O. 637(E) dated the 2nd September, 1982, the Central Government, after consulting the Advisory Board, revised the minimum rates of wages as specified in column (2) of the Schedule annexed hereto, payable to the categories of employees employed in employments in copper mines as specified in the corresponding entries in column (1) of the said Schedule and directs that this notification shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

SCHEDULE

| Classification of work | Minimum rates of wages per day |
|---|----------------------------------|
| (1) | (2) |
| Unskilled | |
| Ayah, Breaker (using manual appliances), Beldar (canteen), Chowkidar, Cleaner, Cook-helper, (Ham- | Rs. 9.75 (for work above ground) |

| 1 | 2 |
|--|-----------------------------------|
| merman, Trammer, Mazdoor (male or female), Office-boy, Peon/Messenger, Survey Khalasi, Sweeper, (male or female), Watchman, Water-man, other categories by whatever name called which are unskilled. | Rs. 11.75 (for work below ground) |

Semi-skilled/Unskilled Supervisory

| | |
|---|--|
| Assistant to blaster, Assistant fitter, Assistant drill operator, Breaker (using mechanical appliances), Butler-cum-cook, Caretaker, Cook, Checker, Dispensary attendant, Helper (carpenter, blacksmith, mason, mechanic, mining), *Miner, Lamp room attendant, Pump attendant, Mali, Mining mates, Pointsman, Sampler, Telephone attendant, Untrained creche attendant, Ventilation fan attendant, Other categories by whatever name called which are semi-skilled or unskilled supervisory. | Rs. 12.25 (for work above ground) Rs. 14.75 (for work below ground) |
|---|--|

Skilled

| | |
|--|--|
| Airwinch, Haulage-operator, Auto-electrician, Painter, Blacksmith, Blaster, Compressor operator, Concrete mixture operator, Changan, Carpenter, Compunder, Chemist, Drill operator, Drill mechanic, Driver auto, Electrician, Foreman, Fitter, Ferro driver, Hoist operator, Lineman, Mechanic, Mason, Midwife, Mistry, Pump operator, Skilled mazdoor, Supervisor (Mechanic), Stone crusher operator, IMCO driver, Loco driver, Limco Loader operator, Surveyor, Turner, Timber mistry, Wireman, Welder, Work Mistry, Winding Engine driver, Incharge watch and ward, other categories by whatever name called which are skilled. | Rs. 15.00 (for work above ground) Rs. 18.00 (for work below ground) |
|--|--|

Clerical

| | |
|--|-----------|
| Accountant, Assistant, Clerk, Magazine clerk, Cashier, Munshi, Record keeper/File clerk, Store keeper, Time keeper, Stenographer, Typist, Other categories by whatever name called which are clerical. | Rs. 15.00 |
|--|-----------|

Explanation : For the purpose of this notification :

1. (a) "unskilled work" is one which involves simple operations requiring little or no skill or experience on the job.
- (b) semi-skilled" work is one which involves some degree and skill or competence ac-

quired through experience on the job and which is capable of being performed under the supervision or guidance of a skilled employee and includes unskilled supervisory work.

- (c) "skilled" work is one which involves skill or competence acquired through experience on the job or through training as an apprentice in a technical or vocational institute and the performance of which calls for initiative and judgement.

2. The minimum rates of wages proposed are all inclusive rates including the basic rate, the cost of living allowance and the cash value of concessional supply, if any, of essential commodities and include also the wages payable for the weekly day of rest.

3. The minimum rates of wages are applicable to employees employed by contractors also.

4. Where the existing rates of wages based on contract or agreement or otherwise are higher than the rates notified under this notification, the higher rates shall be treated as minimum rates of wages for the purposes of this notification.

5. The minimum rates of wages for young persons below 18 years of age and disabled persons shall be 80 per cent and 100 per cent respectively of the rates payable to adult workers of the appropriate category.

6. A worker in a copper mine who is directly involved in the process of extraction of copper ore by way of loading the blasted copper ore, waste or marks into mine car or scrapper path, or skip, etc. with the use of various equipments like Shevals, iron pans, etc. and breaking of larger boulders to facilitate their movement and/or cleaning muckpiles/scrap and/or using bars to bring down loss or as and when required and also such of those who perform more or less similar jobs shall be regarded as a 'Miner'.

[F. No. S-32019(3)/83-WC(MW)]

का० आ० 754 (अ).—अप्रकृतियों में नियोजित कर्मचारियों के प्रवर्गों को संश्लेष मजदूरी की न्यूनतम दरों के पुनरीक्षण के लिए कुछ प्रस्थापनाएं, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) की अपेक्षाानुसार उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए, जिनके उनसे प्रभावित होने की संभावना थी, भारत सरकार के श्रम और पुनर्वास मंत्रालय (श्रम विभाग) की अधिसूचना सं० का० आ० 452 (अ) तारीख 18 जून, 1983 के अधीन भारत के राजपत्र असाधारण, भाग 2, खण्ड 3, उपखंड (ii) तारीख 20 जून, 1983 के पृष्ठ 28-29 पर प्रकाशित की गई थी। उक्त व्यक्तियों से उक्त अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से दो मास की अवधि के अवसान तक आक्षेप और सुझाव मागे गए थे और उक्त राजपत्र 20 जून, 1983 को जनता को उपलब्ध करा दिया गया था;

और केन्द्रीय सरकार ने उक्त प्रस्थापनाओं के संबंध में प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर विचार कर लिया है;

अतः, केन्द्रीय सरकार, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (iii) और धारा 5 की उपधारा (2) के साथ पठित धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (ख) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० जा० 640 (अ) तारीख 2 सितम्बर, 1982 को अधिकृत करते हुए तथा सलाहकार बोर्ड से परामर्श करने के पश्चात् अधक श्रमिकों के नियोजन में नियोजित ऐसे कर्मचारियों के प्रवर्गों को, जो इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (1) तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट हैं, संवेद्य मजदूरी की न्यूनतम दरें उक्त अनुसूची के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट रूप में पुनरीक्षित करनी हैं और निर्देश देती हैं कि यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख को प्रवृत्त होगी।

अनुसूची

| कार्य का वर्गीकरण | दैनिक मजदूरी की न्यूनतम दरें |
|-------------------|------------------------------|
| 1 | 2 |

अकुशल :

| | |
|---|--|
| मजदूर (पुरुष और महिला), क्लीनर, सर्वेक्षक, आफिस बाय, वाचमैन, खलासी, पानी वाला, मरदानगर, सवाई करने वाला, माली, अन्य प्रवर्ग चाहे वे किसी भी नाम से ज्ञात हों, जो अकुशल प्रकृति के हैं। | 9.75 रु० (भूमि के ऊपर कार्य करने के लिये) 11.75 रु० (भूमि के नीचे कार्य करने के लिये) |
|---|--|

अर्धकुशल :

| | |
|--|---|
| हथौड़ा चलाने वाला, अन्नक कटर श्रेणी-2, सार्टर, ड्रेसर श्रेणी-2, गेज कर्मकार, खनक, डिस्क कर्मकार, परिष्कार, रसोइया, विस्फोटक, वाहक, गनमैन, वाइन्डिंग इंजन चालक, इंजन चालक श्रेणी-2, शिपर, वैस्ट कटर, सहायक फिटर, अन्य प्रवर्ग चाहे वे किसी भी नाम से ज्ञात हों, जो अर्धकुशल प्रकृति के हैं। | 12.25 रु० (भूमि के ऊपर कार्य करने के लिये) 14.75 रु० (भूमि के नीचे कार्य करने के लिये) |
|--|---|

कुशल :

| | |
|--|---|
| ड्रिलर, विस्फोटकर्ता, मिस्त्री, अन्नक कटर श्रेणी-1, बर्क, लोहार, ड्रेसर श्रेणी-1, खनन मेट, इंजन चालक, फिटर, टर्नर, बिजली मिस्त्री, यान चालक, राज, मॉल्डर, वेल्डर, वाइन्डिंग इंजन, चालक श्रेणी-1, फायरमैन, शाट फायरर, कम्प्रेसर चालक, मैकेनिक, पम्प फैन चालक, ग्राइन्डर, सिरदार, लेथमैन, अन्य प्रवर्ग चाहे वे किसी भी नाम से ज्ञात हों, जो कुशल प्रकृति के हैं। | 15.00 रु० (भूमि के ऊपर कार्य करने के लिये) 18.00 रु० (भूमि के नीचे कार्य करने के लिये) |
|--|---|

लिपिकीय :

| | |
|---|-----------|
| लेखापाल, टंक/आशुलिपिक, कम्पाउन्डर, मंडारी/मंडार भार साधक, शिपट भार साधक, टाईस कीपर, रोकड़िया, शिशुकषा परिवार, पर्यवेक्षी, अन्य प्रवर्ग चाहे वे किसी भी नाम से ज्ञात हों, जो लिपिकीय प्रकृति के हैं। | 15.00 रु० |
|---|-----------|

स्पष्टीकरण : इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिये—

1. प्रस्तावित न्यूनतम दरें सर्वसम्मिलित दरें हैं जिसमें आधारी दर, जीवन निर्वाह भत्ता, आवश्यक वस्तुओं के रियायती दर पर किये गये प्रवासों यदि कोई हों, का नकदी भूय सम्मिलित है तथा साप्ताहिक विश्राम के लिये देय मजदूरी भी सम्मिलित है।

2. मजदूरी की न्यूनतम दरें ठेकेदारों द्वारा नियोजित कर्मचारियों को भी लागू हैं।

3. जहाँ संविदा या कगार पर आधारित या अन्यथा मजदूरी की विद्यमान दरें ऊपर विनिर्दिष्ट दरों से उच्चतर हैं वहाँ ऐसी उच्चतर दरें संरक्षित की जायेंगी और न्यूनतम मजदूरी की दरें मानी जायेंगी।

4. (क) "अकुशल कार्य" से वह कार्य अभिप्रेत है जिसमें कार्य को बहुत थोड़ी कुशलता या अनुभव अपेक्षित करने वाली या कुछ भी कुशलता या अनुभव न अपेक्षित करने वाली साधारण क्रियायें सम्मिलित हैं;

(ख) "अर्धकुशल कार्य" से वह कार्य अभिप्रेत है जिसमें कार्य के अनुभव से अर्जित कुछ मात्रा में कुशलता या गतिमत्ता सम्मिलित है और जो कुशल कर्मचारी के पर्यवेक्षण या मार्ग दर्शन के अधीन किये जाने योग्य है और इसके अन्तर्गत अकुशल पर्यवेक्षी कार्य भी आता है;

(ग) "कुशल कार्य" से वह कार्य अभिप्रेत है जिसमें कार्य के अनुभव से अथवा शिष्ट के रूप में या किसी तकनीकी या व्यावसायिक संस्था में प्रशिक्षण के माध्यम से अर्जित कुशलता या सक्षमता अपेक्षित है जिसके पालन में स्वप्रेरणा और विवेकबुद्धि आवश्यक है।

5. अठारह वर्ष से कम आयु के और असमर्थ व्यक्तियों को देय मजदूरी की न्यूनतम दरें समुचित प्रवर्ग के कर्मचारियों के लिये इस अधिसूचना द्वारा नियत दरों का क्रमशः 80 प्रतिशत और 100 प्रतिशत होगी।

6. अन्नक खान में काम करने वाला श्रमिक जो मलबों और मलबों की गंदगी से अन्नक की छटाई करके अन्नक निकालने, बोरियों में अन्नक के टुकड़ों/खिलों को भरने और हार्डस्टिंग स्टेशन या किसी अन्य निर्धारित स्थान तक ले जाने, मलबा एकत्र करना और हार्डस्टिंग स्थान या अन्य किसी निर्धारित स्थान तक ले जाने की प्रक्रिया में या न्यूनतम इसी प्रकार के कार्यों में सीधे अन्तर्गुह्य है, को "खनक" माना जायेगा।

[एस-32019/3/83-डब्ल्यू०सी० (एम०डब्ल्यू०)]

S.O. 754(E).—Whereas certain proposals to revise the minimum rates of wages payable to the categories of employees employed in mica mines were published as required by clause (b) of sub-section (1) of section 5 of the Minimum Wages Act, 1948 (11 of 1948) at pages 29-30 of the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated 20th June, 1983 under the notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Rehabilitation (Department of Labour) number S.O. 452(E) dated the 18th June, 1983 for information of and inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby till the expiry of the period of two months from the date of publication of the said notification in the Official Gazette;

And whereas the said Gazette was made available to the public on the 20th June, 1983;

And whereas the objections and suggestions received on the said proposals have been considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 3 read with clause (iii) of sub-section (1) of section 4 and sub-section (2) of section 5 of the Minimum Wages Act, 1948 (11 of 1948) and in supersession of notification of the Government of India in the Ministry of Labour number S.O.640 (E) dated the 2nd September, 1982, the Central Government after consulting the Advisory Board, revises the minimum rates of wages as specified in column (2) of the Schedule annexed hereto payable to the categories of employees employed in employments in mica miner as specified in the corresponding entries in column (1) of the said schedule and directs that this notification shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

SCHEDULE

| Classification of work | Minimum rates of wages per day |
|--|--|
| (1) | (2) |
| Unskilled | |
| Mazdoor (male and female) cleaner, Messenger/Office boy, Watchman, Khalasi, Waterman, Helper, Loader, Mali, any other categories by whatever name called which are of unskilled nature. | Rs. 9.75 (for work above ground) Rs. 11.75 (for work below ground) |
| Semi-Skilled | |
| Hammerman, Mica cutter-Grade II, Head Coolie, Sorter, Dresser-Grade II, Gauge worker, Disc worker, Attendant, Cook, Explosive carrier, Gun man, *Miner, Winding engine driver Grade II, Shearers, Waste cutter, Assistant fitter, any other categories by what-soever name called which are of semi-skilled nature. | Rs. 12.25 (for work above ground) Rs. 14.75 (for work below ground) |
| Skilled | |
| Driller, Blaster, Mistry, Mica cutters Grade I, Carpenter, Blacksmith, Dresser Grade I, Mining Mate, Engine Driver, Fitter, Turner, Electrician, Moulder, Welder, Vehicle driver, Mason, Winding engine driver Grade I, Fireman, Shot firer, Compressor driver, Mechanic, Pump driver, Grinders, Sirdar, Latheman, any other categories by whatever name called which are of skilled nature. | Rs. 15.00 (for work above ground) Rs. 18.00 (for work below ground) |

Clerical

Accountant, Typist/Steno, Clerk, Rs. 15.00
Compounder, Store keeper/In-charge, Shift incharge, Time Keeper, Cashier, Creche attendant, Supervisor, any other categories by whatever name called which are of clerical nature.

Explanation :—For the purpose of this notification,—

(1) The minimum rates of wages revised are all inclusive rates of wages and include the basic rate, the cost of living allowance and the cash value of concessional supply, if any, in respect of supplies of essential commodities and also the wages payable for the weekly day of rest.

(2) The minimum rates of wages are applicable to employees engaged by contractors also.

(3) Where the prevailing rates of wages based on contract or agreement or otherwise are higher than the rates specified above, the higher rates would be protected and treated minimum wages.

(4) (a) 'Unskilled work' is one which involves simple operations requiring little or no skill or experience on the job;

(b) 'semi-skilled work' is one which involves some degree of skill or competence acquired through experience on the job and which is capable of being performed under the supervision or guidance of a skilled employee and include unskilled supervisory work;

(c) 'skilled work' is one which involves skill or competence acquired through experience on the job or through training as an apprentice in a technical or vocational institute and the performance of which calls for initiative and judgement.

(5) The minimum rates of wages for young persons below 18 years of age and for disabled persons shall be 80 per cent and 100 per cent respectively of the rate fixed by this notification for adult workers of the appropriate category.

(6) A worker in a mica mine who is directly involved in the process of extraction of mica by way of sorting them from debris and mucking of debris, putting mica pieces/lumps in gunny bags and carrying them upto either hoisting station or any other assigned places collecting debris and carrying them to hoisting points or any other assigned places or performs

more or less similar jobs shall be regarded as 'Miner'.

[No. S-32019(3)/83-WC(MW)]

का०आ० 755(अ) :—लोह अयस्क खानों में नियोजित कर्मचारियों के प्रवर्गों को संदेय मजदूरी की न्यूनतम दरों के पुनरीक्षण के लिये कुछ प्रस्थापनाएँ, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) की अपेक्षानुसार उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिये जिनके उनसे प्रभावित होने की संभावना थी, भारत सरकार के श्रम और पुनर्वसन मंत्रालय (श्रम विभाग) की अधिसूचना सं० का०आ० 145 (अ) तारीख 18 जून, 1983 के अधीन भारत के राजपत्र, अमाशरण, भाग 2, खंड 3, उपखंड(ii) तारीख 20 जून, 1983 के पृष्ठ 13-14 पर प्रकाशित की गई थी। उक्त व्यक्तियों से उक्त अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से दो मास की अवधि के अन्ततः तक आशेष और सुझाव मंगे गये थे ;

और उक्त राजपत्र 20 जून, 1983 को जनता की उपलब्ध कर दिया गया था।

और केन्द्रीय सरकार ने उक्त प्रस्थापनाओं के संबंध में प्राप्त आशेषों और सुझावों पर विचार कर लिया है ;

अतः, केन्द्रीय सरकार, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11), की धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (iii) और धारा 5 की उपधारा (2) के साथ पठित धारा 3 की उपधारा (i) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना सं० का०आ० 632 (अ) तारीख 2 सितम्बर, 1982 को अधिकांश करने हुए तथा सलाहकार बोर्ड से परामर्श करने के पश्चात् लोह अयस्क खानों के नियोजन में नियोजित ऐसे कर्मचारियों के प्रवर्गों को जो इससे उपलब्ध अनुसूची के स्तम्भ (1) तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट है, संदेय मजदूरी की न्यूनतम दरें उक्त अनुसूची के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट रूप में पुनरीक्षित करती है और निदेश देती है कि यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी।

अनुसूची

| कार्य का वर्गीकरण | दैनिक मजदूरी की न्यूनतम दरें |
|-------------------|------------------------------|
| 1 | 2 |

अकुशल :

| | |
|--|---|
| (1) बटलर, (2) अभिरक्षक (3) चौकीदार, | 9.75 रु० (भूमि के ऊपर कार्य करने के लिये) |
| (4) बलीतर, (5) ड्रैमर, (6) श्रमिक, | |
| (7) लदाई करने वाला (8) मजदूर (9) | 11.75 रु० (भूमि के नीचे संवेश बाहक (10) सम्बर टेकर (11) आफिम बाय (12) चपरासी (13) पिकर, |
| (14) छंटाईकार (15) झाड़ूकश (16) | |
| ड्रामर (17) ड्रालीमैन (18) ड्राली ट्रिपर | |
| (19) पानी ले जाने वाला (20) खुदाई करने वाला (21) लचर (22) अन्य प्रवर्ग | |
| चाहे वे किसी भी नाम से ज्ञात हों जो अकुशल हैं। | |

अर्द्धकुशल/अकुशल पर्यवेक्षी :

| | |
|-------------------------------------|--|
| (1) आया (2) बैंक मैन (3) ब्रेक्समैन | 12.25 रु० (भूमि के ऊपर कार्य करने के लिये) |
| (4) केश गाई (5) चैकर (6) धोबी | |

| 1 | 2 |
|--|---|
| (7) रसोइया (8) फायरमैन (9) ग्राइंडर | 14.75 रु० (भूमि के नीचे कार्य करने के लिये) |
| (10) ग्रीजर हथौड़ा चलाने वाला (11) | |
| मददगार (बढ़ई डिग्लर, विस्फोटकर्ता क्रेजर प्रचालक) (13) जमादार (14) खलामी (कुल डोजर आदि) (15) लैम्प रूम इंचार्ज (16) मेट (धातु उत्पादक खान नियम 1961 के अधीन सक्षमता प्रमाणपत्र के बिना) (17) आयलर (18) प्वाइंटमैन (19) नमूना लेने वाला (20) माली (21) स्टोर्मेन (22) खनक (23) अन्य प्रवर्ग चाहे वे किसी भी नाम से ज्ञात हों, जो अर्द्धकुशल/अकुशल पर्यवेक्षी हैं। | |

कुशल :

| | |
|--|---|
| (1) लोहार (2) विस्फोटकर्ता (शॉट फायरर) | 15.00 रु० (भूमि के ऊपर कार्य करने के लिये) |
| (3) बढ़ई (4) बार्जमैन (5) रमायनज | |
| (6) कंपाउंडर (7) तक्शानवीम (8) | 18.00 रु० (भूमि के नीचे कार्य करने के लिये) |
| डिग्लर (9) ड्राइवर (10) बिजली मिस्त्री (11) फिटर (12) फोरमैन (13) राज (14) मैकेनिक (15) मिडवाइफ (16) मिस्त्री (17) मोल्डर (18) प्रचालक (19) ओवरसियर (20) पेंटर (21) पाइप फिटर (22) पर्यवेक्षक (23) सर्वेक्षक (24) टिनस्मिथ (25) टिम्बरमैन (26) खरादिया (27) वेल्डर (28) वायरमैन (29) सर्फम पर्यवेक्षक (30) मेट (धातु उत्पादक खान नियम 1961 के अधीन सक्षमता प्रमाण पत्र सहित) (31) शावेल प्रचालक (32) ब्ल्यू मैन (33) डोजर प्रचालक (34) डम्पर ट्रैक्टर प्रचालक (35) पेंटर (36) अन्य प्रवर्ग चाहे वे किसी भी नाम से ज्ञात हों जो कुशल हैं। | |

लिपिकीय :

| | |
|--|-------------|
| (1) रोकड़िया (2) लिपिक (3) रजिस्टर | 15.00 रुपये |
| कीपर (4) भण्डारी (5) ड्रैमर (6) टाइम कीपर (8) टंकक (8) अन्य प्रवर्ग चाहे वे किसी भी नाम से ज्ञात हों जो लिपिकीय हैं। | |

ग्राह्यीकरण : इस अधिसूचना के लिये :—

1. मजदूरी की न्यूनतम दरें सर्वमम्मिलित दरें हैं, जिनमें आधार की दर है, दर जीवन निर्वाह भत्ता, आवश्यक वस्तुओं के गिन्याती दर पर किये गये प्रदायों का, यदि कोई हो, नकदी मूल्य सम्मिलित है तथा माप्ताहिक विश्राम के लिये देय मजदूरी भी सम्मिलित है।

3. मजदूरी की न्यूनतम दरें ठेकेदारों द्वारा नियोजित कर्मचारियों को भी लागू है।

3. अठारह वर्ष से कम आयु के और अममर्थ व्यक्तियों को देय मजदूरी की न्यूनतम दरें समुचित प्रवर्ग के व्यस्क कर्मकारों को संदेय दरों का क्रमशः 80 प्रतिशत और 100 प्रतिशत होगी।

4. (क) "अकुशल कार्य" से वह कार्य अभिप्रेत है जिसमें कार्य की बहुत थोड़ी कुशलता या अनुभव अपेक्षित करने वाली अथवा

कुछ भी कुशलता या अनुभव न अपेक्षित करने वाली साधारण क्रियायें सम्मिलित हैं ;

(ख) "अर्द्धकुशल कार्य" से वह कार्य अभिप्रेत है जिसमें कार्य के अनुभव से अर्जित कुछ मात्रा में कुशलता या सक्षमता सम्मिलित है और जो कुशल कर्मचारी के पर्यवेक्षण या मार्ग दर्शन के अधीन किये जाने योग्य है और इसके अन्तर्गत अकुशल पर्यवेक्षी कार्य भी हैं ;

(ग) "कुशल कार्य" से वह कार्य अभिप्रेत है जिसमें कार्य के अनुभव से अथवा शिक्षा के रूप में या किसी तकनीकी या व्यावसायिक संस्था में प्रशिक्षण के माध्यम से अर्जित कुशलता या सक्षमता अपेक्षित है और जिसके पालन में स्वतंत्रता और विवेकबुद्धि आवश्यक है ।

5. जहाँ संविदा और कंगर पर आधारित या अन्यथा मजदूरी की विद्यमान दरें उसमें अधिसूचित दरों से उच्चतर हैं, वहाँ ऐसे कर्मचारियों को इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिये ऐसे उच्चतर दरें मजदूरी की न्यूनतम दरें मानी जायेंगी ।

(6) लोह अयस्क खानों में नियोजित वे श्रमिक "श्रमिक" माने जायेंगे, जो लोह-अयस्क के उत्खनन, तोड़ने, वर्गीकरण/भयन करने तथा ड्रैमिंग का कार्य करते हैं तथा लोह अयस्क बेड/रीफ पर इसके अन्य आनुषंगिक कार्य भी उसी व्यक्ति द्वारा किये जाने हैं ।

[एस-32019/3/83-इल्यू०सी० (एस०इल्यू०)]

S.O. 755(E).—Whereas certain proposals to revise the minimum rates of wages payable to the categories of employees employed in Iron Ore Mines were published as required by clause (b) of sub-section (1) of section 5 of the Minimum Wages Act, 1948 (11 of 1948) at pages 14-15 of the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (ii), dated the 20th June, 1983 under the notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Rehabilitation (Department of Labour) number S.O. 445(E) dated the 18th June, 1983 for information of and inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby till the expiry of the period of two months from the date of publication of the said notification in the Official Gazette;

And whereas the said Gazette was made available to the public on the 20th June, 1983;

And whereas the objections and suggestions received on the said proposals have been considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 3 read with clause (iii) of sub-section (1) of section 4 and sub-section (2) of section 5 of the Minimum Wages Act, 1948 (11 of 1948), and in supersession of notification of the Government of India in the Ministry of Labour number S.O. 632(E) dated the 2nd September, 1982 the Central Government after consulting the Advisory Board revises the minimum rates of wages as specified in column (2) of the Schedule annexed hereto, payable to the categories of employees employed in employments in Iron

Ore Mines as specified in the corresponding entries in column (1) of the said Schedule and directs that this notification shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

THE SCHEDULE

| Classification of work | Minimum rates of wages per day |
|------------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 |

Unskilled

| | |
|--|---|
| (1) Butler, (2) Caretaker, (3) Chowkidar, (4) Cleaner, (5) Dresser, (6) Labourer, (7) Loader, (8) Mazdoor, (9) Messenger, (10) Number-taker, (11) Office boy, (12) Peon, (13) Picker, (14) Sorter, (15) Sweeper, (16) Trammer, (17) Trollyman, (18) Trolly tripper, (19) Water Carrier, (20) Digger, (21) Lucher, (22) Other categories by whatever name called which are unskilled. | Rs. 9.75 (for work above ground) Rs. 11.75 (for work below ground) |
|--|---|

Semi skilled/Unskilled Supervisory

| | |
|---|--|
| (1) Ayah, (2) Bankman, (3) Brakesman, (4) Cash guards, (5) Checker, (6) Dhobi, (7) Cook, (8) Fireman, (9) Grinder, (10) Greaser, (11) Hammerman, (12) Helper (carpenter, driller, blaster, crasher operator), (13) Jamadar, (14) Khalasi (bulldozer etc.), (15) Lamp room incharge (16) Mate (without competency certificate under Metalliferous or Mines Regulation, 1961), (17) Oiler, (18) Pointsman, (19) Sampler, (20) Storeman, (21) Mali, (22) Miner (23) Other categories by whatever name called which are semi-skilled/unskilled supervisory. | Rs. 12.25 (for work above ground). Rs. 14.75 (for work below ground). |
|---|--|

Skilled

| | |
|---|--|
| (1) Blacksmith, (2) Blaster (shot firer), (3) carpenter, (4) Charge-man, (5) Chemist, (6) Compounder, (7) Draughtsman, (8) Driller, (9) Driver, (10) Electrician, (11) Fitter, (12) Foreman, (13) Mason, (14) Mechanic, (15) Midwife, (16) Mistry, (17) Moulder, (18) Operator, (19) Overseer, (20) Painter, (21) Pipe-fitter, (22) Supervisor, (23) Surveyor, (24).Tin-smith, (25) Timberman, (26) Turner, (27) Welder, (28) Wireman, (29) Surface Supervisor, (30) Mate (with competence certificate under Metalliferous Mines Regulation, 1961), (31) Shovel Operator, (32) Valveman, (31) Dozer operator, (34) Dumper tractor operator, (35) Painter (36) Other categories by whatever name called which are skilled. | Rs. 15.00 (for work above ground) Rs. 18.00 (for work below ground) |
|---|--|

1

2

Clerical

- (1) Cashier, (2) Clerk, (3) Register Rs. 15.00
keeper, (4) Store keeper, (5) Tracer,
(6) Time-keeper, (7) Typist, (8)
Other categories by whatever
name called which are clerical.

Explanations for the purpose of this notification :

(1) The minimum rates of wages are all inclusive rates including the basic rate. The cost of living allowance and the cash value of the concessional supply, if any, of essential commodities and include also the wages payable for the weekly day of rest.

(2) The minimum rates of wages are applicable to employees employed by contractors also.

(3) The minimum rates of wages for persons below 18 years of age and for disabled persons shall be 80 per cent and 100 per cent of the rates payable to the adult workers of the appropriate category as specified in the Schedule above.

(4) (a) Unskilled work is one which involves simple operations requiring little or no skill or experience on the job;

(b) Semi-skilled work is one which involves some degree of skill or competence acquired through experience on the job and which is capable of being performed under supervision or guidance of a skilled employee and includes unskilled supervisory work.

(c) Skilled work is one which involves skill or competence acquired through experience on the job or through training as an apprentice in a technical or vocational institute and the performance of which calls for initiative and judgement.

(5) Whereas the existing rates of wages of any employee based on contract or agreement or otherwise, are higher than the rates notified herein, the higher rates shall be treated as the minimum rates of wage applicable for the purpose of the notification to such employees.

(6) Workers engaged in Iron Ore Mines who do the work of excavating, breaking, sorting picking and dressing of Iron Ores and other works incidental thereto performed by the same person at Iron Ore bed|reef shall be regarded as 'Miner'.

IS-32019/3/83-W.C(M.W)

का० आ० 756(अ).—प्रेकाइट खानों में नियोजित कर्मचारियों के प्रवर्गों को संदेय मजदूरी की न्यूनतम दरों के पुनरीक्षण के लिए कुछ प्रस्थापनाएं, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा 5 की उपधारा (1) के खंड (ख) को अतिशानुसार उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए जिनके उम्रसे प्रभावित होने का संभावना थी, भारत सरकार के श्रम और पुनर्वसन मंत्रालय (श्रम विभाग) की अधिसूचना सं० का० आ० 446 (अ) तारीख 18 जून, 1983 के अधीन भारत के राजपत्र असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) तारीख 20 जून, 1983 के पृष्ठ 16 पर प्रकाशित की गई थी। उक्त व्यक्तियों से उक्त अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन का तारीख से दो मास का अतिरिक्त अवसर तक आक्षेप और सुझाव मांगे गए थे:

और उक्त राजपत्र 20 जून, 1983 को जनता को उपलब्ध करा दिया गया था;

और केन्द्रीय सरकार ने उक्त प्रस्थापनाओं के संबंध में प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर विचार कर लिया है;

अतः, केन्द्रीय सरकार, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा 4 की उपधारा (i) के खंड (iii) और धारा 5 की उपधारा (2) के साथ पठित धारा 3 की उपधारा (i) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० आ० 642 (अ) तारीख 2 सितम्बर, 1982 को अधिकांत करते हुए तथा सलाहकार बोर्ड से परामर्श करने के पश्चात् प्रेकाइट खानों में नियोजित ऐसे कर्मचारियों के प्रवर्गों को, जो इससे उपलब्ध अनुसूची के स्तम्भ (1) तत्स्थानों प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट हैं, संदेय मजदूरी की न्यूनतम दरें उक्त अनुसूची के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट रूप में पुनरीक्षित करती है और निदेश देती है कि यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी।

अनुसूची

| कार्य का वर्गीकरण | दैनिक मजदूरी की न्यूनतम दरें |
|-------------------|------------------------------|
| 1 | 2 |

प्रेकाइट खान**अकुशल**

(मजदूर पुरुष और महिला), चौकीदार बाच- 9.75 रु० (भूमि के
मैन, खलासी, क्लीनर, लदाई करने वाला, ऊपर कार्य करने के
रसोइया, मददगार, साइकल, ब्रेकर (हस्त- लिए)
चालित उपकरणों का प्रयोग करने वाले),
आफिस बाय, चपरासी, संवेगवाहक, पाली 11.75 रु० (भूमि के नीचे
वाला, वाटर कैरियर, सफेदी वाला, लैप मैन, कार्य करने के लिए)
और अन्य प्रवर्ग चाहे किसी भी नाम से जाना
हो, जो अकुशल हैं।

अर्धकुशल/अकुशल पर्यवेक्षी

ब्रेकर, डिलर, खनक, रसोइया, क्रेष, आया, 12.25 रु० (भूमि के ऊपर
चौकीदार, मेट, मुकद्दम, (धातुवाहक खान कार्य करने के लिए)
विनियम, 1962 के अधीन श्रमता प्रमाण- 14.75 रु० (भूमि के नीचे
पत्र के बिना), आयल मैन, पम्प खलासी, कार्य करने के लिए)
शाट फायरर, हैड मिस्त्री, बायलर मैन,
थैचर, टिप्पल, ट्रालीमैन, जमादार, सफेदी-
वाला, मददगार (लोको, क्रेन, ट्रक मदद-
गार), बडई, बिस्फोटकर्ता, फिटर, डिलर,

1

2

नोहर, मिस्त्री, प्रचालक, सहायक मैकेनिक, बटलर, और रसोइया, अधिरक्षक हथौड़ा चलाने वाला, मार्ग और अन्य प्रदर्शनादि किसी भी नाम से ज्ञात हों, जो अर्द्धकुशल/अकुशल पर्यवेक्षी हैं।

कुशल :

नोहर, बटलर, कम्पाउंडर, बिजली मिस्त्री, 15.00 रु० (भूमि के ऊपर शाट फायरर, सफेदीवाला, फोरमैन, फिटर, कार्य करने के लिए)
 खान पर्यवेक्षक, दर्जी, मुख्य रसोइया, इंजनमैन, 18.00 रु० (भूमि के नीचे वेल्डर, विस्फोटकर्ता, मशीन मिस्त्री, ड्रैफ्ट कार्य करने के लिए)
 मिस्त्री, उप-ओवरसियर, (अनर्हित), सर्वेक्षक, प्रचालक, वायरमैन, कम्प्रेसर-प्रचालक, ट्रेक्टर ड्राइवर, और अन्य प्रदर्शनादि किसी भी नाम से ज्ञात हों, जो कुशल प्रकृति के हैं।

लिपिकीय :

नेखाकार, सहायक, लिपिक, मुंशी, टंकक, 15.00 रुपये
 आधुनिक, दूल कोपर, टाइम कोपर, और अन्य प्रदर्शनादि किसी भी नाम से ज्ञात हों, जो लिपिकीय हैं।

स्पष्टीकरण :

1. इस अधिसूचना द्वारा प्रस्तावित न्यूनतम दरें सर्वसम्मिलित वरें हैं जिनमें आधार दर, जीवन निर्वाह भत्ता, आवश्यक वस्तुओं के रियायती दर पर किए गए प्रदायों, यदि कोई हो, नकबों मूल्य सम्मिलित है तथा माप्ताहिक विधायन के लिए देय मजदूरी भी सम्मिलित है।

2. मजदूरी की न्यूनतम दरें ठेकेदारों द्वारा नियोजित कर्मचारियों को भी लागू हैं।

3. जहां संविदा या करार पर या अन्यथा आधारित मजदूरी की विद्यमान दरें अधिसूचना द्वारा नियत दरों से उच्चतर हैं वहां उच्चतर दरें संरक्षित की जाएंगी और इस अधिसूचना के प्रयोजनार्थ न्यूनतम मजदूरी की दरें समझी जाएंगी।

4. निःशक्त व्यक्तियों को और अठारह वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को देय मजदूरी की न्यूनतम दरें समुचित प्रवर्ग के कर्मचारियों के लिए इस अधिसूचना द्वारा नियत दरों का अंश। सौ प्रतिशत और अस्सी प्रतिशत होगी।

5 इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए—

(क) "अकुशल कार्य" से वह कार्य अभिप्रेत है जिसमें बहुत थोड़ी कुशलता अपेक्षित करने वाली या कुछ भी कुशलता अथवा अनुभव अपेक्षित न करने वाली साधारण कियाए सम्मिलित हैं;

(ख) "अर्द्धकुशल कार्य" से वह कार्य अभिप्रेत है जिसमें कार्य के अनुभव से अर्जित कुछ मात्रा में कुशलता या सक्षमता सम्मिलित है और जो कुशल कर्मचारियों के पर्यवेक्षण या मार्ग दर्शन के अधीन किए जाने योग्य है और इसके अन्तर्गत अकुशल पर्यवेक्षी कार्य भी हैं;

(ग) "कुशल कार्य" से वह कार्य अभिप्रेत है जिसमें कार्य के अनुभव से अथवा शिक्षा के रूप में या किसी तकनीकी या व्यव-

सायिक संस्था में प्रशिक्षण के माध्यम से अर्जित कुशलता या सक्षमता अपेक्षित है और जिसके पालन में स्वप्रेरणा और विशेषबुद्धि आवश्यक है।

[एस-32019/3/83-इन्फ्यू० सी० (एम० इन्फ्यू०)]

S.O. 756(E).—Whereas certain proposals to revise the minimum rates of wages payable to the categories of employees employed in graphite mines were published as required by clause (b) of sub-section (1) of section 5 of the Minimum Wages Act, 1948 (11 of 1948) at pages 16-18 of the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 20th June, 1983 under the notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Rehabilitation (Department of Labour) number S.O. 446(E) dated the 18th June, 1983 for information of and inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby, till the expiry of the period of two months from the date of publication of the said notification in the Official Gazette;

And whereas the said Gazette was made available to the public on the 20th June, 1983;

And whereas the objections and suggestions received on the said proposals have been considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 3, read with clause (iii) of sub-section (1) of section 4 and sub-section (2) of the section 5 of the Minimum Wages Act, 1948 (11 of 1948), and in supersession of notification of the Government of India in the Ministry of Labour number S.O. 642(E) dated the 2nd September, 1982, the Central Government, after consulting the Advisory Board, revises the minimum rates of wages as specified in column (2) of the Schedule annexed hereto, payable to the categories of employees employed in employments in graphite mines as specified in the corresponding entries in column (1) of the said Schedule and directs that this notification shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

THE SCHEDULE

| Classification of work | Minimum rates of wages per day |
|--|---|
| (1) | (2) |
| Unskilled | |
| Mazdoor, (male and female), Chowkidar, Watchman, Khalasi, Cleaner, Loader, Cook-helper, Sweeper, Breaker (using manual appliances), Officeboy, Peon, Messenger, Waterman, Water Carrier, White washer, Lampman and other categories by whatever name called which are unskilled. | Rs. 9.75 (for work above ground) Rs. 11.75 (for work below ground) |

1

2

Semi-skilled/Unskilled Supervisory

| | |
|--|-----------------------------------|
| Breker, Driller, Miner, Cook, Creeche Ayah, Head Chowkidar, Mate/Muccadam (without competency certificate under Metalliferous Mines Regulations, 1961) | Rs. 12.25 (for work above ground) |
| Oil man, Pump Khalasi, Shot firer, Head Mistry, Boiler man, Thatcher, Tindles, Trolley man, Jamadar, White Washer, Helper (Loco, crane, truck), Helper (carpenter, blaster, mason, fitter, driller, black-smith), Operator, Assistant Mechanic, Butler-cum-cook, Caretaker, Hammerman, Mali and other categories by whatever name called which are semi-skilled/unskilled Supervisory. | Rs. 14.75 (for work below ground) |

Skilled

| | |
|--|-----------------------------------|
| Blacksmith, Carpenter, Compounder, Electrician, Shot firer, White washer, Foreman, Fitter, Mines Supervisor, Tailor, Head Cook, Engine man, Welder, Blaster, Machinist, Head Mistry, Sub-overseer, (unqualified), Surveyor, Operator, Boiler man, Compressor-Operator, or Tractor Driver and any other categories by whatever name called which are of skilled nature. | Rs. 15.00 (for work above ground) |
| | Rs. 18.00 (for work below ground) |

Clerical

| | |
|--|-----------|
| Accountant, Assistant Clerk, Munshi, Typist, Stenographer, Tool keeper, Time-keeper and other categories by whatever name called which are clerical. | Rs. 15.00 |
|--|-----------|

Explanation :—

1. The minimum rates of wages revised by this notification are all-inclusive rates including the basic rate, the cost of living allowance and the cash value of concessional supply, if any, of essential commodities and also include the wages payable for the weekly day of rest.

2. The minimum rates of wages are applicable to employees employed by contractors also.

3. Where the prevailing rates of wages based on contract or agreement or otherwise, are higher than the rates revised by this notification, the higher rates would be protected and treated as minimum rates of wages for the purpose of this notification.

4. The minimum rates of wages for disabled persons and for persons below eighteen years of age shall be hundred percent and eighty percent respectively of the rates payable to adult workers of the appropriate category.

5. For the purpose of this notification :—

(a) "Unskilled work" means work which involves simple operations requiring little or no skill or experience on the job;

(b) "Semi-skilled work" means work which involves some degree of skill or competence acquired through experience on the job and which is capable of being performed under the supervision or guidance of a skilled employee, and includes unskilled supervisory work;

(c) "Skilled work" means work which involves skill or competence acquired through experience on the job or through training as an apprentice in a technical or vocational institute and the performance of which calls for initiative and judgement.

[No. S-32019(3)/83-WC(MW)]

अधिसूचना

का० आ० 757(अ).—बीनी मृत्तिका मृत्तिका और सफेद खातों में नियोजित कर्मचारियों के प्रयोगों को संश्लेष मजदूरों का न्यूनतम दरों के पुनरीक्षण के लिए कुछ प्रस्तावनाएं, न्यूनतम मजदूरों अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा 5 की उपधारा (1) के खंड (ख) की अधिसूचनाएं उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए जिनके उनसे प्रभावित होने की संभावना थी, भारत सरकार के श्रम और पुनर्वास मंत्रालय (श्रम विभाग) की अधिसूचना सं० का० आ० 448(अ) तारीख 18 जून, 1983 के अंतर्गत, सारा के राजपत्र अनाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) तारीख 20 जून, 1983 के पृष्ठ 20 पर प्रकाशित की गई थी, उक्त व्यक्तियों में उक्त अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित की तारीख से दो मास की अवधि के अंतर्गत तत्काल प्रभाव और मुद्रांतरीत गये थे।

और उक्त राजपत्र 20 जून, 1983 की अंतिम की उपलब्ध करा दिया गया था और केन्द्रिय सरकार ने उक्त प्रस्तावनाओं के संबंध में प्राप्ति अधीनों और मुद्रांतरीत पर विचार कर लिया है।

अतः, केन्द्रिय सरकार, न्यूनतम मजदूरों अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा 4 की उपधारा (1) के खंड (ii) और धारा 5 की उपधारा (2) के माध्यम से धारा 3 की उपधारा (i) के खंड (ख) द्वारा प्रदान शक्तियों का प्रयोग करने हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० आ० 644(अ) तारीख 2 मिनस्वर, 1982 की अधिसूचना करने हुए तथा सहायक बोर्ड से परामर्श करने के पश्चात्, खाता मृत्तिका, मृत्तिका और सफेद खातों के नियोजन में नियोजित ऐसे कर्मचारियों के प्रयोगों को, जो इनसे उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (1) वर्तमान प्रवर्णित में विनिर्दिष्ट है, संश्लेष मजदूरों का न्यूनतम दरें उक्त अनुसूची के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट रूप में पुनर्गठित करता है और निर्देश देता है कि यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित की तारीख को प्रवृत्त होगी।

अनुसूची

| कार्य का वर्गीकरण | दैनिक मजदूरों का न्यूनतम दर |
|---|--|
| अकुशलः | |
| मजदूर, लोडर, सफाई वाला, ब्लोकर, चौकीदार, मिट्टी काटने वाला, खनारी, और अन्य कार्य करने के लिए) | 9.75 रु० (भूमि के ऊपर) |
| प्रयोगों के वे मजदूर चाहे जो भी नाम हों, जो अकुशल है। | 11.75 रु० (भूमि के नीचे कार्य करने के लिए) |

| 1 | 2 |
|---|---|
| अर्द्धकुशल/या अनुमान पर्यवेक्षक | |
| मुकद्दम, भेट, रमोहिया, तेलवाणा, पम्पखलाना, परिवारक, माइनर, पुजारी, मावा, मदेन-गार, पर्यवेक्षक, कारमैन, शेकर, हेड चौकीदार, केक-माया, नृसिंह बजने वाला या सूखाने वाला या परिष्कृत करने वाला कर्मकार (भूमि काटने के लिए अधिक दबाव से भिन्न) और अन्य वे प्रार्थ, जाड़े जा भी नाम हों, आ अर्द्धकुशल हैं। | 12.25 रु० (भूमि के ऊपर कार्य करने के लिए) 11.75 रु० (भूमि के नीचे कार्य करने के लिए) |

कुशल

| | |
|---|---|
| लोहार, कापडकार, दर्जी, राज, बिजनी निर्माता भूमिजाना खान पर्यवेक्षक, ट्राईवर, पम्प प्रबालक/प्राइवर, सर्वेक्षक, फोर्मेन और वे अन्य प्रवर्ग जाहे जो भी नाम हों, जो कुशल हैं। | 15.00 रु० (भूमि के ऊपर कार्य करने के लिए) 18.00 रु० (भूमि के नीचे कार्य करने के लिए) |
|---|---|

निपिक

| | |
|--|-------------|
| चौकीदार, लेखाकार, निपिक, टाइम क्लर, मंडार, भंडार, परिवारक अभिलेखापाल, रजिस्टर फोर, मुर्ता टैक्स, भाग्यनिपिक और वे अन्य प्रवर्ग जाहे जो भी नाम हों, जो निपिक हैं। | 15.00 रुपये |
|--|-------------|

साप्ताहिक इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए—

- (क) "कुशल कार्य" से वह कार्य अभिप्रेत है जिनमें बहुत थोड़ा या कुछ भी कुशलता से कार्य या अनुभव जोड़ित न करने वाली साधारण कृषि/सम्मिलित है;
- (ख) "अर्द्धकुशल कार्य" से वह कार्य अभिप्रेत है जिनमें कार्य के अनुभव से अति कुछ मात्रा में कुशलता या सक्षमता सम्मिलित है और जो कुशल कर्मकारों के पर्यवेक्षण या मार्गदर्शन के अधीन किए जाने योग्य हैं और इनके अलग-अलग अनुमान पर्यवेक्षक कार्य भी हैं;
- (ग) "कुशल कार्य" से वह कार्य अभिप्रेत है जिनमें कार्य के अनुभव अपेक्षा शून्य के रूप में या किता तकनीक या व्यावसायिक संस्था या प्रशिक्षण के माध्यम से अति कुशलता या सक्षमता जोड़ित है जिनके पालन में सख्तप्रेक्षा और विवेकबुद्धि आवश्यक हैं।

2. इस अधिनियम द्वारा प्रस्तावित न्यूनतम दरें पर्यवेक्षित करें हैं जिनमें साधारण दर, जोवन निर्वाह भत्ता, आवश्यक व्ययों के रियायती दर पर किए गए प्रशंसा, यदि कोई हो, का, नकद मूल्य सम्मिलित है तथा मापदंडिक विधायन के लिए देय मजदूरों का सम्मिलित है।

3. अठारह वर्ष से कम आयु के और असमर्थ व्यक्तियों को देय मजदूरों का न्यूनतम दरें समुचित प्रवर्ग के कर्मकारों के लिए इस अधिनियम द्वारा नियत दरों का क्रमण 80 प्रतिशत और 100 प्रतिशत होगा।

4. इस अधिनियम द्वारा प्रस्तावित मजदूरों को न्यूनतम दरें उकेवारी द्वारा नियोजित कर्मचारियों को भी लागू है।

5. जहाँ किसी कर्मचारी को संविदा या कंठ पर आधारित मजदूरों का विद्यमान दरें इस अधिनियम द्वारा नियत दरों से उच्चतर हैं, तथा

ऐसी उच्चतर दरें इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ ऐसे कर्मकारों को लागू न्यूनतम मजदूरों को दरें समता जाएंगे।

[एन-32019/3/83-इल्यू०सी० (एमडब्ल्यू)]

S.O. 757(E).—Whereas certain proposals to revise the minimum rates of wages payable to the categories of employees employed in china clay, clay and white clay mines were published as required by clause (b) of sub-section (1) of section 5 of the Minimum Wages Act, 1948 (11 of 1948), at page 21 of the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (ii), dated the 20th June, 1983 under the notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Rehabilitation (Department of Labour) number S.O. 448(E) dated the 18th June, 1983 for information and inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby, till the expiry of the period of two months from the date of publication of the said notification in the Official Gazette;

And whereas the said Gazette was made available to the public on the 20th June, 1983;

And whereas the objections and suggestions received on the said proposals have been considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 3 read with clause (iii) of sub-section (1) of section 4 and sub-section (2) of section 5 of the Minimum Wages Act, 1948 (11 of 1948) and in supersession of notification of the Government of India in the Ministry of Labour number S.O. 644(E) dated the 2nd September, 1982, the Central Government, after consulting the Advisory Board, revives the minimum rates of wages as specified in column (2) of the Schedule annexed hereto payable to the categories of employees employed in employments in china clay, clay and white clay mines as specified in the corresponding entries in column (1) of the said Schedule and directs that this notification shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

| Classification of work | Minimum rates of wages per day |
|---|--|
| (1) | (2) |
| Unskilled | |
| Mazdoor, Leader, Sweeper, Cleaner, Chowkidar, Earthcutter, Khalasi, and other categories by whatever name called which are unskilled. | Rs. 9.75 (for work above ground) Rs. 11.75 (for work below grounds) |
| Semi-skilled or Unskilled Supervisory | |
| Mucadams, Mate, Cool, Oilman, Pump Khalasi, Attendant, Miner, | Rs. 12.25 (for work above ground) |

| 1 | 2 |
|---|---|
| Priest, Gardener, Helper, Supervisory Fireman, Breaker, Head chowkidar, Creche Ayah, Clay press or drying and refining workers (except over burden requiring earth cutting), and other categories by whatever name called which are semi-skilled. | Rs. 14.75 (for work below grounds) |
| Skilled | |
| Blacksmith, Carpenter, Tailor, Mason, Electrician, Geologist, Mine Supervisor, Driver, Pump operator or Driver, Supervisor Foreman, and other categories by whatever name called which are skilled. | Rs. 15.00 (for work above ground) Rs. 18.00 (for work below grounds) |
| Clerical | |
| Cashier, Accountant, Clerk, Time keeper, Store keeper, Store Attendant, Recordkeeper, Register keeper, Munshi, Typist, Stenographer, and other categories by whatever name called which are clerical. | Rs. 15.00 |

Explanations :—

- For the purpose of this notification :—
 - “unskilled work” is one which involves simple operations requiring little or no skill or experience on the job;
 - “semi-skilled work” is one which involves some degree of skill or competence acquired through experience on the job and which is capable of being performed under the supervision or guidance of a skilled employee and includes unskilled supervisory work;
 - “skilled work” is one which involves skill or competence acquired through experience on the job or through training as an apprentice in a technical or vocational institute and the performance of which calls for initiative and judgement.
- The minimum rates of wages fixed as per this notification are all inclusive rates including the basic rates, the cost of living allowance, the cash value of concessional supply, if any, of essential commodities and also include the wages payable for the weekly day of rest.
- The minimum rates of wages for young persons below 18 years of age and for disabled persons shall be 80 per cent and 100 per cent respectively of the rates fixed by this notification for adult workers of the appropriate category.
- The minimum rates of wages fixed as per this notification are applicable also to employees engaged by contractors.

5. Where the prevailing rates of wages of any employee based on contract or agreement or otherwise as higher than the rates notified herein, the higher wages shall be treated as the minimum rates of wages applicable for the purpose of this notification to such employee.

[No. S-32019(3)|83-WC(MW)]

का० आ० 753 (अ) :—मैग्नेसाइट खानों में नियोजित कर्मचारियों के प्रवर्गों को संवेद्य मजदूरी की न्यूनतम दरों के पुनरीक्षण के लिए कुछ प्रस्थापनाएँ, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) की अपेक्षानुसार उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी, भारत सरकार के श्रम और पुनर्वास मंत्रालय (श्रम विभाग) की अधिसूचना सं० का० आ० 457 (अ) तारीख 18 जून, 1983 के अधीन, भारत के राजपत्र असाधारण, भाग 2, खण्ड 3, उपखंड (2) तारीख 20 जून, 1983 के पृष्ठ 39 पर प्रकाशित की गई थी। उक्त व्यक्तियों से उक्त अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से दो मास की अवधि के अवसान तक आक्षेप और सुझाव मांगे गए थे;

और उक्त राजपत्र 20 जून, 1983 को जनता को उपलब्ध करा दिया गया था;

और केन्द्रीय सरकार ने उक्त प्रस्थापनाओं के संबंध में प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर विचार कर लिया है;

अतः, केन्द्रीय सरकार न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा 4 की उपधारा (1) के खंड (3) और धारा 5 की उपधारा (2) के साथ पठित धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का० आ० 635 (अ) तारीख 2 सितम्बर, 1982 को अधिमान्य करते हुए तथा सप्ताहकार बोर्ड से परामर्श करने के पश्चात् मैग्नेसाइट खानों के नियोजन में नियोजित ऐसे कर्मचारियों के प्रवर्गों की, जो इससे उपावद्ध अनुसूची के स्तम्भ (1) तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट हैं, संवेद्य मजदूरी की न्यूनतम दरें उक्त अनुसूची के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट रूप में पुनरीक्षित करती हैं और निदेश देती हैं कि यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी।

अनुसूची

| कार्य का वर्गीकरण | दैनिक मजदूरी की न्यूनतम दरें |
|--|---|
| 1 | 2 |
| अकृषण : | |
| चौकीदार, कमीनर, खानासी, लवाई करने वाला, मजदूर, अन्य प्रवर्ग चाहे किसी भी नाम से जान हों, जो अकृषण हैं। | 9.75 रु० (भूमि के ऊपर कार्य करने के लिए) 11.75 रु० (भूमि के नीचे कार्य करने के लिए) |
| अर्धकृषण/अकृषण पर्यवेक्षक | |
| ब्रेकर, रसोइया, ड्रिलर, माली, प्रधान चौकीदार, मूकबुद्ध, मेट, खनक, तेल देने वाला, पम्पा खानासी/सिपाही, अन्य प्रवर्ग चाहे किसी भी नाम से जान हों जो अर्धकृषण/अकृषण पर्यवेक्षक हैं। | 12.25 रु० (भूमि के ऊपर कार्य करने के लिए) 14.75 रु० (भूमि के नीचे कार्य करने के लिए) |

| 1 | 2 |
|---|------------|
| कुशल | |
| लोहार, बट्टई, कम्पाउन्डर, शांति फायरर, शिशु कार्य करने के लिए) 15.00 रु० (भूमि के उपर कक्ष परिसर, खालक, बिजली मिस्री, फोरमैन, खात कार्य करने के लिए) पर्यवेक्षक, राज, पंग प्रचालक, पर्यवेक्षक, दर्जी, 18.00 रु० (भूमि के नीचे अन्य प्रवर्ग चाहें वे किसी भी नाम से जान हों, जो कार्य करने के लिए) कुशल हैं। | |
| लिपिकारी | |
| लेखापाल, लिपिक, रोकड़िया, सामग्रीवेन वाला, मुंशी, रजिस्टर कीपर, अभिलेखापाल, भन्डार सहायक, भन्डारी, आशुलिपिक, टंकक, टाइम कीपर, अन्य प्रवर्ग चाहें वे किसी भी नाम से जान हों, जो लिपिकारी हैं। | 15.00 रुपए |

स्पष्टीकरण : इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए—

1. प्रस्तावित न्यूनतम दरें सर्वसम्मिलित दरें हैं जिसमें आधार दर, जीवन निर्वाह भत्ता, आवागमन वस्तुओं के रियायती दर पर किए गए प्रदायो का, यदि कोई हो, नकदी भूतन सम्मिलित है तथा मासिक विश्राम के लिए देय मजदूरी भी सम्मिलित है।

2. मजदूरी की न्यूनतम दरें ठेकदारों द्वारा नियोजित कर्मचारियों को भी लागू हैं।

3. जहाँ भविदा या करार पर आधारित मजदूरी की विद्यमान दरें अधिनियम के अधीन अधिसूचित दरों से उच्चतर हैं वहाँ ऐसी उच्चतर दरें संरक्षित की जाएंगी और इन अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए न्यूनतम मजदूरी की दरें मानी जाएंगी।

4. (क) "अकुशल कार्य" से वह कार्य अभिप्रेत है जिसमें कार्य की बहुत थोड़ी कुशलता या अनुभव अपेक्षित करने वाली या कुछ भी कुशलता या अनुभव न अपेक्षित करने वाली साधारण क्रियाएँ सम्मिलित हैं।

(ख) "अर्धकुशल कार्य" से वह कार्य अभिप्रेत है जिसमें कार्य के अनुभव, से अर्जित कुछ मात्रा में कुशलता या सक्षमता सम्मिलित है और जो कुशल कर्मचारियों के पर्यवेक्षण या मार्ग दर्शन के अधीन किए जाने योग्य हैं और इसके अन्तर्गत अकुशल पर्यवेक्षी कार्य भी आता है।

(ग) "कुशल कार्य" से वह कार्य अभिप्रेत है जिसमें कार्य के अनुभव से अथवा शिक्षा के रूप में या किसी तकनीकी या व्यावसायिक संस्था में प्रशिक्षण के माध्यम से अर्जित कुशलता या सक्षमता अपेक्षित है जिसके पालन में स्वतंत्रता और विवेकबुद्धि आवश्यक है।

5. अठारह वर्ष से कम आयु के और असमर्थ व्यक्तियों के लिए मजदूरी की न्यूनतम दरें समुचित प्रवर्ग के वयस्क कर्मचारियों को संदेय दरों का अंश 80 प्रतिशत और 100 प्रतिशत होगी।

[एस-32019/3/83-उच्च. मी. (एम० डब्ल्यू०)]

S.O. 758(E).—Whereas certain proposals to revise the minimum rates of wages payable to the categories of employees employed in magnesite mines were published as required by clause (b) of sub-section (1) of section 5 of the Minimum Wages Act, 1948 (11 of 1948) at pages 39-40 of the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (ii), dated the 20th June, 1983 under the notification of the Government of India in the

Ministry of Labour and Rehabilitation (Department of Labour) number S.O. 457(E) dated the 18th June, 1983 for information of and inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby, till the expiry of the period of two months from the date of publication of the said notification in the Official Gazette;

And whereas the said Gazette was made available to the public on the 20th June, 1983;

And whereas the objections and suggestions received on the said proposals have been considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 3, read with clause (iii) of sub-section (1) of section 4 and sub-section (2) of section 5 of the Minimum Wages Act, 1948 (11 of 1948), and in supersession of notification of the Government of India in the Ministry of Labour number S.O. 635(E) dated the 2nd September, 1982, the Central Government, after consulting the Advisory Board, revises the minimum rates of wages as specified in column (2) of the Schedule annexed hereto, payable to the categories of employees employed in magnesite mines as specified in the corresponding entries in column (1) of the said Schedule and directs that this notification shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

THE SCHEDULE

| Categories of employees | Minimum rates of wages per day |
|-------------------------|--------------------------------|
| (1) | (2) |

Unskilled

| | |
|---|---|
| Chowkidar, Cleaner, Khalsai, Loader, Mazdoor, other categories by whatever name called which are unskilled. | Rs. 9.75 (for work above ground) Rs. 11.75 (for work below ground) |
|---|---|

Semi-skilled/Unskilled Supervisory

| | |
|---|--|
| Breaker, Cook, Driller, Gardener, Head Chowkidar, Helper, Muccadam, Mate, Miner, Oilman, Pumpkhalasi, Sepoy, other categories by whatever name called which are semi-skilled/unskilled supervisory. | Rs. 12.25 (for work above ground) Rs. 11.75 (for work below ground) |
|---|--|

Skilled

| | |
|--|--|
| Blacksmith, Carpenter, Compounder, Shot firer, Creche attendant, Driver, Electrician, Foreman, Mine Supervisor, Mason, Pump Operator, Supervisor, Tailor, other categories, by whatever name called which are skilled. | Rs. 15.00 (for work above ground) Rs. 18.00 (for work below ground) |
|--|--|

Clerical

| | |
|--|-----------|
| Accountant, Clerk, Cashier, Store Issuer, Munshi, Register Keeper, | Rs. 15.00 |
|--|-----------|

Record Keeper, Store Attendant,
Store Keeper, Stenographer, Typist,
Time Keeper, other categories, by
whatever name called which are of
clerical nature.

Explanation for the purpose of this notification—

1. The minimum rates revised are all-inclusive rates including the basic rate, the cost of living allowance and cash value of concessional supply, if any, of essential commodities and also include the wages payable for the weekly rest day.

2. The minimum rates of wages are applicable to employees engaged by contractors also.

3. Where the prevailing rates of wages based on contract or agreement or otherwise are higher than the notified rates under the Act, the higher would be protected and treated as minimum wages for purposes of this notification.

4. (a) Unskilled work is one which involves simple operations requiring little or no skill or experience on the job.

(b) Semi-skilled work is one which involves some degree of skill or competence acquired through experience on the job and which is capable of being performed under the supervision or guidance of a skilled employee and includes unskilled Supervisory Work;

(c) Skilled work is one which involves skill or competence acquired through experience on the job or through training as an apprentice or in a technical or vocational institute and the performance of which calls for initiative and judgement.

5. The minimum rates of wages for young persons below 18 years of age and disabled persons shall be 80 per cent and 100 per cent respectively of the rates payable to adult workers of the appropriate category.

[No. S-32019(3)]83-WC(MW)]

का० आ० 759 (अ) .—कवार्टेज खानों, कवार्टेजखट खानों और मिलका खानों में नियोजित कर्मचारियों के प्रयोगों को संवेद्य मजदूरी की न्यूनतम दरों के पुनरीक्षण के लिए कुछ प्रस्थापनाएं, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा 5 की उपधारा (1) के खंड (ख) की अपेक्षानुसार उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए जिनके उनसे प्रभावित होने की संभावना थी, भारत सरकार के श्रम और पुनर्वासि मंत्रालय (श्रम विभाग) की अधिमूर्चना सं० का० आ० 417 (अ) तारीख 18 जून, 1983 के अधीन, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) तारीख 20 जून, 1983 के पृष्ठ 18 पर

प्रकाशित की गई थी। उक्त व्यक्तियों में उक्त अधिमूर्चना के अन्वये में प्रकाशित की तारीख से दो मास की अवधि के अन्तर्गत तक आशेष और गृहाव सौंपे गए थे।

और उक्त अधिमूर्चना 20 जून, 1983 को अन्तर्गत के अन्वये में प्रकाशित किया गया था।

और केन्द्रीय सरकार ने उक्त अधिमूर्चना को संवेद्य में प्रकाशित आशेष और गृहावों पर विचार कर लिया है।

अतः केन्द्रीय सरकार, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा 4 की उपधारा (1) के खंड (iii) और धारा 5 की उपधारा (2) के साथ मिलाए धारा 3 का अन्तर्गत (1) के खंड (ख) द्वारा प्रदान किये गए प्रयोग करने हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिमूर्चना सं० का० आ० 417 (अ) तारीख 2 गिनवम्बर, 1982 को अधिमूर्चना करने हुए तथा मजदूरों को बाई से परामर्श करने के पश्चात् कवार्टेज खानों, कवार्टेजखट खानों और मिलका खानों के नियोजित में नियोजित ऐसे कर्मचारियों के प्रयोगों को, जो इनमें उपाखण्ड अधिमूर्चना के अन्वये (1) के अन्वये प्रकाशित में विनिर्दिष्ट है, संवेद्य मजदूरी की न्यूनतम दरें उक्त अधिमूर्चना के अन्वये (2) में विनिर्दिष्ट रूप में पुनरीक्षण करता है और निदेश देती है कि वह अधिमूर्चना का अन्वये में प्रकाशित की तारीख को प्रवृत्त होगी।

अधिमूर्चना

कार्य का वर्गीकरण वैयक्तिक मजदूरी की न्यूनतम दरें

अकुशल :

मजदूर (पुराने और नए), चौकीदार, खानों, 9.75 रु० (भूमि के
कमीनर, कोहर, टोपकार, अर्थकर, बाग़, ऊपर कार्य करने के
(गन्धर), चारक, टेले-बाला, केयरटेकर, लिए)

फकीट (हस्त मिश्रक), ड्राइवर (बैल, ऊँट, 11.75 रु० (भूमि के
गवा, खच्चर), बैल-मैन, माली, पेट्रोल मैन, नीचे कार्य करने के
गोपरी करने वाला, पानी वाला, अन्य प्रकार के व्यक्ति बाहे उन्हें किसी भी नाम से बुलाया
जाता हो, या अकुशल हैं।

अर्द्धकुशल :

फिल्ट्री, बोलर, मेघक, खनक, रमोदया, शिपु 12.25 रु० (भूमि के
कक्षा आया, प्रधान चौकीदार, मरदनार, ऊपर कार्य करने के
गुब्बदार, मर, लेनवाला, गम्प खानासा, फाट लिए)
फायर, प्रधान मिलनी, धवैरी मैन, खदान 11.75 रु० (भूमि के
आपरेटर, मंडारी, स्टकर, ब्रायलर मैन, धौषर, नीचे कार्य करने के
सुम्बासैन, टिडल, ट्राणी वाला, जमादार, धेरा, लिए)
मफेदी करने वाला, श्रेणमैन, मरदनार (मोकी, फ्रेन, टुक), टोपान तोपकार (बड़ा/कवार्टे-
जखट, कवार्टेज ब्रेकर), एज्जरनर, पैक वालर्स, टिम्बरमैन, जैक हैमर, फायर करने प्रेम या
गुब्ब और परिष्करण श्रमिक, अन्य प्रकार के व्यक्ति, बाहे उन्हें किसी भी नाम से बुलाया
जाता हो, जो अर्द्धकुशल हैं।

कुशल :

कोहार, बड़ई, कम्पाउन्डर, बिजली मिल्की, 15.00 रु० (भूमि के
शाट फायर, गोपरी करने वाला, फोरमैन, ऊपर कार्य करने के
फिटर, खान पर्यवेक्षक, दर्जी, प्रधान रमोदया लिए)

उत्तम, अकार्डिन, डबलर, मशीन रिजर्व, 18.00 रु० (भूमि के प्रधान भिस्त्री, उप-आधार-निर्माण (अर्थात्), नीचे कार्य करने के सर्वेक्षक, आगरेटर, वापरर मैच, अन्य प्रयोगों (विण))
 के व्यक्ति जहाँ उन्हें किसी भी तम में बुलाया जाता है, जो सुझाव है।

निर्णय :

निष्ठागत विचार, सुधी, मजदूर विचार, 18.00 रुप०
 सामान के तमाम मजदूरी (प्रेषी 1 और 2), टेबल विचार, 2.50 कीपर, टुक-कटार, संगणक, टक्कर, आधुनिक, अभिवेदागत, अन्य प्रयोगों के व्यक्ति चाहें वे किसी भी तम में बुलाये हों, जो निर्धारित है।

संश्लेषण

1. हम अधिपुत्रता द्वारा प्रस्तुत न्यूनतम दरें सर्वसम्मति से हैं, जिनमें आधारी दर, जीवन विधान मना, आवश्यक वस्तुओं के विचारों पर पर किए गए प्रयासों का, यदि कोई हो, नकदी मूल्य सम्मिलित है तथा सामाजिक विश्राम के विण देश मजदूरी भी सम्मिलित है।

2. मजदूरी को न्यूनतम दरें देखेंगे तम विद्योक्ति कर्मचारियों को भी लागू है।

3. जहाँ संविदा या कगार पर आधारित या अन्यथा मजदूरी को विद्यमान दरें हम अधिपुत्रता द्वारा प्रस्तावित दरों से उच्चतर हैं वहाँ हम अधिपुत्रता के प्रयोजनों के विण ऐसी उच्चतर दरें संगठित की जाएगी और वे न्यूनतम मजदूरी की दरें जानी जाएगी।

4. अठारह वर्ष से कम आयु के और असमर्थ व्यक्तियों को देश मजदूरी की न्यूनतम दरें सम्मिलित प्रयोगों के बसक कर्मचारियों को संदेह दरों का प्रमाण 50 प्रतिशत और 100 प्रतिशत होगी।

5. हम अधिपुत्रता के प्रयोजनों के विण,

(क) "अकुशल कार्य" से बहुत बड़े अभिप्रेत है जिसमें कार्य की बहुत थोड़ी कुशलता या अनुभव अपेक्षित करने वाली अथवा कुछ भी कुशलता या अनुभव न अपेक्षित करने वाली साधारण विचार सम्मिलित है।

(ख) "अर्धकुशल कार्य" से बड़े कार्य अभिप्रेत है जिसमें कार्य के अनुभव से अति कुछ मात्रा में कुशलता या सक्षमता सम्मिलित है और जो कुशल कर्मचारियों के पर्यवेक्षण या मार्गदर्शन के अधीन किए जाने योग्य है और इसके अन्तर्गत अकुशल पर्यवेक्षकों कार्य भी आता है।

(ग) "कुशल कार्य" से बड़े कार्य अभिप्रेत है जिसमें कार्य के अनुभव से अथवा शिक्षा के रूप में या किसी तकनीकी या व्यावसायिक संस्था में प्रशिक्षण के माध्यम से अति कुशलता या सक्षमता है और इसके पालन में स्वप्रेरणा और विवेकबुद्धि आवश्यक है।

[सं० एम — 32019/3/83-इल्यू० सी०]

S.O. 759(E).—Whereas certain proposals to revise the minimum rates of wages payable to the categories of employees employed in quartz, quartzite and silica mines were published as required by clause (b) of sub-section (1) of section 5 of the Minimum Wages Act, 1948 (11 of 1948) at pages 19-20 of the Gazette of India, Extraordinary,

Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 20th June, 1983 under the notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Rehabilitation (Department of Labour) number S.O. 447(E) dated the 18th June, 1983 for information of and inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby till the expiry of the period of two months from the date of publication of the said notification in the Official Gazette.

And whereas the said Gazette was made available to the public on the 20th June, 1983;

And whereas the objections and suggestions received on the said proposals have been considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 3 read with clause (iii) of sub-section (1) of section 4 and sub-section (2) of section 5 of the Minimum Wages Act, 1948 (11 of 1948) and in supersession of notification of the Government of India in the Ministry of Labour number S.O. 629(E) dated the 2nd September, 1982, the Central Government, after consulting the Advisory Board, revises the minimum rates of wages as specified in column (2) of the Schedule annexed hereto payable to the categories of employees employed in employments in quartz, quartzite and silica mines as specified in the corresponding entries in column (1) of the said Schedule and directs that this notification shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

THE SCHEDULE

| Classification of Work | Minimum rates of wages per day |
|------------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 |

Unskilled

| | |
|--|---|
| Mazdoor (male and female), Chowkidar, Khala, Cleaner, Loader, Hole cutter, Earth cutter, Carrier (stone), Carrier, Cartman, Caretaker, Concrete (hand mixer), Driver (bullock, camel, donkey, mule), Lampman, Mali, Petrolman, White Washer, Waterman, other categories by whatever name called which are unskilled. | Rs. 9.75 (for work above ground) Rs. 11.75 (for work below ground) |
|--|---|

Semi-skilled

| | |
|---|-----------------------------------|
| Bhisti, Breaker, Driller, Miner, Cook, Creche Ayah, Head Chowkidar, Helper, Muccadam, Mate, oilman, | Rs. 12.25 (for work above ground) |
|---|-----------------------------------|

Pump khalasi, Shot firer, Head mistry, Quarry man, Quarry operator, Store man, Stocker, Boiler man, Thatcher, Thoonbaman, Tindals, Trolleyman, Jamadar, Bearer, White washer, Brakesman, Helper, (Loco crane, truck), Topaz, topkar, (big/quartzite/quartz breaker), Edge runner, Pack wallers, Timber man, Jack hammer, Fire clay press or drying and refining workers, and other categories by whatever name called which are semi-skilled.

Rs. 14.75
(for work below ground)

Skilled

Blacksmith, Carpenter, Compounder, Electrician, Shot firer, White washer, Foreman, Fitter, Mines, supervisor, Tailer, Head cook, Rs. 15.00
(for work above ground)
Engine-man, Welder, Blaster, Rs. 18.00
(for work below ground)
Mechinist, Head mistry, Sub-overseer (unqualified), Surveyor, Operator, Boilerman, any other categories by whatever name called which are of skilled nature.

Clerical

Accountant, Cleark, Munshi, Store clerk, Store issuer, Store keeper, (Grade I & II), Talley clerk, Time keeper, Tool keeper, Computer, Typist, Steno, Record keeper, other categories by whatever name called which are clerical.

Explanations :—

1. The minimum rates of wages revised by this notification are all inclusive rates including the basic rate, the cost of living allowance and the cash value of concessional supply, if any, of essential commodities and also include the wages payable for the weekly day of rest.

2. The minimum rates of wages are applicable to employees employed by contractors also.

3. Where the prevailing rates of wages based on contract or agreement or otherwise are higher than the rates revised by this notification the higher rates would be protected and treated as minimum rates of wages for the purpose of this notification.

4. The minimum rates of wages for disabled persons and for persons below eighteen years of age shall be hundred per cent and eighty per cent respectively of the rates payable to adult workers of the appropriate category.

5. For the purpose of this notification—

(a) “Unskilled work” is work which involves simple operations requiring little or no skill or experience on the job;

(b) “Semi-skilled work” is work which involves some degree of skill or competence acquired through experience on the job and which is capable of being performed under the supervision or guidance of a skilled employee and includes unskilled supervisory work;

(c) “Skilled work” is work which involves skill or competence acquired through experience on the job or through training as an apprentice in a technical or vocational institute and the performance of which calls for initiative and judgement.

[S-32019/3/83-WC(MW)]

अधिसूचना

का० आ० 760 (अ) :—बुलकेम खानों में नियोजित कर्मचारियों के प्रवर्गों को संदेय मजदूरी की न्यूनतम दरों के पुनरीक्षण के लिए कुछ प्रस्थापनाएं न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा 5 की उपधारा (1) के खंड (ख) की अपेक्षाानुसार उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए जिनके उनसे प्रभावित होने की संभावना थी, भारत सरकार के श्रम और पुनर्वास मंत्रालय (श्रम विभाग) की अधिसूचना सं० का० आ० 441 (अ) तारीख 18 जून, 1983 के अधीन भारत के राजपत्र असाधारण, भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड (ii) तारीख 20 जून, 1983 के पृष्ठ 5-6 पर प्रकाशित की गई थी। उक्त व्यक्तियों से उक्त अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से दो मास की अवधि के अवसान तक आक्षेप और सुझाव मांगे गए थे ;

और उक्त राजपत्र 20 जून, 1983 को उपसंश्लेष कर दिया गया था ;

और केन्द्रीय सरकार ने उक्त प्रस्थापनाओं के संबंध में प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर विचार कर लिया है ;

अतः, केन्द्रीय सरकार न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (iii) और धारा 5 की उपधारा (2) के साथ पठित धारा 3 की उपधारा (i) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० आ० 630 (अ) तारीख 2 नवम्बर, 1982 को अधिसूचित करते हुए तथा सलाहकार बोर्ड से परामर्श करने के पश्चात् बुलकेम खानों के नियोजन में नियोजित ऐसे कर्मचारियों के प्रवर्गों को, जो इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (1) के तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट हैं, संदेय मजदूरी की न्यूनतम दरें उक्त अनुसूची के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट रूप में पुनरीक्षित करती हैं और निर्देश देती हैं कि यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी।

अनुसूची

| कार्य का वर्गीकरण | दैनिक मजदूरी की न्यूनतम दरें |
|-------------------|------------------------------|
| 1 | 2 |

अकुशल :

| | |
|--|--|
| (1) मजदूर (2) ड्रेसिंग मजदूर (3) चपरासी (4) सफाई वाला (5) पानी वाला (6) चौकीदार (7) अन्य प्रवर्ग चाहे जो नाम हो, जो अकुशल हैं। | 9.75 रु० (भूमि के ऊपर कार्य करने के लिए) 11.75 रु० (भूमि के नीचे कार्य करने के लिए) |
|--|--|

अर्द्धकुशल :

- (1) सहायक ड्रिलर (2) मददगार (3) 12.25 रु० (भूमि के कैन्टीन परिष्कार (4) मैट (एम० एम० आर० ऊपर कार्य करने के 1961 के अधीन, क्षमता प्रमाणपत्र के बिना), लिए)
(5) सिग्नल मैन (6) श्रम निरीक्षक (7) 14.75 रु० (भूमि के डाक बॉय (8) अन्य प्रवर्ग चाहे जा भी नीचे कार्य करने के नाम हों, जो अर्द्धकुशल/अकुशल पर्यवेक्षी हैं। लिए)

कुशल :

- (1) हेण्डहोलडिंग (2) मैट (एम० एम० 15.00 रु० (भूमि के आर०, 1961 के अधीन क्षमता प्रमाणपत्र ऊपर कार्य करने के सहित), (3) बर्द्ध (4) संहार (5) लिए)
मेकेनिक (6) डिस्पेन्सर परिष्कार (7) राज 18.00 रु० (भूमि के (8) कर्षण प्रचालक (9) अन्य प्रवर्ग चाहे नीचे कार्य करने के जो भी नाम हों, जो कुशल हैं। लिए)

लिपिकार्य :

लेखाकार, टंकिक/आधुनिक, लिपिक, भण्डारी, 15.00 रुपए
भंडार का भार साधक, टाइम कीपर, रोक-
हिया, अन्य प्रवर्ग चाहे जो भी नाम हों, जो
लिपिकार्य प्रकार के हैं।

स्पष्टीकरण :— इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए :—

1. इस अधिसूचना द्वारा नियत न्यूनतम दरें सर्वसम्मिलित करें हैं और इसमें साप्ताहिक विश्राम के लिए देय मजदूरी भी सम्मिलित हैं।
2. इस अधिसूचना द्वारा नियत मजदूरी का न्यूनतम दरें ठेकेदारों द्वारा नियोजित कर्मचारियों को भी लागू हैं।
3. अठारह वर्ष से कम आयु के और निःशक्त व्यक्तियों को देय मजदूरी की न्यूनतम दरें सम्मिलित प्रवर्ग के कर्मचारों के लिए इस अधिसूचना द्वारा नियत दरों का कमजोः 80 प्रतिशत और 100 प्रतिशत होगी।
4. (क) "अकुशल कार्य" से वह कार्य अभिप्रेत है जिसमें बहुत थोड़ी या कुछ भी कुशलता कार्य या अनुभव अपेक्षित न करने वाली साधारण कियानें सम्मिलित हैं ;
(ख) "अर्द्धकुशल कार्य" से वह कार्य अभिप्रेत है, जिसमें कार्य के अनुभव से अजित कुछ मात्रा में कुशलता या सक्षमता सम्मिलित है और जो कुशल कर्मचारियों के पर्यवेक्षण या मार्गदर्शन के अधीन किए जाने योग्य है और इसके अन्तर्गत अकुशल पर्यवेक्षी कार्य भी आता है ;
(ग) "कुशल कार्य" से वह कार्य अभिप्रेत है जिसमें कार्य के अनुभव से अथवा शिक्षा के रूप में या किसी तकनीकी या व्यावसायिक संस्था में प्रशिक्षण के माध्यम से अजित कुशलता या सक्षमता अपेक्षित है जिसके प्राप्त में स्वप्रेरणा और विवेकबुद्धि आवश्यक है।
5. जहाँ संविदा या करार पर आधारित या अन्यथा मजदूरी का विद्यमान दरें इस अधिसूचना द्वारा पुनरीक्षित दरों से उच्चतर हैं वहाँ इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए ऐसा उच्चतर दरें संरक्षित की जाएंगी और वे न्यूनतम मजदूरी की दरें मानी जाएंगी।

[एम- 32019/3/83- डब्ल्यू० सी० (एम० डब्ल्यू०)]

NOTIFICATION

S.O. 760(E).—Whereas certain proposals to revise the minimum rates of wages payable to the
923 GI/83—6

categories of employees employed in Wolfram Mines were published as required by clause (b) of sub-section (1) of Section 5 of the Minimum Wages Act, 1948 (11 of 1948) at pages 6-7 of the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (ii), dated the 20th June, 1983 under the notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Rehabilitation (Department of Labour) number S.O. 441(E) dated the 18th June, 1983 for information of and inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby, till the expiry of the period of two months from the date of publication of the said notification in the Official Gazette;

And whereas the said Gazette was made available to the public on the 20th June, 1983;

And whereas the objections and suggestions received on the said proposals have been considered by the Central Government ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 3 read with clause (iii) of sub-section (1) of section 4 and sub-section 2 of section 5 of the Minimum Wages Act, 1948 (11 of 1948) and in supersession of notification of the Government of India in the Ministry of Labour number S.O. 630(E) dated the 2nd September, 1982, the Central Government, after consulting the Advisory Board revises the minimum rates of wages as specified in column (2) of the Schedule annexed hereto, payable to the categories of employees employed in the employments in wolfram mines as specified in the corresponding entries in column (1) of the said Schedule and directs that this notification shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

SCHEDULE

| Classification of Work | Minimum rates of wages per day |
|--|--|
| 1 | 2 |
| Unskilled | |
| (1) Mazdoor (2) Dressing mazdoor | Rs. 9.75 |
| (3) Peon (4) Sweeper (B) Waterman (6) Chowkidar (7) Other categories by whatever name called which are unskilled. | (for work above ground) Rs. 11.75 (for work below ground) |
| Semi-Skilled | |
| (1) Assistant driller (2) Helper (3) Canteen attendant (4) Mate (without competency certificate under MMR 1961) (5) Signal Man (6) Labour Sirdar (7) Dak Boy (8) Other categories by whatever name called which are semi-skilled or unskilled supervisory. | Rs. 12.25 (for work above ground) Rs. 14.75 (for work below ground) |

Skilled

- (1) Handhole driller (2) Mate (with competency certificates under Metalliferous Mines Rules, 1961) Rs. 15.00 (for work above ground)
- (3) Carpenter (4) Blacksmith (5) Haulage operator (6) Mechanic Rs. 18.00 (for work below ground)
- (7) Dispensary attendant (8) Mason (9) Any other categories by whatever name called which are skilled.

Clerical

- Accountant, Typist /Steno, Clerk, Store keeper, Store incharge, Time keeper, Cashier, any other categories by whatever name called which are of clerical nature. Rs. 15.00

Explanations :—

For the purpose of this notification :—

1. The minimum rates of wages are all inclusive rates and includes also the wages payable for the weekly day of rest;

2. The minimum rates of wages are applicable to employees employed by contractors also;

3. The minimum rates of wages payable to young persons below 18 years of age and for disabled persons shall be 80 percent and 100 percent respectively of the rates revised by this notification for adult workers of the appropriate category.

4. (a) "Unskilled work" means work which involves simple operations requiring little or no skill or experience on the job;

(b) "Semi-skilled work" means work which involves some degree of skill or competence acquired through experience on the job and which is capable of being performed under the supervision or guidance of a skilled employee and includes unskilled supervisory work;

(c) "Skilled work" means work which involves skill or competence acquired through experience on the job or through training as an apprentice in a technical or vocational institute and the performance of which calls for initiative and judgement.

5. Where in any area, the minimum rates of wages fixed by this notification are lower than the prevailing rates of wages of any employee, the higher wages shall be treated as the minimum rates of wages applicable for the purpose of this notification to such employee.

[S-32019/3/83-W.C(MW.)]

अधिसूचना

का० आ० 761(अ).—केलसपर खानों में नियोजित कर्मचारियों के प्रवर्गों को संदेय मजदूरी की न्यूनतम दरों के पुनरीक्षण के लिए कुछ प्रस्थापनाएं न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा 5 की उपधारा (1) के खंड (ख) की अपेक्षानुसार उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी, भारत सरकार के श्रम और पुनर्वास मंत्रालय (श्रम विभाग) की अधिसूचना सं० का० आ० 454 (अ) तारीख 18 जून, 1983 के अधीन भारत के राजपत्र असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) तारीख 20 जून, 1983 पृष्ठ 32-33 पर प्रकाशित की गई थी। उक्त व्यक्तियों में उक्त अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से दो मास की अवधि के अवसान तक आशेष और सुझाव मंगी गए थे ;

और उक्त राजपत्र 20 जून, 1983 को जनता को उपलब्ध करा दिया गया था ;

और केन्द्रीय सरकार ने उक्त प्रस्थापनाओं के संबंध में प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर विचार कर लिया है ;

अतः, केन्द्रीय सरकार न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा 4 की उपधारा (1) के खंड (iii) और धारा 5 की उपधारा (2) के साथ पठित धारा 3 की उपधारा के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० आ० 628 (अ) तारीख 2 मितम्बर, 1982 को अधिकांश करते हुए तथा मलाहकार बोर्ड से परामर्श करने के पश्चात् केलसपर के नियोजन में नियोजित ऐसे कर्मचारियों के प्रवर्गों को, जो इससे उपलब्ध अनुसूची के स्तम्भ (1) तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट है, संदेय मजदूरी की न्यूनतम दरें उक्त अनुसूची के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट रूप में पुनरीक्षित करती है और निवेश देती है कि यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी।

अनुसूची

कार्य का वर्गीकरण दैनिक मजदूरी की न्यूनतम दरें

(1)

(2)

अकुशल :

मजदूर (पुरुष और महिला), खोकीदार, 9.75 रु० (भूमि के खनार्मी, क्लिनर, लवाई करने वाला, हाथ ऊपर कार्य करने के लिए)

कटर, भूमिकटर, बाहक (पत्थर), बाहक, लिए)

काटमैन, अभिरक्षक, कंकोट (ट्रेण्ड मिक्सर) 11.75 रु० (भूमि के खालक (ड्रिल, जट, गधा, खच्चर), लैम्बमैन, नीचे कार्य करने के माली, पेट्रोलमैन, सफेदी वाला, पानी वाला, लिए)

अन्य प्रवर्ग चाहे वे किसी भी नाम से ज्ञात हों, जो अकुशल हैं।

अर्धकुशल :

भिस्ती, ब्रेकर, ड्रिलर, खनक, रसाइया, शिशु 12.25 :० (भूमि के कक्षा आया, मददगार, मुक्कदम, मेट, आधल ऊपर कार्य करने के मैन, पम्प खनार्मी, मिस्त्री, कबीरो मैन, धौधर, लिए)

शुम्बर मैन, टिण्डल, टालीमैन, जमादार, बैरा, 14.75 रु० (भूमि के नीचे सफेदी वाला, ब्रेक्समैन, मददगार, (लोको, जैन, नीचे कार्य करने के ट्रक), टोपाज, टोपकार (बड़ी/बगार्टी/जाइट/ मचाटज ब्रेकर), एज रनर, रैक बालर, टिम्बरमैन, जीक, हेमर, फायर क्ले प्रेम करने या शुष्क करने और साफ करने वाले कर्म- कार और अन्य प्रवर्ग चाहे वे किसी भी नाम से ज्ञात हो जो अर्धकुशल हैं।

NOTIFICATION

कुशल :

कटर, लीटार, बर्डी, कम्पाउन्डर, बिजली मिस्त्री, शाट फायरर, मफेदी वाला, फोर-मैन, फिटर, खान पर्यवेक्षक, दर्जी, प्रधान रसाइया, इंजनमैन, वेल्डर, विस्फोटकर्ता, मशीन मिस्त्री, प्रधान मिस्त्री, उप ओवरसियर, (अनहित), सर्वेक्षक प्रचालक, वायलर मैन, अन्य प्रवर्ग चाहे वे किसी भी नाम से ज्ञात हों जो कुशल हैं ।

लिपिकीय :

लेखापाल, लिपिक, स्टीर लिपिक, 15.00 रु० सामग्री देने वाला, भंडारी (श्रेणी 1 और 2), मिलाज लिपिक, टाईमकीपर, टूल कीपर, कम्प्यूटर, टंकक, आशुलिपिक, अधिलेखापाल, अन्य प्रवर्ग जो चाहे वे किसी भी नाम से ज्ञात हों, लिपिकीय हैं ।

स्पष्टीकरण :-

(1) इस अधिसूचना द्वारा नियत न्यूनतम दरें सर्वसम्मिलित दरें हैं। जिनमें आधारी दर, जीवन निर्वाह भत्ता, आवश्यक वस्तुओं के गिरायती वर पर किए गए प्रदायों, यदि कोई हों कानूकी मूल्य सम्मिलित है तथा साप्ताहिक विश्राम के लिए देय मजदूरी भी सम्मिलित है ।

(2) इस अधिनियम द्वारा नियत मजदूरी की न्यूनतम दरें ठेकेदारों द्वारा नियोजित कर्मचारियों को भी लागू हैं ।

(3) जहां संविदा या करार पर आधारित या अन्यथा मजदूरी की विद्यमान दरें इस अधिसूचना द्वारा नियत दरों से उच्चतर हैं वहां ऐसी उच्चतर दरें इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए न्यूनतम मजदूरी की दरें मानी जाएंगी ।

(4) अठारह वर्ष से कम आयु के और असमर्थ व्यक्तियों को देय मजदूरी की न्यूनतम दरें समुचित प्रवर्ग कर्मचारों के लिए इस अधिसूचना द्वारा नियत दरों का कमरा: 80 प्रतिशत और 100 प्रतिशत होंगी ।

(5) इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए —

(क) "अकुशल कार्य" से वह कार्य अभिप्रेत है जिसमें कार्य की बहुत थोड़ी कुशलता या अनुभव अपेक्षित करने वाली या कुछ भी कुशलता या अनुभव न अपेक्षित करने वाली साधारण प्रियाएं सम्मिलित हैं ;

(ख) "अर्धकुशल कार्य" से वह कार्य अभिप्रेत है जिसमें कार्य के अनुभव से अर्जित कुछ मात्रा में कुशलता या सक्षमता सम्मिलित है और जो कुशल कर्मचारी पर्यवेक्षण या मार्ग दर्शन के अधीन किए जाने योग्य हैं और इसके अन्तर्गत अकुशल पर्यवेक्षी कार्य आता है ;

(ग) "कुशल कार्य" से वह कार्य अभिप्रेत है जिसमें कार्य के अनुभव से अथवा शिक्षा के रूप में या किसी तकनीकी या व्यावसायिक संस्था में प्रशिक्षण के माध्यम से अर्जित कुशलता या सक्षमता अपेक्षित है जिसके पालन में स्वप्रेरणा और विवेकबुद्धि आवश्यक है ।

S. O. 761(E).—Whereas certain proposals to revise the minimum rates of wages payable to the categories of employees employed in Felspar mines were published as required by clause (b) of sub-section (1) of section 5 of the Minimum Wages Act, 1948 (11 of 1948) at pages 33-34 of the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 20th June, 1983 under the notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Rehabilitation (Department of Labour) number S. O. 454 (E) dated the 18th June, 1983 for information of and inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby till the expiry of the period of two months from the date of publication of the said notification in the Official Gazette ;

And whereas the said Gazette was made available to the public on the 20th June, 1983;

And whereas the objections and suggestions received on the said proposals have been considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 3, read with clause (iii) of sub-section (1) of section 4 and sub-section (2) of section 5 of the Minimum Wages Act, 1948 (11 of 1948) and in supersession of notification of the Government of India in the Ministry of Labour number S. O. 628(E) dated the 2nd September, 1982, the Central Government, after consulting the Advisory Board, revises the minimum rates of wages as specified in column (2) of the Schedule annexed hereto payable to the categories of employees employed in employments in Felspar mines as specified in the corresponding entries in column (1) of the said Schedule and directs that this notification shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

SCHEDULE

| Classification of work | Minimum rates of wages per day |
|--|---|
| 1 | 2 |
| Unskilled | |
| Mazdoor, (male and female), Chowkidar, Khalasi, Cleaner, Loader, Hole cutter, Earth cutter, Carrier, (stone), Carrier, Cartman, Caretaker, Concrete (hand mixer) Driver, (bullock, camel, donkey, mulc), Lampman, Mali, Petrolman, White washer, Waterman, other categories by whatever name called which are unskilled. | Rs. 9.75 (for work above ground) Rs. 11.75 (for work below ground) |

Semi-skilled

| | |
|--|--|
| Bhisti, Breaker, Driller, Miner, Cook, Creche Ayah, Helper, Muc-cadam, Mate, Oilman, Pump Khalasi, Mistry, Quarry man, Quarry operator, Storeman, Stocker, Boilerman, Thatcher, Thoom-baman, Tindals, Trolleyman, Jamadar, Bearer, White Washer, Breakesman, Helper (loco, creanes, truck), Topaz, Topkar (big/Quartzite/quartz/breaker), Edge, runner, Pack wallers, Timberman, Jack, Hammer, Fire clay press or drying and refining workers and other categories by whatever name called which are semi-skilled. | Rs. 12.25 (for work above ground) Rs. 14.75 (for work below ground) |
|--|--|

Skilled

| | |
|--|--|
| Cutter Blacksmith, Carpenter, Compounder, Electrician, Shot firer, Whitewasher, Foreman, Fitter, Mines Supervisor, Tailor, Head cook, Engineman, Welder, Blaster, Mechinist, Head mistry, sub-overseer (un-qualified), Surveyor, operator, Boiler man, and any other categories by whatever name called which are of skilled nature. | Rs. 15.00 (for work above ground) Rs. 18.00 (for work below ground) |
|--|--|

Clerical

| | |
|--|-----------|
| Accountant Clerk, Murshi, Store clerk, Store issuer Store keeper, (Grade I & II), Talley clerk, Time keeper, Tool keeper, Computer, Typist, Steno, Record keeper, other categories by whatever name called which are clerical. | Rs. 15.00 |
|--|-----------|

Explanations :—

1. The minimum rates of wages revised by this notification are all inclusive rates including the basic rate, the cost of living allowance and the cash value of concessional supply, if any, of essential commodities and also include the wages payable for the weekly day of rest;

2. The minimum rates of wages revised by this notification are applicable to employees engaged by contractors also.

3. Where the prevailing rates of wages based on contract or agreement or otherwise are higher than the rates revised by this notification the higher rates shall be treated as minimum rates of wages for the purposes of this notification.

4. The minimum rates of wages for disabled and for persons below eighteen years of age shall be hundred per cent and eighty per cent respectively of the rates fixed by this notification for adult workers of the appropriate category.

5. For the purpose of this notification :—

- "Unskilled work" means work which involves simple operations requiring little or no skill or experience on the job;
- "Semi-skilled work" means work which involves some degree of skill or competence acquired through experience on the job and which is capable of being performed under the supervision or guidance of a skilled employee and includes unskilled supervisory work;
- "Skilled work" means work which involves skill or competence acquired through experience on the job or through training as an apprentice in a technical or vocational institute and the performance of which calls for initiative and judgement.

[No. S-32019(3)]83-WC(MW)]

अधिसूचना

का० प्रा० 762(अ).—(1) प्रस्तर खानों (2) कयामाईट खानों (3) सेल खड़ी खानों (जिनके अन्तर्गत साबुन, प्रस्तर और टल्को उत्पादक खानें भी हैं) (4) गरिक खानों (5) एम्बेस्टास खानों और (6) अग्नि-महामृत्तिका खानों में नियोजित कर्मचारियों के प्रवर्गों को संश्लेष मजदूरी की न्यूनतम दरों के पुनरीक्षण के लिए कुछ प्रस्थापनाएं, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) की प्रपेक्षानुसार उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए जिनके उनसे प्रभावित होने की संभावना थी, भारत सरकार के श्रम और पुनर्वस संजालय (श्रम विभाग) की अधिसूचना सं० का० प्रा० 453 (अ) तारीख 18 जून, 1983 के अधीन, भारत के राजपत्र, प्रसाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) तारीख 20 जून, 1983 के पृष्ठ 30-31 पर प्रकाशित की गई थी। उक्त व्यक्तियों से उक्त अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से दो मास की अवधि के अवसान तक आशेष और सुझाव मांगे गए थे ;

और उक्त राजपत्र 20 जून, 1983 को जनता को उपलब्ध करा दिया गया था ;

और केन्द्रीय सरकार ने उक्त प्रस्थापनाओं के संबंध में प्राप्त आशेषों और सुझावों पर विचार कर लिया है ;

अतः, केन्द्रीय सरकार न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा 4 की उपधारा (1) के खंड (iii) और धारा 5 की उपधारा (2) के साथ पठित धारा 3 की उपधारा (i) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम संजालय की अधिसूचना सं० का० प्रा० 631(अ) तारीख 2 सितम्बर, 1982 को अधिकांश करते हुए तथा सप्ताहवार बोंडे में परामर्श करने के पश्चात् (1) प्रस्तर खानों (2) कयामाईट खानों (3) सेलखड़ी खानों (जिनके अन्तर्गत साबुन प्रस्तर और टल्को उत्पादक खानें भी हैं) (4) गरिक खानों (5) एम्बेस्टास खानों और (6) अग्निमहामृत्तिका खानों में नियोजित ऐसे कर्मचारियों के प्रवर्गों को, जो इससे उपाब्ध अनुसूची के स्तम्भ (1) तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट हैं, संश्लेष मजदूरी की न्यूनतम दरें उक्त अनुसूची के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट रूप में पुनरीक्षित करती हैं और निदेश देती हैं कि यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी।

अनुसूची

कार्य का वर्गीकरण

दैनिक मजदूरी की न्यूनतम दरें

1 2

अकुशल :

मजदूर (पुरुष और महिला), चौकीदार, कुली, क्लीनर, खलासी, लद्दाई करने वाला, होलकटर, भूकलक, बाहक (प्रस्तर), बाहक, कार्टमेन, अभिरक्षक, कंक्रिट, (हेण्ड मिक्सर), खानक, (बैल, ऊंट, गाय, खच्चर), लेप-वाला, माली, पट्टोल मैन, सफेदी वाला, पानी वाला, अन्य प्रवर्ग चाहे वे किसी भी नाम से ज्ञात हों, जो अकुशल हैं ।

9.75 रु० (भूमि के ऊपर कार्य करने के लिए)

11.75 रु० (भूमि के नीचे कार्य करने के लिए)

अर्धकुशल :

भित्ती, ब्रैकर, ड्रिलर, खनक, पम्पर, रसोइया, शिक्षक आया, प्रधान चौकीदार, हेल्पर, मुकद्वम, मेटे, आयल मैन, पम्प खलासी, शाट फायरर, प्रधान मिस्त्री, क्वैरीमैन, क्वैरी प्रवालक, स्टोरमैन, स्टाकर, वायलरमैन, पैचर, बैरा, ब्रेकमैन, हेल्पर (लोको, ट्रेन, ट्रक), टोपाज तोपकार भारी प्रस्तर मयानाईट ब्रेकर), एजरमर, पैकवालर, टिम्बर मैन, जैक हैमर, अग्नि सहस्रिका, प्रेम करने या सुखाने और रिफाइन करने वाले कर्मकार, अन्य प्रवर्ग चाहे वे किसी भी नाम से ज्ञात हों जो अर्धकुशल हैं ।

12.25 रु० (भूमि के ऊपर कार्य करने के लिए)

14.75 रु० (भूमि के नीचे कार्य करने के लिए)

कुशल :

लौहार, बढ़ई, कम्पाउन्डर, बिजली मिस्त्री, फोरमैन, फिटर, खान पर्यवेक्षक, दर्जी, प्रधान रसोइया, इंजनमैन, बैल्डर, विस्फोटकता, मशीन मिस्त्री, उपग्रोवरसियर (अनहित), सर्वेक्षक प्रवालक, अन्य प्रवर्ग चाहे वे किसी भी नाम से ज्ञात हों, जो कुशल प्रकृति के हैं ।

15.00 रु० (भूमि के ऊपर कार्य करने के लिए)

18.00 रु० (भूमि के नीचे कार्य करने के लिए)

लिपिकीय :

लेखापाल, लिपिक, मंशी, स्टोर लिपिक, स्टोर इण्ट्रर, भण्डारी (श्रेणी 1 और 2), मिलात लिपिक, समयपाल, टूल कीपर, कम्प्यूटर टंकक, प्राणलिपिक, अभिलेखापाल, अन्य प्रवर्ग चाहे वे किसी भी नाम से ज्ञात हों, जो लिपिकीय हैं ।

15.00 रुपए

स्पष्टीकरण :

1. इस अधिसूचना द्वारा प्रस्तावित न्यूनतम दरें सर्वसम्मिलित दरें हैं, जिनमें आधारी दर जीवन निर्वाह भत्ता, आवश्यक वस्तुओं के गिरायती दर पर किए गए प्रदायों का, यदि कोई हो, नकदी मूल्य सम्मिलित है तथा साप्ताहिक विश्राम के लिए देय मजदूरी भी सम्मिलित है ।

2. मजदूरी की न्यूनतम दरें ठेकेदारों द्वारा नियोजित कर्मचारियों को भी लागू हैं ।

3. जहां संविदा या करार पर आधारित या अन्यथा मजदूरी की विश्रामान दरें इस अधिनियम के अधीन अधिसूचित दरों से उच्चतर हैं वहां ऐसी उच्चतर दरें संरक्षित की जाएंगी और वे इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए न्यूनतम मजदूरी की दरें मानी जाएंगी ।

4. इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए —

(क) “अकुशल कार्य” से वह कार्य अभिप्रेत है जिसमें कार्य की बहुत थोड़ी कुशलता या अनुभव अपेक्षित करने वाली प्रथा, कुछ भी कुशलता या अनुभव न अपेक्षित करने वाली साधारण क्रियाएं - सम्मिलित हैं ;

(ख) “अर्धकुशल कार्य” से वह कार्य अभिप्रेत है जिसमें कार्य के अनुभव से अर्जित कुछ मात्रा में कुशलता या सक्षमता सम्मिलित है और जो कुशल कर्मचारी के पर्यवेक्षण या मार्ग दर्शन के अधीन किए जाने योग्य है और इसके अन्तर्गत अकुशल पर्यवेक्षी कार्य भी हैं ;

(ग) “कुशल कार्य” से वह कार्य अभिप्रेत है जिसमें कार्य के अनुभव से अथवा शिक्षा के रूप में या किसी तकनीकी या व्यावसायिक संस्था में प्रशिक्षण के माध्यम से अर्जित कुशल या सक्षमता अपेक्षित है और जिसके पालन में स्वतंत्रता और विवेकबुद्धि आवश्यक है ।

5. अठारह वर्ष से कम आयु के और असमर्थ व्यक्तियों को वेय मजदूरी की न्यूनतम दरें समुचित प्रवर्ग के वयस्क कार्यकारों को संदेय दरों का क्रमशः 80 प्रतिशत और 100 प्रतिशत होंगी ।

[एस-32019/3/83-इब्ल्यू सी० (एम० इब्ल्यू०)]

NOTIFICATION

S. O. 762(E).—Whereas certain proposals to revise the minimum rates of wages payable to the categories of employees employed in (1) stone mines (ii) kyanite mines (iii) steatite mines (including mines producing soapstone and talc) (iv) ochre mines (v) asbestos mines and (vi) fire clay mines were published as required by clause (b) of sub-section (1) of section 5 of the Minimum Wages Act, 1948 (11 of 1948) at page 31-32 of the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 20th June, 1983 under the notification of the Government of India, in the Ministry of Labour and Rehabilitation (Department of Labour) number S. O. 453 (E) dated the 18th June, 1983 for information of, and inviting objections and suggestions from, all persons likely to be affected thereby, till the expiry of the period of two months from the date of publication of the said notification in the Official Gazette;

And whereas the said Gazette was made available to the public on the 20th June, 1983;

And whereas the objections and suggestions received on the said proposals have been considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 3, read with Clause (iii) of sub-section (1) of

section 4 and sub-section (2) of section 5 of the Minimum Wages Act, 1948 (11 of 1948), and in supersession of notification of the Government of India in the Ministry of Labour S. O. 631(E) dated the 2nd September, 1982, the Central Government, after consulting the Advisory Board, revises the minimum rates of wages as specified in column (2) of the Schedule annexed hereto, payable to the categories of employees employed in employments in (i) stone mines (ii) kyanite mines (iii) steatite mines (including mines producing soapstone and talc) (iv) ochre mines (v) asbestos mines and (vi) fireclay mines as specified in the corresponding entries in column (1) of the said Schedule and directs that this notification shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

SCHEDULE

| Classification of work | Minimum rates of wages per day |
|------------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 |

Unskilled :

| | |
|--|---|
| Mazdoor (Male & Female), Chowkidar, Coolie, Cleaner, Khalasi, Loader, Hole cutter, Earth cutter, Carrier (Stone), Carrier, Cartmen, Caretaker, Concrete (Hand mixer), Driver (bullock, camel, donkey, mule), Lampman, Mali, Petrolman, White Washer, Waterman, other categories by whatever name called which are unskilled. | Rs. 9.75 (for work above ground) Rs. 11.75 (for work below ground) |
|--|---|

Semi-skilled :

| | |
|---|--|
| Bhisti, Breaker, Driller, Miner, Attendant, Cook, Creche Ayah, Head Chowkidar, Helper, Muccadan, Mate, Oil man, Pump Khalasi, Shot firer, Head mistry, Quarry man, Quarry operator, Storeman, Stocker, Boilerman, Thatcher, Thoombaman, Tindals, Trolleyman, Jamadar, Bearer, Breakesman, Helper (loco, crane, truck), Topaz, Topkar, (big stone/Kyanite Breaker), Edge Runner, Pack Wallers, Timberman, Jack, Hammer, Fire clay press or drying and refining workers, other categories by whatever name called which are semi-skilled. | Rs. 12.25 (for work above ground) Rs. 14.75 (for work below ground) |
|---|--|

Skilled :

| | |
|--|--|
| Blacksmith, Carpenter, Compounder, Electrician, Foreman, Fitter, Mine Supervisor, Tailor, Head Cook, Engine man, Welder, Blaster, Machinist, sub-overseer (Un- | Rs. 15.00 (for work above ground) Rs. 18.00 (for work below ground) |
|--|--|

| 1 | 2 |
|--|-----------|
| qualified), Surveyor, Operator, any other categories by whatever name called which are of skilled nature. | |
| Clerical | |
| Accountant, Clerk Munshi, Store clerk, Store Issuer Store Keeper (Grade I & II), Talley clerk, Time Keeper, Tool keeper, Computer, Typist, Steno, Recordkeeper, other categories by whatever name called which are clerical. | Rs. 15.00 |

Explanations :

1. The minimum rates of wages fixed as per this notification are all inclusive rates including the basic rate, the cost of living allowance and the cash value of concessional supply, if any, of essential commodities and also include the wages payable for the weekly day of rest.

2. The minimum rates of wages are applicable to employees employed by contractors also.

3. Where the prevailing rates of wages based on contract or agreement or otherwise are higher than the notified rates under the Act, the higher rates would be protected and treated as minimum rates of wages for the purposes of this notification.

4. For the purposes of this notification :—

- “Unskilled work” is one which involves simple operations requiring little or no skill or experience on the job;
- “Semi-skilled work” is one which involves some degree of skill or competence acquired through experience on the job and which is capable of being performed under the supervision or guidance of skilled employee, and includes unskilled supervisory work;
- “Skilled work” is one which involves skill or competence acquired through experience on the Job or through training as an apprentice in a technical or vocational institute and the performance of which calls for initiative and judgement.

5. The minimum rates of wages for disabled persons and for persons below eighteen years of age shall be 100% and 80 per cent respectively of the rates payable to adult workers of the appropriate category.

का० आ० 763 (अ) :—प्रेनाइट खानों में नियोजित कर्मचारियों के प्रवर्गों को संदेय मजदूरी की न्यूनतम दरों के पुनरीक्षण के लिए कुछ प्रस्थापनाएं, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा 5 की उपधारा (1) के खंड (ख) की अपेक्षानुसार उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए जिनके उनसे प्रभावित होने की संभावना थी, भारत सरकार के श्रम और पुनर्वसन मंत्रालय (श्रम विभाग) की अधिसूचना सं० का० आ० 456 (अ) तारीख 18 जून, 1983 के अधीन भारत के राजपत्र असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) तारीख 20 जून, 1983 के पृष्ठ 37 पर प्रकाशित की गई थी। उक्त व्यक्तियों से उक्त अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से दो मास की अवधि के अवसान तक आक्षेप और सुझाव मांगे गए थे।

और उक्त राजपत्र 20 जून, 1983 को जनता को उपलब्ध करा दिया गया था।

और केन्द्रीय सरकार ने उक्त प्रस्थापनाओं के संबंध में प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर विचार कर लिया है।

अतः, केन्द्रीय सरकार, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 2) की धारा 4 की उपधारा (1) के खंड (3) और धारा 5 की उपधारा (2) के साथ पठित धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० आ० 627 (अ) तारीख 2 सितम्बर, 1982 को अधिश्रान्त करने हुए तथा सलाहकार बोर्ड से परामर्श करने के पश्चात् प्रेनाइट खानों के नियोजन में नियोजित ऐसे कर्मचारियों के प्रवर्गों को, जो इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (1) में तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट हैं, संदेय मजदूरी की न्यूनतम दरें उक्त अनुसूची के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट रूप में पुनरीक्षित करती है, और निदेश देती है कि यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी।

अनुसूची

कार्य का वर्गीकरण वेनिक मजदूरी की न्यूनतम दरें

(1) (2)

अकुशल :

मजदूर (पुरुष और महिला), चौकीदार, क्लीनर, खलासी, लदाई करने वाला, खदान श्रमिक, होल-कटर, ग्रंथ-कटर, बाहक (पत्थर), बाहक, ठेले वाला, अभिरक्षक, कंक्रीट हस्त मिश्रक, ड्राइवर, (वैल, ऊंट, गधा, खच्चर), लैप्समैन, माली, पैट्रोल, मैन, सफेदी करने वाला, पानी वाला, जाली मेकर, धावर बर्तन रिमूवर, बैस्ट रिमूविंग मजदूर, अन्य प्रवर्ग चाहें किसी भी नाम से ज्ञात हों, जो अकुशल हैं।

अर्द्ध-कुशल/अकुशल पर्यवेक्षी :

मिस्त्री, ब्रेकर, ड्रिलर, परिचर, रसोइया, क्रेच धाया, प्रधान चौकीदार, मददगार, मुकद्दम, सेट, धायल मैन, पम्प खलासी, शाट फायरर, प्रधान मिस्त्री, क्वैरी मैन, खदान, प्रचालक स्टोर मैन, स्टाकर, वायलर मैन, थैवर, थुम्बा मैन, ट्रावी मैन, जमादार, टिण्डल बीग, ब्रेकमैन मददगार (क्रेन, ट्रक), टिम्बर मैन, जैक, हैमर, स्टोन कटर, और ड्रेसर, चिजल मैन, अन्य प्रवर्ग चाहें किसी भी नाम से ज्ञात हों जो अर्द्धकुशल/अकुशल पर्यवेक्षी हैं।

कुशल :

लीडर, बर्बर, कम्पाउन्डर, बिजली मिस्त्री, फोर-मैन, फिटर, खान पर्यवेक्षक, वर्जी, प्रधान रसोइया, इंजन मैन, बैन्डर, विस्फोटकर्ता, मशीनिस्ट, सॉ-ओवरमियर (अनर्हित), सर्वेक्षक, प्रचालक, कोई अन्य प्रवर्ग चाहें किसी भी नाम से ज्ञात हों, जो कुशल प्रकृति के हैं।

लिपिकीय :

लेखाकार, लिपिक, मुंशी, भंडार लिपिक, सामग्री देने वाला, भंडारी (श्रेणी 1 और 2), टेनी-लिपिक, टाइम कीपर, टूल कीपर, कम्प्यूटर, टंकक, ग्रामुलिपिक, प्रिन्टलेखापाल, अन्य प्रवर्ग चाहें किसी भी नाम से ज्ञात हों, जो लिपिकीय हैं।

स्पष्टीकरण : इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए :—

(1) मजदूरी की न्यूनतम दरें सर्वसम्मिलित दरें हैं, जिनमें प्राधारी दर, जीवन निर्वाह भत्ता, आवश्यक वस्तुओं के रियायती दर पर किए गए प्रदायों का, यदि कोई हो, नकदी मूल्य सम्मिलित है तथा साप्ताहिक विश्राम के लिए देय मजदूरी भी सम्मिलित है।

(2) मजदूरी की न्यूनतम दरें ठेकेदारों द्वारा नियोजित कर्मचारियों को को भी लागू हैं।

(3) अठारह वर्ष से कम आयु के और अममय व्यक्तियों को देय मजदूरी की न्यूनतम दरें समुचित प्रवर्ग के व्यस्क कर्मचारों को संदेय दरों का क्रमशः 80 प्रतिशत और 100 प्रतिशत होगी।

(9) (क) "अकुशल कार्य" से वह कार्य अभिप्रेत है जिसमें कार्य की बहुत थोड़ी कुशलता या अनुभव अपेक्षित करने वाली प्रथमा कुछ भी कुशलता या अनुभव न अपेक्षित करने वाली साधारण क्रियाएं सम्मिलित हैं।

(ख) "अर्द्धकुशल कार्य" से वह कार्य अभिप्रेत है जिसमें कार्य के अनुभव से अर्जित कुछ मात्रा से कुशलता या सक्षमता सम्मिलित है और जो कुशल कर्मचारी के पर्यवेक्षण या मार्गदर्शन के अधीन किए जाने योग्य है और इसके अन्तर्गत अकुशल पर्यवेक्षी कार्य भी आता है,

(ग) "कुशल कार्य" से वह कार्य अभिप्रेत है जिसमें कार्य के अनुभव से प्रथमा शिक्षक के रूप में या किसी तकनीकी या व्यावसायिक संस्था में प्रशिक्षण के माध्यम से अर्जित कुशलता या सक्षमता अपेक्षित है और जिसके पालन में स्वप्रेरणा और विवेक आवश्यक है।

(5) जहां संविदा या करार पर प्राधारित या अन्यथा किसी कर्मचारी की मजदूरी की विद्यमान दरें इसमें अधिसूचित दरों से उच्चतर हैं वहां इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए ऐसी उच्चतर दरें ऐसे कर्मचारियों को लागू मजदूरी की न्यूनतम दरें मानी जाएंगी।

[एस-32019/3/83-डब्ल्यू. सी. (एम. डब्ल्यू.)]

NOTIFICATION

S. O. 763(E).—Whereas certain proposals to revise the minimum rates of wages payable to the categories of employees employed in granite mines were published as required by

clause (b) of sub-section (1) of section 5 of the Minimum Wages Act, 1948 (11 of 1948) at pages 38-39 of the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (ii), dated the 20th June, 1983 under the notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Rehabilitation (Department of Labour) number S.O. 456 (E) dated the 18th June, 1983 for information of and inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby till the expiry of the period of two months from the date of publication of the said notification in the Official Gazette;

And whereas the said Gazette was made available to the public on the 20th June, 1983;

And whereas the objections and suggestions received on the said proposals have been considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 3 read with clause (iii) of sub-section (1) of section 4 and sub-section (2) of section 5 of the Minimum Wages Act, 1948 (11 of 1948) and in supersession of notification of the Government of India in the Ministry of Labour number S.O. 627(E) dated the 2nd September, 1982, the Central Government, after consulting the Advisory Board, revised the minimum rates of wages as specified in column (2) of the Schedule annexed hereto payable to the categories of employees employed in employment in granite mines as specified in the corresponding entries in column (1) of the said Schedule and directs that this notification shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

SCHEDULE

| Classification of work | Minimum rates of wages per day |
|--|---|
| (1) | (2) |
| Unskilled : | |
| Mazdoor (male and female), Chowkidar, Cleaner, Khalasi, Loader, Quarry worker, Hole cutter, Earth cutter, Carrier (Stone), Carrier, Cartman, Caretaker, Concrete hand mixer, Driver, (bullock, camel, donkey, mule); Lampman, Mali, Petrolman, White washer, Waterman, Jally maker, over burden remover, Waste removing mazdoor, other categories by whatever name called which are unskilled. | Rs. 9.75 (for work above ground) Rs. 11.75 (for work below ground) |
| Semi-skilled/unskilled supervisory : | |
| Bhisti, Breaker, Driller, Attendant, Cook, Crecheayah, Head Chowkidar, Helper, Muccadam, | Rs. 12.25 (for work above ground) Rs. 14.75 (for work |

| 1 | 2 |
|--|--|
| Mate, Oilman, Pump khalasi, Shot firer, Head Mistry, Quarryman, Quarry operator, Storeman, Stocker, Boilerman, Thutcher, Thoombaman, Tindals, Trolleyman, Jamadar, Bearer, Breakesman, Helper (crane, truck), Timberman, Jack hammer, Stone cutter and dresser, Chisel man, Other categories by whatever name called which are semi-skilled/unskilled supervisory. | below ground) |
| Skilled | |
| Blacksmith, Carpenter, Compounder, Electrician, Foreman, Fitter, Mine supervisor, Tailor, Head cook, Engine man, Welder, Blaster, Machinist, Sub-overseer (unqualified), surveyor, Operator, any Other categories by whatever name called which are of skilled nature. | Rs. 15.00 (for work above ground) Rs. 18.00 (for work below ground) |
| Clerical : | |
| Accountant, Clerk, Munshi, Store clerk, Store issuer, Store keeper, (grade I and II), Talley clerk, Time keeper, Tool keeper, Computer, Typist, Steno) Record keeper, other categories by whatever name called which are clerical. | Rs. 15.00 |

Explanations for the purpose of this notification :

(1) The minimum rates of wages are all inclusive rates including the basic rates, the cost of living allowance and the cash value of the concessional supply if any, of essential commodities and include also the wages payable for the weekly day of rest.

(2) The minimum rates of wages are applicable to employees employed by contractors also.

(3) The minimum rates of wages for persons below 18 years of age and for disabled persons shall be 80 per cent and 100 per cent of the rates payable to the adult workers of the appropriate category as specified in the Schedule above.

(4) (a) "Unskilled work" is one which involves simple operations requiring little or no skill or experience on the job;

(b) "Semi-skilled work" is one which involves some degree of skill or competence acquired through experience on the job and which is capable of being performed under the supervision or guidance of a skilled employee, and includes unskilled supervisory work;

(c) "skilled work" is one which involves skill or competence acquired through experience on the job or through train-

ing as an apprentice in a technical or vocational institute and the performance of which calls for initiative and judgement.

(5) Where the existing rates of wages of any employee based on contract or agreement or otherwise are higher than the rates notified herein, the higher rates shall be treated as the minimum rates of wages applicable for the purpose of this notification to such employees.

[S-32019/3/83-W.C.(M.W.)]

अधिसूचना

का० प्रा० 764 (अ) :--डोलोमाइट खानों में नियोजित कर्मचारियों के प्रवर्गों को संदेय मजदूरी की न्यूनतम दरों के पुनरीक्षण के लिए कुछ प्रस्तावनाएं, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) की अपेक्षानुसार उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी, भारत सरकार के श्रम और पुनर्वसि मंत्रालय (श्रम विभाग) की अधिसूचना सं० का० प्रा० 442 (अ) तारीख 18 जून, 1983 के अधीन, भारत के राजपत्र असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) तारीख 20 जून, 1983 से पृष्ठ 7-8 पर प्रकाशित की गई थी : उक्त व्यक्तियों से उक्त अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से दो मास की अवधि के अवसान तक आशेष और सुझाव मांगे गए थे;

और उक्त राजपत्र 20 जून, 1983 को जनता को उपलब्ध करा दिया गया था;

और केन्द्रीय सरकार ने उक्त प्रस्तावनाओं के संबंध में प्राप्त आशेषों और सुझावों पर विचार कर लिया है;

अतः, केन्द्रीय सरकार, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (iii) और धारा 5 की उपधारा (2) के साथ पठित धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० प्रा० 633 (अ) तारीख 2 सितम्बर, 1982 को अधिष्ठात करने हुए तथा सलाहकार बोर्ड से परामर्श करने के पश्चात् डोलोमाइट खानों के नियोजित में नियोजित ऐसे कर्मचारियों के प्रवर्गों को, जो इससे उपाब्ध अनुसूची के स्तम्भ (1) तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट हैं, संदेय मजदूरी की न्यूनतम दरें उक्त अनुसूची के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट रूप में पुनरीक्षित करती हैं और निदेश देती हैं कि यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी।

अनुसूची

| कार्य का वर्गीकरण | दैनिक मजदूरी की न्यूनतम दरें |
|-------------------|------------------------------|
| 1 | 2 |

अकुशल :

| | |
|---|--|
| मजदूर (पुरुष और स्त्री), चौकीदार, क्लीनर, खलासी, सवाई करने वाला, होल कटर, भ्रंश कटर, वाहक (पत्थर), वाहक, ठेलेवाला, कैपर टेकर, कंकरीट (हैंड मिक्सर), ड्राईवर, (बैल, ऊंट, गधा खंजर), लैम्पमैन, पेट्रोलमैन, सफेदी करने वाला, पानी वाला, अन्य प्रवर्गों के व्यक्ति चाहे उन्हें किसी भी नाम से बुलाया जाता हो, जो अकुशल हैं। | 9.75 रु० (भूमि के ऊपर कार्य करने के लिए) 11.75 रु० (भूमि के नीचे कार्य करने के लिए) |
|---|--|

1

2

अर्धकुशल :

| | |
|---|---|
| मिश्री, ब्रेकर, ड्रिलर, खनक, रसोइया, शिशुनक्षत्राया, प्रधान चौकीदार, मददगार, मुकद्दम, सेट, आयलमैन, पम्प खलासी, माली, प्रधान मिस्त्री, खदान मजदूर, खदान संक्रियाएं, स्टोनमैन, स्टाकर, वायलरमैन, थेचर, धुम्बामैन, टिडल, ड्रासीमैन, जमादार, बेयरर, टैक्समैन, मददगार (लोको, क्रेन, ट्रक), तोपज, टोपकार (बड़ा पत्थर/क्यानाइट ब्रेकर), एज रनर, पैक बालर्स, टिम्बरमैन, जैक हैमर, फायर ब्ले प्रेस या शुष्कन और परिष्करण कर्मकार, अन्य प्रवर्गों के व्यक्ति चाहे उन्हें किसी नाम से बुलाया जाता हो, जो अर्धकुशल हैं। | 12.25 रु० (भूमि के ऊपर कार्य करने के लिए) 14.75 रु० (भूमि के नीचे कार्य करने के लिए) |
|---|---|

कुशल:

| | |
|--|---|
| लोहार, यकूई, कम्पाउन्डर, बिजली मिस्त्री, फोरमैन, फिटर, खान पर्यवेक्षी, दर्जी, शॉट फायरर, प्रधान रसोइया, इंजन मैन, वेल्डर, ब्लेस्टर, मशीन मिस्त्री, उप ओवरसियर, सर्वेक्षक (अनहित), प्रापरेटर, अन्य प्रवर्गों के व्यक्ति चाहे उन्हें किसी भी नाम से बुलाया जाता हो, जो कुशल हैं। | 15.00 रु० (भूमि के ऊपर कार्य करने के लिए) 18.00 रु० (भूमि के नीचे कार्य करने के लिए) |
|--|---|

लिपिकीय:

| | |
|---|-----------|
| लेखापाल, लिपिक, मुंजी, भंडार लिपिक, सामान देने वाला, भण्डारी (श्रेणी 1 और 2), टेली ब्लर्क, टाइम कीपर, टूल कीपर, संगणक, टंकक, प्राणुलिपिक, अभिलेखापाल, अन्य वर्गों के व्यक्ति चाहे उन्हें किसी भी नाम से बुलाया जाता हो, जो लिपिकीय हैं। | 15.00 रु० |
|---|-----------|

स्पष्टीकरण:

1. इस अधिसूचना द्वारा प्रस्तावित मजदूरी की न्यूनतम दरें संचालित दरें हैं, जिनमें आधारी दर, जीवन निर्वाह भत्ता, आवश्यक वस्तुओं के रियायती दर पर किए गए प्रदायों का, यदि कोई हो, नकदी मूल्य सम्मिलित है तथा साप्ताहिक विश्राम के लिए देय मजदूरी भी सम्मिलित है।

2. मजदूरी की न्यूनतम दरें ठेकेदारों द्वारा नियोजित कर्मचारियों को भी लागू हैं।

3. जहां संविदा या करार पर आधारित या अन्यथा मजदूरी की विश्रामान दरें अधिनियम के अधीन अधिसूचित दरों से उच्चतर हैं, वहां इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए ऐसी उच्चतर दरें संरक्षित की जाएंगी और वे न्यूनतम मजदूरी की दरें मानी जाएंगी।

4. इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए—

(क) "अकुशल कार्य" से वह कार्य अभिप्रेत है जिसमें कार्य की बहुत थोड़ी कुशलता या अनुभव अपेक्षित करने वाली प्रथम कुछ भी कुशलता या अनुभव न अपेक्षित करने वाली साधारण कृत्याएं सम्मिलित हैं;

(ख) "अर्ध कुशल कार्य" से वह कार्य अभिप्रेत है जिसमें कार्य के अनुभव से अर्जित कुछ मात्रा में कुशलता या सक्षमता सम्मिलित है और जो कुशल कर्मचारी के पर्यवेक्षण या मार्ग दर्शन के अधीन किए जाने योग्य है और इसके अन्तर्गत अकुशल पर्यवेक्षी कार्य भी आता है;

(ग) "कुशल कार्य" से वह कार्य अभिप्रेत है जिसमें कार्य के अनुभव से प्रथम शिष्ट के रूप में या किसी तकनीकी या व्यावसायिक संस्था में प्रशिक्षण के माध्यम से अर्जित कुशलता या सक्षमता अपेक्षित है और जिसके पालन में स्वतंत्रता और विवेकबुद्धि आवश्यक है।

5. प्रसमर्थ व्यक्तियों और अठारह वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को दैन्य मजदूरी की न्यूनतम दरे समुचित प्रयोग के व्यस्क कर्मकार को संदेय करने पर क्रमशः 100 प्रतिशत और 80 प्रतिशत होगी।

[एम-32019/3/83-इल्यु. सी. (एम इल्यु.)]

NOTIFICATION

S.O. 764(E).—Whereas certain proposals to revise the minimum rates of wages payable to the categories of employees employed in dolomite mines were published as required by clause (b) of sub-section (1) of section 5 of the Minimum Wages Act, 1948 (11 of 1948) at pages 8-9 of the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, Sub-section (ii), dated the 20th June, 1983 under the notification of the Government of India, in the Ministry of Labour and Rehabilitation (Department of Labour) number S.O. 442 (E) dated the 18th June, 1983 for information of and inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby till the expiry of the period of two months from the date of publication of the said notification in the Official Gazette;

And whereas the said Gazette was made available to the public on the 20th June, 1983;

And whereas the objections and suggestions received on the said proposals have been considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 3 read with clause (iii) of sub-section (1) of section 4 and sub-section (2) of section 5 of the Minimum Wages Act, 1948 (11 of 1948) and in supersession of notification of the Government of India in the Ministry of Labour number S.O. 633(E) dated the 2nd September, 1982, the Central Government, after consulting the Advisory Board, revises the minimum rates of wages as specified in column (2) of the Schedule annexed hereto payable to the categories of employees employed in employments in dolomite mines as specified in the corresponding entries in column (1) of the said Schedule and directs that this notification shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

SCHEDULE

| Classification of work | Minimum rates of wages per day |
|--|---|
| 1 | 2 |
| Unskilled | |
| Mazdoor (male and female), Chowkidar, Cleaner, Khalasi, Loader, Hole cutter, Earth cutter, Carrier, (stone), Carrier, Cartman, Caretaker, Concrete (hand mixer), Driver, | Rs. 9.75 (for work above ground) Rs. 11.75 (for work below ground) |

| 1 | 2 |
|---|---|
| (bullock, camel, donkey, mule), Lampman, Petrolman, White Washer, Waterman, other categories by whatever name called which are unskilled. | |

Semi-skilled

| | |
|---|--|
| Bhisti, Breaker, Driller, Miner, Cook, Creche Ayah, Head Chowkidar, Helper, Muccadam, Mate, Oilman, Pump khalasi, Mali, Head mistry, Quarry man, Quarry operator, Stone man, Stocker, Brilerman, Jamadar, Thatcher, Thoombaman, Tindals, Trolleyman, Jamadar, Bearer, Breakesman, Helper, (loco, crane, truck), Topax, Topkar (big stone/kyanite breaker), Edge runner, Pack wallers, Timberman, Jack hammer, Fire clay press or drying and refining worker, other categories by whatever name called which are semi-skilled. | Rs. 12.25 (for work above ground) Rs. 14.75 (for work below ground) |
|---|--|

Skilled

| | |
|--|--|
| Blacksmith, Carpenter, Compounder, Foreman, Electrician, Fitter, Mine Supervisor, Tailor, Shot firer, Head Cook, Engine man, Welder, Blaster, Machinist, Sub-overseer (unqualified), surveyor, Operator, any other categories by whatever name called which are of skilled nature. | Rs. 15.00 (for work above ground) Rs. 18.00 (for work below ground) |
|--|--|

Clerical

| | |
|--|-----------|
| Accountant, Clerk Munshi, Stores clerk, Store, issuer, Storekeeper (Grade I & II), Talley clerk, Timekeeper, Tool keeper, Computer, Typist, Steno. Record keeper, other categories by whatever name called which are clerical. | Rs. 15.00 |
|--|-----------|

Explanations :

1. The minimum rates of wages revised by this notification are all inclusive rates including the basic rate, the cost of living allowance and the cash value of concessional supply, if any, of essential commodities and also include the wages payable for the weekly day of rest.

2. The minimum rates of wages are applicable to employees employed by contractors also.

3. Where the prevailing rates of wages based on contract or agreement or otherwise are higher than the notified rates under the Act, the higher rates would be protected and treated as minimum rates of wages for the purpose of this notification.

4. For the purpose of this notification :—

(a) "Unskilled work" is one which involves simple operations requiring little or no skill or experience on the job;

(b) "semi-skilled work" is one which involves some degree of skill or competence acquired through experience on the job and which is capable of being performed under the supervision or guidance of a skilled employee and includes unskilled supervisory work;

(c) "skilled work" is one which involves skill or competence acquired through experience on the job or through training as an apprentice in a technical or vocational institute and the performance of which calls for initiative and judgement.

5. The minimum rates of wages for disabled persons and for persons below eighteen years of age shall be hundred and eighty per cent respectively of the rates payable to adult workers of the appropriate category.

[S-32019/3/83-WC(MW)]

का० आ० 765 (अ):—लेटराइट खानों में नियोजित कर्मचारियों के प्रवर्गों को संश्लेष मजदूरी की न्यूनतम दरों के पुनरीक्षण के लिए कुछ प्रस्थापनाएं, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा 5 की उपधारा (1) के खंड (ख) की अपेक्षानुसार उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए जिनके उनसे प्रभावित होने की संभावना थी, भारत सरकार के श्रम और पुनर्वास मंत्रालय (श्रम विभाग) की अधिसूचना सं० का० आ० 439 (अ) तारीख 18 जून, 1983 के अधीन, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) तारीख 20 जून, 1983 के पृष्ठ 1-2 पर प्रकाशित की गई थी। उक्त व्यक्तियों में उक्त अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से दो मास की अवधि के अवसान तक आक्षेप और मुद्दाएं मांगे गए थे;

और उक्त राजपत्र 20 जून, 1983 को जनता को उपलब्ध करा दिया गया था;

और केन्द्रीय सरकार ने उक्त प्रस्थापनाओं के संबंध में प्राप्त आक्षेपों और मुद्दाओं पर विचार कर लिया है;

अतः, केन्द्रीय सरकार, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा 4 की उपधारा (1) के खंड (3) और धारा 5 की उपधारा (2) के साथ पठित धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० आ० 643 (अ) तारीख 2 मितम्बर, 1982 को अधिस्त करने हुए तथा सभाहकार बोर्ड से परामर्श करने के पश्चात् लेटराइट के नियोजन में नियोजित ऐसे कर्मचारियों के प्रवर्गों को, जो इससे उपावृद्ध अनुमूची के स्तम्भ (1) तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट हैं, संश्लेष मजदूरी की न्यूनतम दरें उक्त अनुमूची के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट रूप में पुनरीक्षित करती हैं और निदेश देती हैं कि यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी।

अनुसूची

| कार्य का वर्गीकरण | संश्लेष मजदूरी की न्यूनतम दरें |
|-------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 |

अकुशल :

मजदूर (पुरुष और स्त्री), चौकीदार, यमीनगर, 9.75 रु० (भूमि के ऊपर खपासी, लवाई करने वाला, उतगई करने वाला, कार्य करने के लिए)

| 1 | 2 |
|--|--------------------------|
| उत्खनन श्रमिक, खनैन, साहूकरण, बेलदार, अन्य प्रवर्ग चाहें किसी भी नाम से ज्ञात हों, जो अकुशल कार्य करने के लिए) | 11.75 रु० (भूमि के नीचे) |

अर्द्धकुशल/अकुशल पर्यवेक्षक :

| | |
|--|---|
| सहायक ड्रिलर, माली, खनक, मेट, (धातु उत्पादक खान विनियम, 1961 के अधीन क्षमता प्रमाणपत्र के बिना), मृकदम (धातुत्पादक खान विनियम, 1961 के अधीन क्षमता प्रमाणपत्र के बिना), ईष्ट चौकीदार, अन्य प्रवर्ग चाहें किसी भी नाम से ज्ञात हों, जो अर्द्धकुशल/अकुशल पर्यवेक्षक हैं। | 12.25 रु० (भूमि के ऊपर कार्य करने के लिए) 14.75 रु० (भूमि के नीचे कार्य करने के लिए) |
|--|---|

कुशल :

| | |
|---|---|
| खान पर्यवेक्षक, ड्रिलर, कम्प्रेसर, घट्टेडर, मशीनरी घट्टेडर, विस्फोटकर्ता (शाट फायरर), ड्राईबर, मेट (धातुत्पादक खान विनियम, 1961 के अधीन क्षमता प्रमाणपत्र सहित), मृकदम (धातुत्पादक खान विनियम, 1961 के अधीन क्षमता प्रमाणपत्र सहित) पर्यवेक्षक, अन्य प्रवर्ग चाहें किसी भी नाम से ज्ञात हों, जो कुशल हैं। | 15.00 रु० (भूमि के ऊपर कार्य करने के लिए) 18.00 रु० (भूमि के नीचे कार्य करने के लिए) |
|---|---|

विधिकार्य :

| | |
|--|-----------|
| विधिक, मृगी, सेखाकार, टाइम कीपर, सामग्री देने वाला, टंकक, अन्य प्रवर्ग चाहें किसी भी नाम से ज्ञात हों, जो विधिकार्य हैं। | 15.00 रु० |
|--|-----------|

स्पष्टीकरण :

1. इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए :—

(क) "अकुशल कार्य" से यह कार्य अभिप्रेत है जिसमें बहुत थोड़ी कुशलता अपेक्षित करने वाली या कुछ भी कुशलता अथवा अनुभव अपेक्षित न करने वाली साधारण क्रियाएं सम्मिलित हैं;

(ख) "अर्द्धकुशल कार्य" से वह कार्य अभिप्रेत है जिसमें कार्य के अनुभव से अर्जित कुछ मात्रा में कुशलता या सक्षमता सम्मिलित है और जो कुशल कर्मचारी के पर्यवेक्षण या मार्गदर्शन के अधीन किए जाने योग्य है और इसके अन्तर्गत अकुशल पर्यवेक्षी कार्य भी हैं;

(ग) "कुशल कार्य" से वह कार्य अभिप्रेत है जिसमें कार्य के अनुभव से अथवा शिक्षा के रूप में या किसी तकनीकी या व्यावसायिक संस्था में प्रशिक्षण के माध्यम से अर्जित कुशलता या सक्षमता अपेक्षित है जिसके पालन में स्वप्रेरणा और विवेकबुद्धि आवश्यक है।

2. इस अधिसूचना द्वारा नियत न्यूनतम दरें सर्वसम्मिलित दरें हैं जिनमें आधारी दर, जोबम निर्वाह भत्ता, आवश्यक वस्तुओं के रियायती दर पर किए गए प्रदायों, यदि कोई हों, का तकदी मूल्य सम्मिलित है तथा साप्ताहिक विश्राम के लिए देय मजदूरी भी सम्मिलित है।

3. अठारह वर्ष से कम आयु के और अमर्याद व्यक्तियों को देय मजदूरी की न्यूनतम दरें समुचित प्रवर्ग के कर्मचारों के लिए इस अधिसूचना द्वारा नियत दरों का क्रमशः 80 प्रतिशत और 100 प्रतिशत होगी।

4. इस अधिसूचना द्वारा नियत मजदूरी की न्यूनतम दरें ठेकेदारों द्वारा नियोजित कर्मचारियों को भी लागू हैं।

5. जहाँ संविदा या करार पर या अन्यथा आधारित मजदूरी की विद्यमान दरें इस अधिसूचना द्वारा नियत दरों से उच्चतर हैं वहाँ ऐसी उच्चतर दरें इस अधिसूचना के प्रयोजनार्थ न्यूनतम मजदूरी की दरें समझी जाएगी।

[एस-32019/3/83-उत्प. सी. (एम. उत्प.)]

S. O. 765(E).—Whereas certain proposals to revise the minimum rates of wages payable to the categories of employees employed in laterite mines were published as required by clause (b) of sub-section (1) of section 5 of the Minimum Wages Act, 1948 (11 of 1948), at pages 2-3 of the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 20th June, 1983 under the notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Rehabilitation (Department of Labour) number S. O. 439 (E) dated the 18th June, 1983 for information of and inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby till the expiry of the period of two months from the date of publication of the said notification in the Official Gazette;

And Whereas the said Gazette was made available to the public on the 20th June, 1983;

And Whereas the objections and suggestions received on the said proposals have been considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 3 read with clause (iii) of sub-section (1) of section 4 and sub-section (2) of section 5 of the Minimum Wages Act, 1948 (11 of 1948), and in supersession of notification of the Government of India in the Ministry of Labour number S.O. 643 (E) dated the 2nd September, 1982, the Central Government, after consulting the Advisory Board, revises the minimum rates of wages as specified in column (2) of the Schedule annexed hereto payable to the categories of employees employed in employments in laterite mines as specified in the corresponding entries in column (1) of the said Schedule and directs that this notification shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

SCHEDULE

| Classification of work | Minimum rates of wages per day |
|--|---|
| (1) | (2) |
| Unskilled : | |
| Mazdoor (male and female), chowkidar, Cleaner, Khalasi, Loader, Unloader, Excavating labour, Khannya, Sweeper, Beldar, other categories by whatever name called which are unskilled. | Rs. 9.75 (for work above ground) Rs. 11.75 (for work below ground) |

| 1 | 2 |
|---|--|
| Semi-skilled/unskilled supervisory : | |
| Assistant Driller, Mali, Miner, Mate (without competency certificate under Metalliferous Mines Regulations, 1961), Muccadam, (with competency certificate under Metalliferous Mines Regulations 1961), Head chowkidar, other categories by whatever name called which are semi-skilled/ unskilled supervisory. | Rs. 12.25 (for work above ground) Rs. 14.75 (for work below ground) |
| Skilled : | |
| Mine Supervisor, Driller, Compressor attender, Machinery attender, Blaster (shot firer), Driver, Mate (with competency certificate under Metalliferous Mines Regulations, 1961), Muccadam (with competency certificate under Metalliferous Mines Regulations, 1961), supervisory, other categories by whatever name called which are skilled. | Rs. 15.00 (for work above ground) Rs. 18.00 (for work below ground) |
| Clerical : | |
| Clerk, Munshi, Accountant, Time Keeper, Store Issuer, Typist, other categories by whatever name called which are clerical. | Rs. 15.00 |

EXPLANATIONS :

1. For the purpose of this notification :—

(a) "unskilled work" is one which involves simple operations requiring little or no skill or experience on the job;

(b) "semi-skilled work" is one which involves some degree of skill or competence acquired through experience on the job and which is capable of being performed under the supervision or guidance of skilled employee and includes unskilled supervisory work;

(c) "skilled work" is one which involves skill or competence acquired through experience on the job or through training as an apprentice or in a technical or vocational institute and the performance of which, calls for initiative and judgement.

2. The minimum rates of wages revised by this notification are all inclusive rates including the basic rate, the cost of living allowance and cash value of concessional supply, if any, of essential commodities and also includes the wages payable for the weekly rest day.

3. The Minimum rates of wages for persons below 18 years of age and for disabled persons

shall be 80% and 100 per cent respectively of the rates payable to the adult workers of the appropriate category as specified in the Schedule above.

4. The minimum rates of wages revised by this notification are applicable also to employees engaged by contractors.

5. Where the existing rates of wages based on contract or agreement or otherwise are higher than the rates fixed by this notification, the higher rates shall be treated as the minimum rates of wages applicable for the purpose of this notification.

[No. S-32019 (3)/83-WC(MW)]

अधिसूचना

का० आ० 766(अ).—मैग्नेटाइट खानों में नियोजित कर्मचारियों के प्रवर्गों को संशोधन मजदूरी की न्यूनतम दरों को निर्धारित करने के लिए कुछ प्रस्ताव, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा-5 की उपधारा (i) के खण्ड (ख) की अपेक्षानुसार, भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का० आ० 449(प्र) दिनांक 18 जून, 1982 के अधीन भारत के असाधारण राजपत्र के भाग II, खंड 3, उपखण्ड (ii) दिनांक 20 जून, 1982 के पृष्ठ 22—24 पर सभी व्यक्तियों की सूचनार्थ प्रकाशित किए गए थे, जिनमें उक्त अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से दो माह की अवधि की समाप्ति तक उन सभी व्यक्तियों से आक्षेप तथा सुझाव मांगे गए थे, जिनके उनसे प्रभावित होने की संभावना थी;

और उक्त राजपत्र 20 जून, 1982 को जनता को उपलब्ध करा दिया गया था;

और केन्द्रीय सरकार ने उक्त प्रस्तावों के संबंध में प्राप्त आक्षेपों तथा सुझावों पर विचार कर लिया है;

अतः केन्द्रीय सरकार, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा 4 की उपधारा (i) के खण्ड (iii) और धारा 5 की उपधारा (2) के साथ पठित धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और सप्ताहकार बोर्ड के साथ परामर्श करने के बाद, इसमें उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) में यथा विनिर्दिष्ट मजदूरी की न्यूनतम दरों को, जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (1) की तत्संबंधी प्रविष्टि में यथा विनिर्दिष्ट मैग्नेटाइट खानों के रोजगारों में नियोजित कर्मचारियों के प्रवर्गों को संशोधन, निर्धारित करती है और निदेश देती है कि यह अधिसूचना राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी।

अनुसूची

| कार्य का वर्गीकरण | दैनिक मजदूरी की न्यूनतम दरें |
|--|--|
| (1) | (2) |
| अकुशल : | |
| मजदूर (पुरुष और महिला) चौकीदार, क्लीनर, खलासी, अर्ध-कटर, वाहक (पथर), वाहक, माली, पैट्रोल मैन, सफेदी करने वाला, पानी घाला, पानी ले जाने वाला, अन्य प्रवर्ग चाहें वे किसी भी नाम से ज्ञात हों, जो अकुशल हैं। | 9.75 रुपये (भूमि के ऊपर कार्य के लिए) 11.75 रु० (भूमि के नीचे कार्य के लिए) |

(1)

(2)

अर्धकुशल/अकुशल पर्यवेक्षी :

“खनक, प्रेकर, फ़िलर, मिश्री, परिचर, रसोइया, धींच, आया, प्रधान चौकीदार, मूकवम, आयल-मैन, पम्प खलासी, शाटफायर, प्रधान मित्री, क्वैरीमैन, खदान प्रबालक, स्टोरमैन, स्टाकर, बायलर मैन, शेचर, थुम्बामैन, टिण्डल, डाली मैन, जमादार, बैरा, प्रैक्समैन, मवदगार (लौकी, क्रैन, ट्रक), टिम्बर मैन, जैक हेमर, माली, मेट (धातुत्पादक खान विनियम, 1961 के अधीन क्षमता प्रमाणपत्र के बिना) स्टोन कटर और ड्रेसर, चीजल मैन, अन्य प्रवर्ग चाहें वे किसी भी नाम से ज्ञात हों जो अर्धकुशल/अकुशल पर्यवेक्षी हैं।

कुशल :

लीडर, बर्दई, कम्पाउंडर, बिजली मित्री, फोरमैन, फिटर, खान पर्यवेक्षक, प्रधान रसोइया, इंजन मैन, वैल्डर, विस्फोटकर्ता, मशीनिस्ट, सबमोटरसिंगर, (प्रशिक्षित), सर्वेक्षक, प्रबालक, मेट (धातुत्पादक खान विनियम, 1961 के अधीन क्षमता प्रमाणपत्र सहित), अन्य प्रवर्ग चाहें वे किसी भी नाम से ज्ञात हों, जो कुशल प्रकृति के हैं।

लिपिकीय :

लेखाकार, लिपिक, मुंशी, स्टोर लिपिक, स्टोर इन्सुअर सामग्री देने वाला, स्टोर कीपर ग्रेड (I और II) टैलीलिपिक, टाइमकीपर, टूल कीपर, कम्प्यूटर, टंकक, ग्राणलिपिक, अभिलेख-पाल, अन्य प्रवर्ग चाहें वे किसी भी नाम से ज्ञात हों, जो लिपिकीय प्रकृति के हैं।

स्पष्टीकरण : इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए :—

1. प्रस्तावित न्यूनतम दरें सर्वसम्मिलित करें हैं जिसमें आधारी दर, जीवन निर्वाह भत्ता, आवश्यक वस्तुओं के रियायतों पर किए गए प्रदायों का यदि कोई हो, तकदी मूल्य, सम्मिलित है तथा साप्ताहिक विश्राम के लिए देय मजदूरी भी सम्मिलित है।

2. मजदूरी की न्यूनतम दरें ठेकेदारों द्वारा नियोजित कर्मचारियों को भी लागू हैं।

3. अठारह वर्ष से कम आयु के और असमर्थ व्यक्तियों के लिए मजदूरी की न्यूनतम दरें समुचित प्रवर्ग के व्यस्क कर्मचारियों की संशोधन दरों का क्रमशः 80 प्रतिशत और दो सौ प्रतिशत होंगी।

4. (क) “अकुशल कार्य” से वह कार्य अभिप्रेत है जिसमें कार्य को बहुत धोड़ी कुशलता का अनुभव अपेक्षित करने वाली या कुछ भी कुशलता या अनुभव न अपेक्षित करने वाली साधारण क्रियाएं सम्मिलित हैं।

(ख) “अर्धकुशल कार्य” से वह कार्य अभिप्रेत है जिसमें कार्य के अनुभव से अजित कुछ मात्रा में कुशलता या सदमता सम्मिलित है और जो कुशल कर्मचारी के पर्यवेक्षक या मार्ग दर्शन के अधीन किए जाने योग्य है और इसके अंतर्गत अकुशल पर्यवेक्षी कार्य भी आता है।

(ग) “कुशल कार्य” से वह कार्य अभिप्रेत है जिसमें कार्य के अनुभव से अथवा शिक्षा के माध्यम से या फिर तालीमी या व्यावसायिक संस्था में

प्रशिक्षण के माध्यम से अर्जित कुशलता या सक्षमता अपेक्षित है, जिसके पालन में स्थप्रेरणा और विवेक बुद्धि आवश्यक है।

5. जहाँ संविदा या करार पर आधारित मजदूरी की विद्यमान दरें अधिनियम के अधीन अधिसूचित दरों से उच्चतम हैं वहाँ ऐसी उच्चतर दरें संरक्षित की जाएंगी और इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए न्यूनतम मजदूरी की दरें मानी जाएंगी।

6. मैग्नेटाइट खान में काम करने वाला श्रमिक, जो उत्खनन और मैग्नेटाइट अयस्क हटाने तथा इससे सम्बद्ध कार्य में लगा है, को "अनक" माना जायेगा।

[सं० एस० 32019/3/83-डब्ल्यू० सी० (एम० डब्ल्यू०)]

NOTIFICATION

S. O. 766(E).—Whereas certain proposals to fix the minimum rates of wages payable to the categories of employees employed in Magnetite mines were published as required by clause (b) of sub-section (1) of section 5 of the Minimum Wages Act, 1948 (11 of 1948) at pages 22—24 of the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 20th June 1983 under the Notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Rehabilitation (Department of Labour) number S. O. 449 (E) dated the 18th June, 1983, for information of, and inviting objections and suggestion from all persons likely to be affected thereby, till the expiry of the period of two months from the date of publication of the said notification in the Official Gazette;

And whereas the said Gazette was made available to the public on the 20th June, 1983;

And, whereas the objections and suggestions received on the said proposals have been considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of section 3, read with clause (iii) of sub-section (1) of section 4 and sub-section (2) of section 5 of the Minimum Wages Act, 1948 (11 of 1948), the Central Government, after consulting the Advisory Board, fixes the minimum rates of wages as specified in column (2) of the Schedule annexed hereto, payable to the categories of employees employed in the employments in Magnetite mines as specified in the corresponding entries in column (1) of the said Schedule and directs that this notification shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

SCHEDULE

| Classification of work | Minimum rates of wages per day |
|--|-----------------------------------|
| (1) | (2) |
| Unskilled | |
| Mazdoor (male and female), Chowkidar, Cleaner, Khalasi, Earth- | Rs. 9.75 (for work above ground). |

| 1 | 2 |
|---|------------------------------------|
| cutter, Carrier (stone), Carrier, Mali, Petrolman, White washer, Waterman, Water carrier other categories by whatever name called which are unskilled | Rs. 11.75 (for work below ground). |

Semi-skilled/unskilled Supervisory

| | |
|---|--|
| *Miner, Breaker, Driller, Bhisti, Attendant, Cook, Creche Ayah, Head Chowkidar, Muccadam, Oilman, Pump Khalasi, Shot Firer, Head Mistry, Quarryman, Quarry Operator, Storeman, Stocker, Boilerman Thatcher, Thoombaman, Tindals, Trolleyman, Jamadar, Bearer, Breaksman, Helper (loco Crane, Truck), Timberman, Jack Hammer, Mali, Mate (without competency certificate under Metalliferous Mines Regulations, 1961), Stone cutter and Dresser, Chisel man, other categories by whatever name called which are semiskilled/unskilled supervisory. | Rs. 12.25 (for work above ground). Rs. 14.75 (for work below ground). |
|---|--|

Skilled

| | |
|---|--|
| Blacksmith, Carpenter, Compounder, Electrician, Foreman, Fitter, Mine Supervisor, Head Cook, Engine man, Welder, Machinist, Sub-overseer (Unqualified, Surveyor, Pump Operator, Operator, Mate (with competency certificate under Metalliferous Mines Regulations, 1961), other categories by whatever name called which are of skilled nature. | Rs. 15.00 (for work above ground). Rs. 18.00 (for work below ground). |
|---|--|

Clerical

| | |
|--|-----------|
| Accountant, Clerk, Munshi, Store clerk, Store issuer, Store keeper (grade I and II), Tally clerk, Time-keeper, Tool keeper, Computer, Typist, Steno, Record keeper, other categories by whatever name called which are clerical. | Rs. 15.00 |
|--|-----------|

Explanation : For the purpose of this notification :

(1) The minimum rates of wages are all inclusive rates including the basic rate, the cost of living allowance and the cash value of the concessional supply, if any, of the essential commodities and include also the wages payable for the weekly day of rest.

(2) The minimum rates of wages are applicable to employees employed by contractors also.

(3) The minimum rates of wages payable to young persons below 18 years of age and for disabled persons shall be 80 per cent and 100 per cent respectively of the rates fixed by this notification for adult workers of the appropriate category.

(4) "Unskilled work" is one which involves simple operations requiring little or no skill or experience on the job;

(b) "Semi-skilled work" is one which involves some degree of skill or competence acquired through experience on the job and which is capable of being performed under the supervision or guidance of a skilled employee and includes unskilled supervisory work;

(c) "Skilled work" is one which involves skill or competence acquired through experience on the job or through training as an apprentice in a technical or vocational institute and the performance of which calls for initiative and judgement.

(5) Where the existing rates of wages of any employee, based on contract of agreement or otherwise, are higher than the rates notified herein, the higher rates shall be treated as the minimum rates of wages applicable for the purpose of this notification to such employee.

“(6) A worker in a magnetite mine who is engaged in extraction and removal of magnetite ores as well as in other incidental jobs shall be designated as a ‘Miner’.

[No. S-32019(3)|83-WC (MW)]

का० आ० 767(अ).—वाकसाइट में नियोजित कर्मचारियों के प्रवर्गों का संश्लेष मजदूरी के न्यूनतम दरों के पुनरीक्षण के लिए कुछ प्रस्थापनाएं, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा 5 की उपधारा (1) के खंड (ख) की अपेक्षानुसार उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी, भारत सरकार के श्रम और पुनर्वसन मंत्रालय (श्रम विभाग) की अधिसूचना सं० का० आ० 444(अ) तारीख 18 जून, 1983 के अधीन भारत के राजपत्र प्रकाशित, भाग 2, खण्ड 3, उपखंड (ii) तारीख 20 जून, 1983 के पृष्ठ 11-12 पर प्रकाशित की गई थी। उक्त व्यक्तियों से उक्त अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से श्री माभ की अवधि के अवसान तक आशेष और सूझाव मांगे गए थे;

और उक्त राजपत्र 20 जून, 1983 को जनता को उपलब्ध करा दिया गया था;

और केन्द्रीय सरकार ने उक्त प्रस्थापनाओं के संबंध में प्राप्त आक्षेपों और सूझावों पर विचार कर लिया है;

अतः, केन्द्रीय सरकार, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा 1 की उपधारा (i) के खण्ड (iii) और धारा 5 की उपधारा (2) के साथ पठित धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० आ० 641(अ) तारीख 2 गिनवंबर, 1982 की अधिसूचना के अन्तर्गत और सहायक मोटे में परामर्श करने के पश्चात् वाकसाइट के नियोजन में नियोजित ऐसे कर्मचारियों के प्रवर्गों को, जो हमसे उपाखंड अनुसूची के स्तम्भ (1) तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट हैं, संश्लेष मजदूरी की न्यूनतम दरें उक्त अनुसूची के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट रूप में पुनरीक्षित करती हैं और निर्देश देती हैं कि यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी।

अनुसूची

| वर्ग का वर्गीकरण | दैनिक मजदूरी की न्यूनतम दरें |
|------------------|------------------------------|
| (1) | (2) |

अकुशल :

(1) कमीनर, (2) मजदूर (पुरुष/महिला), 9.75 रु० (भूमि के ऊपर कार्य करने के लिए)
(3) आफिस बॉय, (4) जपरामी, (5) पिकर (पुरुष/महिला), (6) झाड़ूकश, (7) बाँधमैन, 11.75 रु० (भूमि के नीचे कार्य करने के लिए)
(8) वाटर कैरियर, (9) अन्य प्रवर्ग जिन्हें किसी भी नाम से जाना हो, जो अकुशल हैं।

अर्द्धकुशल/अकुशल पर्यवेक्षी :

(1) सहायक ड्रिलर, (2) बुलडोजर खलासी, 12.25 रु० (भूमि के ऊपर कार्य करने के लिए)
(3) बड़ई मयदगार, (4) क्लर प्रचालक मयदगार, (5) कैंटीन बॉय, (6) बापशानी माली, 14.75 रु० (भूमि के नीचे कार्य करने के लिए)
(7) मेट (धातु उत्पादक खान विनियम, 1961 के अधीन क्षमता प्रमाणपत्र के बिना), (8) मुकुन्दम (धातु उत्पादक खान विनियम, 1961 के अधीन क्षमता प्रमाणपत्र के बिना), (9) नमूने लेने वाला, (10) औजार तेज करने वाला, (11) *खनक श्रेणी-2, (12) अन्य प्रवर्ग जिन्हें किसी भी नाम से जाना हो जो अर्द्धकुशल/अकुशल पर्यवेक्षी हैं।

कुशल :

(1) लीहार्, (2) विस्फोटकर्ता (शाटफायर), 15.00 रु० (भूमि के ऊपर कार्य करने के लिए)
(3) बड़ई, (4) क्लर प्रचालक, (5) कम्प्रेसर परिवार, (6) कम्प्रेसर ड्रिलर, (7) ड्रिलर, 18.00 रु० (भूमि के नीचे कार्य करने के लिए)
(8) ड्राईवर, (9) बिजला मिला, (10) फिटर, (11) मैकेनिक, (12) मेट (धातु उत्पादक खान विनियम, 1961 के अधीन क्षमता प्रमाणपत्र सहित), (13) पावर हाबेल प्रचालक, (14) पम्प ड्राईवर, (15) पावर और पम्प हाऊस प्रचालक, (16) पम्प परिवार, (17) पर्यवेक्षक, (18) ट्रेक्टर प्रचालक, (19) **खनक श्रेणी-1, (20) अन्य प्रवर्ग जिन्हें किसी भी नाम से जाना हो, जो कुशल हैं।

लिपिकीय :

(1) लिपिक, (2) मुंशी, (3) आंग्ललिपिक, 15.00 रुपये
(4) टंकक, (5) अन्य प्रवर्ग जिन्हें किसी भी नाम से जाना हो, जो लिपिकीय हैं।

स्पष्टीकरण : इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए—

1. इस अधिसूचना द्वारा प्रस्तावित न्यूनतम दरें सर्वसम्मिलित दरें हैं जिनमें आभारी दर, जीवन निर्वाह भत्ता, आवश्यक वस्तुओं के रियायती दर पर किए गए प्रदायों, यदि कोई हो, का नकदो मूल्य सम्मिलित है तथा मासिक विश्राम के लिए देय मजदूरी भी सम्मिलित है।

2. इस अधिसूचना द्वारा नियत मजदूरी की न्यूनतम दरें ठेकेदारों द्वारा नियोजित कर्मचारियों को भी लागू हैं।

3. अठारह वर्ष से कम आयु के और असमर्थ व्यक्तियों को वेतन मजदूरी की न्यूनतम दरें समुचित प्रवर्ग के व्यस्क कर्मचारियों के लिए इस अधिसूचना द्वारा निम्न दरों का क्रमशः 80 प्रतिशत और 100 प्रतिशत होंगी।

4. इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए—

- (क) "अकुशल कार्य" से वह कार्य अभिप्रेत है जिसमें कार्य की बहुत थोड़ी या अनुचित अंशित करने वाला अथवा कुछ भी कुशलता या अनुभव न अपेक्षित करने वाले माध्यामिक कर्मियों सम्मिलित है।
- (ख) "अर्धकुशल कार्य" से वह कार्य अभिप्रेत है जिसमें कार्य के अनुभव से अर्जित कुछ मात्रा में अकुशलता या सक्षमता सम्मिलित है और जो कुशल कर्मचारियों के पर्यवेक्षण या मार्गदर्शन के अधीन किए जाने योग्य है और इसके अन्तर्गत पर्यवेक्षी अकुशल कार्य भी है।
- (ग) "कुशल कार्य" से वह कार्य अभिप्रेत है जिसमें कार्य के अनुभव से अथवा शिक्षा के रूप में या किसी तकनीकी या व्यावसायिक संस्था में प्रशिक्षण के माध्यम से अर्जित कुशलता या सक्षमता अपेक्षित है जिसके पालन में स्वतंत्रता और विवेकबुद्धि आवश्यक है।

5. जहाँ संबंधित या कटारार आश्रित मजदूरों का विद्यमान दरें इस अधिसूचना द्वारा प्रस्तावित दरों से उच्चतर हैं वहाँ ऐसी उच्चतर दरें इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए न्यूनतम मजदूरी की दरें समझी जाएंगी।

* 6. बाक्सहाइट खानों में काम करने वाला श्रमिक जो शेष रहने अधिशार सामग्री हटाता है, बाक्सहाइट अवस्क निकालता है और बाक्सहाइट अवस्क को छोटे-छोटे टुकड़ों में तोड़ता है और/या बाक्सहाइट अवस्कों को विभिन्न ग्रेडों में छांटता है, को "खनक ग्रेड-II" माना जाएगा।

** 7. बाक्सहाइट खानों में काम करने वाला श्रमिक, जो बेधन या विस्फोटन या बेधन-एवं-विस्फोटन का कार्य करता है, को "खनक ग्रेड-I" माना जाएगा।

[एस-320 19/3/83-डब्ल्यू.सी. (एम. डब्ल्यू.)]

S. O. 767(E).—Whereas certain proposals to revise the minimum rates of wages payable to the categories of employees employed in Bauxite mines were published as required by clause (b) of sub-section (1) of section 5 of the Minimum Wages Act, 1948 (11 of 1948) at pages 12-13 of the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 20th June, 1983 under the notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Rehabilitation (Department of Labour) number S. O. 444 (E) dated the 18th June, 1983 for information of, and inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby till the expiry of the period of two months from the date of publication of the said notification in the Official Gazette;

And whereas the said Gazette was made available to the public on the 20th June, 1983;

And whereas the objections and suggestions received on the said proposals have been considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 3, read with clause (iii) of sub-section (1) of section 4 and sub-section (2) of section 5 of the Minimum Wages Act, 1948 (11 of 1948) and in

supersession of notification of the Government of India in the Ministry of Labour number S. O. 641 (E) dated the 2nd September, 1982, the Central Government after consulting the Advisory Board revises the minimum rates of wages as specified in column (2) of the Schedule annexed hereto, payable to the categories of employees employed in employments in Bauxite mines as specified in the corresponding entries in column (1) of the said Schedule and directs that this notification shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

SCHEDULE

| Classification of work | Minimum rates of wages per day |
|--|--|
| (1) | (2) |
| Unskilled: | |
| (1) Cleaner, (2) Mazdoor (male/female), (3) Office Boy, (4) Peon, (5) Picker (Male/Female), (6) Sweeper, (7) Watchman, (8) Water Carrier, (9) Other categories by whatever name called which are unskilled. | Rs. 9.75 (for work above ground) Rs. 11.75 (for work below ground) |
| Semi-skilled/Unskilled Supervisory: | |
| (1) Assistant Driller, (2) Bulldozer Khalasi, (3) Carpenter Helper, (4) Crusher Operator Helper, (5) Canteen Boy, (6) Garden Mali, (7) Mate (without competency certificate under Metalliferous Mines Regulations, 1961), (8) Muccadam (without competency certificate under Metalliferous Mines Regulations, 1961), (9) Sampler, (10) Tool Sharper, (11) * Miner Grade II, (12) Other categories by whatever name called which are semi-skilled/unskilled supervisory. | Rs. 12.25 (for work above ground) Rs. 14.75 (for work below ground) |
| Skilled: | |
| (1) Blacksmith, (2) Blaster, (shot firer), (3) Carpenter, (4) Crusher Operator, (5) Compressor Attendant, (6) Compressor Driller, (7) Driller, (8) Driver, (9) Electrician, (10) Fitter, (11) Mechanic, (12) Mate (with competency certificate under Metalliferous Mines Regulations, 1961), (13) Power Shovel Operator, (14) Pump Driver, (15) Power and Pump House Operator, (16) Pump Attendant, (17) Supervisor, (18) Tractor Operator, (19) Miner Grade-I**, (20) Other categories by whatever name called which are skilled. | Rs. 15.00 (for work above ground) Rs. 18.00 (for work below ground) |
| Clerical: | |
| (1) Clerk, (2) Munshi, (3) Stenographer, (4) Typist, (5) Other categories by whatever name called which are clerical. | Rs. 15.00 |

Explanations :

1. The minimum rates of wages revised by this notification are all inclusive rates including

the basic rate, the cost of living allowance and the cash value of concessional supply, if any, of essential commodities, and include also the wages payable for the weekly day of rest.

2. The minimum rates of wages fixed by this notification are applicable to employees engaged by contractors also.

3. The minimum rates of wages payable to young persons below 18 years of age and disabled persons shall be 80% and 100% respectively of the rates fixed by this notification for adult workers of the appropriate category.

4. For the purpose of this notification :—

- (a) "unskilled work" means work which involves simple operations requiring little or no skill or experience on the job;
- (b) "semi-skilled work" means work which involves some degree of skill or competence acquired through experience on the job and which is capable of being performed under the supervision or guidance of a skilled employee, and includes unskilled supervisory work ;
- (c) "skilled work" means work which involves skill or competence acquired through experience on the job or through training as an apprentice in a technical or vocational institute and the performance of which calls for initiative and judgment.

5. Where the existing rates of wages based on contract or agreement or otherwise are higher than the rates fixed by this notification, the higher rates shall be treated as minimum rate of wages for the purpose of this notification.

*6. A worker in bauxite mines who removes the left over over-burden material, extracts bauxite ores and breaks bauxite ore into small pieces and/or sorts out bauxite ores into various grades shall be regarded as a 'Miner Grade-I'.

*7. A worker in bauxite mines who performs the work of drilling or blasting or drilling-cum-blasting shall be regarded as 'Miner Grade-I'.

[No. S-32019 (3)|83-WC (MW)]

अधिसूचना

क्र० आ० 768 (अ).—जिप्सम और बाराईट्स खानों में नियोजित कर्मचारियों के प्रवर्गों को संश्लेष मजदूरी की न्यूनतम दरों के पुनरीक्षण के लिए कुछ प्रत्यापनाएँ, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) की अपेक्षानुसार उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए जिनके उसमें प्रभावित होने की संभावना थी, भारत सरकार के श्रम और पुनर्वास मंत्रालय (श्रम विभाग) की अधिसूचना सं० क्र० आ० 455 (अ) तारीख 18 जून, 1983 के 923 GI/83—8

अधीन, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) तारीख 20 जून, 1983 के पृष्ठ 34-35 पर प्रकाशित की गई थी। उक्त व्यक्तियों से उक्त अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से दो मास की अवधि के अवसान तक आक्षेप और सुझाव मांगे गए थे;

और उक्त राजपत्र 20 जून, 1983 को जनता को उपलब्ध करा दिया गया था;

और केन्द्रीय सरकार ने उक्त प्रत्यापनाओं के संबंध में प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर विचार कर लिया है;

अतः, केन्द्रीय सरकार, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (iii) और धारा 5 की उपधारा (2) के साथ पठित धारा (3) की उपधारा (i) के खण्ड द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना सं० क्र० आ० 639 (अ) तारीख 2 मिनम्बर, 1982 को अधिष्ठाते करते हुए तथा सलाहकार बोर्ड से परामर्श करने के पश्चात् जिप्सम और बाराईट्स खानों के नियोजन में नियोजित ऐसे कर्मचारियों के प्रवर्गों को, जो इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (1) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट हैं, संश्लेष मजदूरी की न्यूनतम दरें उक्त अनुसूची के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट रूप में पुनरीक्षित करती हैं और निदेश देती हैं कि यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी।

अनुसूची

| कार्य का वर्गीकरण | दैनिक मजदूरी की न्यूनतम दरें |
|-------------------|------------------------------|
| (1) | (2) |

जिप्सम खान

अकुशल :

(1) आया, (2) ब्रेकर हस्तचालित साधनों 9.75 रु० (भूमि के ऊपर का प्रयोग करने वाला), (3) क्लीनर, (4) ड्राईवर कार्य करने के लिए) बैलगाड़ी, ऊंट, गधा, या हट्ट, (5) डाक से 11.75 रु० (भूमि के जाने वाला, (6) प्रयोगशाला बाँय, (7) मजदूर नीचे कार्य करने के लिए) (पुरुष या स्त्री), (8) पिकर पुरुष या स्त्री (9) चपरासी, (10) ममूना बाँय, (11) माहकन (पुरुष या स्त्री), (12) पानी वाला या (13) चौकीदार, (14) अन्य प्रवर्गों के व्यक्ति चाहे वे किसी भी नाम से बुलाया जाता हो, जो अकुशल हैं।

अर्द्धकुशल/अकुशल पर्यवेक्षी :

(1) ब्रेकर (यांत्रिक का प्रयोग करने वाला), 12.25 रु० (भूमि के ऊपर (2) चकर, (3) रसोइया, (4) कैथर टेकर, कार्य करने के लिए) (5) औपशालय परिचर, (6) गार्डन माली, 14.75 रु० (भूमि के नीचे (7) हैल्पर बर्दई कैथर आपरेटर, (8) हलवाई, कार्य करने के लिए) (9) प्रधान चौकीदार, (10) खलासी (बूल-डोजर), (11) प्रयोगशाला परिचर, (12) मेट/मूकद्वय (धातुमय विनियम, 1961 के अधीन श्रमता प्रमाण-पत्र के बिना), (13) प्लाईवुडमैन, (14) सेम्पलर, (15) टेलीफोन परिचर, (16) अप्रशिक्षित शिक्षक परिचर, * (17) खनक, (18) अन्य प्रवर्गों के व्यक्ति चाहे उन्हें किसी भी नाम से बुलाया जाता हो, जो अर्द्धकुशल/अकुशल पर्यवेक्षी हैं।

| (1) | (2) |
|--|---|
| कुशल : | |
| (1) सहायक तम्बूना लेने वाला, (2) बाबू संपीकृत, (3) सहायक रसायनज्ञ, (4) सहायक फोरमैन, (5) लोहार, (6) बड़ई, (7) कपाड़ंबर, (8) रसायनज्ञ, (9) डीजल मैकेनिक, (10) ड्राईबर, (11) ड्रिलर, (12) नवभानवीस, (13) बिजली मिस्त्री, (14) फिटर, (15) फेरोसफ़िक और चैन मैन, (16) सेनरेटर आपरेटर, (17) लाइनमैन, (18) ठलाई फोरमैन, (19) लैप मिस्त्री, (20) राज, (21) मिडबाइफ, (22) मेट, जिसके पास धातुमय ज्ञान विनियम, 1961 के अधीन क्षमता प्रमाणपत्र है, (23) पम्प परिचर, (24) रंग-साज, (25) कुशल मजदूर, (26) शाटकायरर, (27) स्थायी इंजन परिचर, (28) शाबेल आपरेटर, (29) उप ओवरसियर, (30) पर्य-वेक्षक, (31) टर्नर, (32) टब मरम्मत करने वाला, (33) टिम्बर मैन, (34) वायर मैन, (35) वेल्डर, (36) अन्य प्रवर्गों के व्यक्ति चाहे किसी भी नाम से बुलाया जाता हो, जो कुशल हों। | 15.00 रु० (भूमि के ऊपर कार्य करने के लिए) 18.00 रु० (भूमि के नीचे कार्य करने के लिए) |

लिपिकीय :

| | |
|---|-------------|
| (1) लिपिक, (2) वाक् और बार्ड का सार-साधक, (3) मुंशी, (4) कार्यालय सहायक, (5) सामग्री देने वाला, (6) आशुलिपिक, (7) टंकक, (8) अन्य प्रवर्गों के व्यक्ति चाहे उन्हें किसी भी नाम से बुलाया जाता हो, जो कुशल हैं। | 15.00 रुपये |
|---|-------------|

बेराईट्स खान

अकुशल :

| | |
|---|--|
| (1) कल्लक, (2) ड्रेसर, (3) लोडर, (4) मजदूर (पुरुष/स्त्री), (5) चौकीदार, (6) अन्य प्रवर्गों के व्यक्ति चाहे उन्हें किसी भी नाम से बुलाया जाता हो, जो कुशल हैं। | 9.75 रु० (भूमि के ऊपर कार्य करने के लिए) 11.75 रु० (भूमि के नीचे कार्य करने के लिए) |
|---|--|

अर्द्धकुशल/अकुशल पर्यवेक्षी :

| | |
|--|---|
| (1) गार्डन माली, (2) हथोड़े वाला, (3) लोडर (पुरुष/स्त्री), (4) **खनक, (5) अन्य प्रवर्गों के व्यक्ति चाहे उन्हें किसी भी नाम से बुलाया जाता हो, जो अर्द्धकुशल/अकुशल पर्यवेक्षी हैं। | 12.25 रु० (भूमि के ऊपर कार्य करने के लिए) 14.75 रु० (भूमि के नीचे कार्य करने के लिए) |
|--|---|

कुशल :

| | |
|--|---|
| (1) बिस्फोट कर्ता (शाटकायरर), (2) संपीकृत ड्राईबर, (3) ड्रिलर, (4) अन्य प्रवर्गों के व्यक्ति चाहे उन्हें किसी भी नाम से बुलाया जाता हो, जो कुशल हैं। | 15.00 रु० (भूमि के ऊपर कार्य करने के लिए) 18.00 रु० (भूमि के नीचे कार्य करने के लिए) |
|--|---|

लिपिकीय :

| | |
|--|-------------|
| (1) लिपिक, (2) मुंशी, (3) आशुलिपिक, (4) टंकक, (5) अन्य प्रवर्गों के व्यक्ति चाहे उन्हें किसी भी नाम से बुलाया जाता हो, जो लिपिकीय हैं। | 15.00 रुपये |
|--|-------------|

स्पष्टीकरण।

1. इस अधिसूचना द्वारा प्रस्तावित न्यूनतम दरें तबसम्मिलित दरें हैं, जिनमें आधारी दर, जीवन निर्वाह भत्ता, आवश्यक वस्तुओं के रिमायनी दर पर किए गए प्रशायों का, यदि कोई हो, तकदी मूल्य सम्मिलित है तथा साप्ताहिक विश्राम के लिए देय मजदूरी भी सम्मिलित है।

2. इस अधिसूचना द्वारा नियत की गई मजदूरी की न्यूनतम दरें ठेकेदारों द्वारा नियोजित कर्मचारियों को भी लागू हैं।

3. छठारह वर्ष से कम आयु के और असमर्थ व्यक्तियों को देय मजदूरी की न्यूनतम दरें इस अधिसूचना द्वारा समुचित प्रवर्ग के व्यस्क कर्मचारियों के लिए नियत दरों का क्रमशः 80 प्रतिशत और 100 प्रतिशत होंगी।

4. इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए —

(क) "अकुशल कार्य" से वह कार्य अभिप्रेत है जिसमें कार्य की बहुत थोड़ी कुशलता करने वाली प्रत्येक कुछ भी कुशलता का अनुभव अपेक्षित न अपेक्षित करने वाली साधारण क्रियाएं सम्मिलित हैं;

(ख) "अर्द्धकुशल कार्य" से वह कार्य अभिप्रेत है जिसमें कार्य के अनुभव से अर्जित कुछ मात्रा में कुशलता या सक्षमता सम्मिलित है और जो कुशल कर्मचारी के पर्यवेक्षण का मार्ग दर्शन के अधीन किए जाने योग्य है और इसके अन्तर्गत अकुशल पर्यवेक्षी कार्य भी आता है;

(ग) "कुशल कार्य" से वह कार्य अभिप्रेत है जिसमें कार्य के अनुभव से प्रत्येक शिक्षा के रूप में या किसी तकनीकी या व्यावसायिक संस्था में प्रशिक्षण के माध्यम से अर्जित कुशलता या सक्षमता अपेक्षित है और जिसके पालन में स्वप्रेरणा और विवेकबुद्धि आवश्यक है।

5. जहाँ संविदा या करार पर आधारित मजदूरी की विद्यमान दरें इस अधिसूचना द्वारा नियत दरों से उच्चतर हैं वहाँ इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए ऐसी उच्चतर दरें न्यूनतम मजदूरी की दरें मानी जाएगी।

*(6) जिप्सम खान में काम करने वाला श्रमिक, जो अधिभार हटाने और जिप्सम के उत्खनन के कार्य में लगा है, "खनक" माना जाएगा।

*(7) बेराईट्स खानों में नियोजित वे श्रमिक "खनिक" माने जाएंगे, जो बेराईट्स घटक के उत्खनन, तोड़ने, चयन करने/वर्गीकरण तथा ड्रेसिंग के कार्य करने के लिए नियोजित किए गए हैं तथा बेराईट्स खानों के बेड/रॉफ पर उसी व्यक्ति द्वारा हमके अन्य प्राथमिक कार्य किए जाते हैं।

[सं० एस-32019/3/83-डब्ल्यू० सी० (एम० डब्ल्यू०)]

NOTIFICATION

S.O. 768(E).—Whereas certain proposals to revise the minimum rates of wages payable to the categories of employees employed in Gypsum and Barytes Mines were published as required by clause (b) of sub-section (1) of section 5 of the Minimum

Wages Act, 1948 (11 of 1948) at pages 35-37 of that Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-Section (ii), dated the 20th June, 1983 under the notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Rehabilitation (Department of Labour) number S.O. 455(E) dated the 18th June, 1983 for information of and inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby, till the expiry of the period of two months from the date of publication of the said notification in the Official Gazette;

And whereas the said Gazette was made available to the public on the 20th June, 1983:

And whereas the objections and suggestions received on the said proposals have been considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 3, read with clause (iii) of sub-section (1) of Section 4 and sub-section (2) of section (5) of the Minimum Wages Act, 1948 (11 of 1948) and in supersession of notification of the Government of India in the Ministry of Labour number S.O. 639(E) dated the 2nd September, 1982, the Central Government after consulting the Advisory Board, revises the minimum rates of wages as specified in column (2) of the Schedule annexed hereto, payable to the categories of employees employed in employments in Gypsum and Barytes Mines as specified in the corresponding entries in column (1) of the said Schedule and directs that this notification shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

SCHEDULE

| Classification of work | Minimum rates of wages per day |
|--|--|
| (1) | (2) |
| Gypsum Mines | |
| Unskilled | |
| (1) Ayah, (2) Breaker (using manual appliances), (3) Cleaner, (4) Driver (Bullock cart, camel, Donkey or mule), (5) Dak runner, (6) Laboratory boy, (7) Mazdoor (male/female), (8) Picker (male/female), (9) Peon, (10) Sample boy, (11) Sweeper, (male/female), (12) Waterman, (13) Watchman, (14) Other categories by whatever name called which are unskilled | Rs. 9.75 (for work above ground) Rs. 11.75 (for work below ground) |
| Semi-skilled/unskilled supervisory | |
| (1) Breaker (using mechanical appliances) (2) Checker, (3) Cook, (4) Caretaker, (5) Dispensary attendant, (6) Gardener/Mali, (7) Helper (carpenter, Crusher Operator), (8) Halwai, (9) Head Chowkidar (10) Khalaasi (Bulldozer), (11) Laboratory | Rs. 12.25 (for work above ground) Rs. 14.75 (for work below ground) |

| (1) | (2) |
|--|--|
| attendant, (12) Mate/Muccadam (without competence certificate under Metalliferous Mines Regulation, 1961), (13) Pointsmen, (14) Sampler, (15) Telephone attendant, (16) Untrained Creche Attendant, (17) Miner, (18) Other categories by whatever name called which are semi-skilled or unskilled supervisory. | |
| Skilled | |
| (1) Assistant sample taker, (2) Air Compressor Attendant (3) Assistant Chemist, (4) Assistant Foreman, (5) Black-smith, (6) Carpenter, (7) Compounder, (8) Chemist, (9) Diesel Mechanic, (10) Driver, (11) Driller, (12) Draughtsman, (13) Electrician, (14) Fitter, (15) Ferro printer-cum-Chairman, (16) Generator Operator, (17) Locomotive, (18) Loading Foreman, (19) Lathe Mistry, (20) Mason, (21) Midwife, (22) Mate, (with competency certificate under Metalliferous Mines Regulation, 1961), (23) Pump Attendant, (24) Painter, (25) Skilled Mazdoor, (26) Shot firer, (27) Stationary Engine Attendant, (28) Shovel Operator, (29) Sub-overseer, (30) Supervisory, (31) Turner, (32) Tub-repairer, (33) Timberman, (34) Wireman, (35) Welder, (36) Other categories by whatever name called which are skilled. | Rs. 15.00 (for work above ground) Rs. 18.00 (for work below ground) |
| Clerical : | |
| (1) Clerk, (2) Incharge Watch and Ward, (3) Munshi, (4) Office Assistant, (5) Store Issuer, (6) Stenographer, (7) Time-keeper, (8) Typist, (9) Other categories by whatever name called which are clerical. | Rs. 15.00 |
| Barytes Mines | |
| Unskilled : | |
| (1) Chipper, (2) Dresser, (3) Loader, (4) Mazdoor (male/female), (5) Watchman, (6) Other categories by whatever name called which are unskilled. | Rs. 9.75 (for work above ground) Rs. 11.75 (for work below ground) |
| Semi-skilled/unskilled Supervisory : | |
| (1) Gardener/Mali, (2) Hammerman, (3) Loader (male/female), (4) ** Miner, (5) Other categories by whatever name called which are semi-skilled/unskilled supervisory. | Rs. 12.25 (for work above ground) Rs. 14.75 (for work below ground) |
| Skilled : | |
| (1) Blaster (shot-firer), (2) Compressor Driver, (3) Driller, (4) Other categories by whatever name called which are skilled. | Rs. 15.00 (for work above ground) Rs. 18.00 (for work below ground) |
| Clerical : | |
| (1) Clerk, (2) Munshi, (3) Stenographer, (4) Typist, (5) Other categories by whatever name called which are clerical. | Rs. 15.00 |

Explanations :

1. The minimum rates of wages fixed by this notification are all inclusive rates including the basic rate, the cost of living allowance and cash value of the concessional supply, if any, of essential commodities and include also the wages payable for the weekly day of rest.

2. The minimum rates of wages fixed by this notification are applicable to employees engaged by contractors also.

3. The minimum rates of wages payable to young persons below 18 years of age and disabled persons shall be 80 per cent and 100 per cent respectively of the rates fixed by this notification for adult workers of appropriate category.

4. For the purpose of this notification :—

(a) 'Unskilled work' means work which involves simple operations requiring little or no skill or experience on the job;

(b) 'semi-skilled work' means work which involves some degree of skill or competence acquired through experience on the job and which is capable of being performed under the supervision or guidance of a skilled employee and includes unskilled supervisory work;

(c) 'skilled work' means work which involves skill or competence acquired through experience on the job or through training or an apprentice in a technical or vocational institute and the performance of which calls for initiative and judgment.

5. Where the existing rates of wages based on contract or agreement or otherwise are higher than the rates fixed by this notification, the higher rates shall be treated as minimum rates of wages for the purpose of this notification.

*6. Worker in a gypsum mine is engaged in the removal of overburden and excavation of gypsum shall be regarded as a 'Miner'.

**7. Workers engaged in barytes mines for excavating, breaking, picking/sorting and dressing of barytes ores or for doing other works incidental thereto performed by the same person at barytes mines bed/roof, shall be regarded as 'Miner'.

[S-32019/3/83-WC(MW)]

का० भा० 769(अ).—सैगनीज खानों में नियोजित कर्मचारियों के प्रवर्गों को संदेय मजदूरी की न्यूनतम दरों के पुनरीक्षण के लिए कुछ प्रस्तापनाएँ, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा 5 की उपधारा (1) के खंड (ख) की अपेक्षानुसार उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी, भारत सरकार के श्रम और पुनर्वास मंत्रालय (श्रम विभाग) की अधिसूचना सं० का० भा० 443 (अ) तारीख 18 जून, 1983 के अधीन, भारत के राजपत्र असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) तारीख

20 जून, 1983 के पृष्ठ 9-10 पर प्रकाशित की गई थी। उक्त व्यक्तियों से उक्त अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से दो मास की अवधि के अवकाश तक आशेष और सुमाव मांगे गए थे ;

और उक्त राजपत्र 20 जून, 1983 को जनता को उपलब्ध करा दिया गया था ;

और केन्द्रीय सरकार ने उक्त प्रस्तापनाओं के संबंध में प्राप्त आशेषों और सुमावों पर विचार कर लिया है ;

अतः, केन्द्रीय सरकार, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा 4 की उपधारा (1) के खंड (iii) और धारा 5 की उपधारा (2) के साथ पठित धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रयुक्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० भा० 636 (अ) तारीख 2 सितम्बर 1982 को अधिसूचित करते हुए तथा सप्ताहवार बोनस से परामर्श करने के पश्चात् सैगनीज खानों के नियोजित में नियोजित ऐसे कर्मचारियों के प्रवर्गों को, जो इससे उपाखंड अनुसूची के स्तम्भ (1) की तत्समावसीय प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट हैं, संदेय मजदूरी की न्यूनतम दरें उक्त अनुसूची के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट रूप में पुनरीक्षित करती है और निदेश देती है कि यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवर्त होगी।

अनुसूची

कार्य का वर्गीकरण

दैनिक मजदूरी की न्यूनतम दरें

1

2

सैगनीज खानें

अकुशल :

- (1) आया, (2) बटलर, (3) अभिरक्षक, 9.75 रु० (भूमि के ऊपर
(4) चौकीदार, (5) क्लीनर, (6) कार्य करने के लिए)
ड्रेसर, (7) श्रमिक, (8) सवाई करने 11.75 रु० (भूमि के नीचे
वालों, (9) मजदूर (पुरुष/महिला), (10) कार्य करने के लिए)
संवेतवाहक, (11) रूम रटेकर, (12) आपित
धाम, (13) चपरासी, (14) फिकर,
(पुरुष/महिला), (15) साट्टर, (16)
साइकल (पुरुष/महिला), (17) ड्रेपर,
(18) ट्राली मैन, (19) ट्राली ड्रिपर, (20)
वाटर कैरियर, (21) अन्य प्रवर्ग कोई चाहे
उसका कोई भी नाम हो, जो अकुशल है।

अर्द्धकुशल/अकुशल पर्यवेक्षी :

- (1) बैकमैन, (2) ब्रेक्समैन, (3) केश गार्ड, 12.25 रु० (भूमि के ऊपर
(4) चेकर, (5) रसोइया, (6) छोटी कार्य करने के लिए)
(पुरुष/महिला), (7) फायर मैन, (8) फ्रीजर, 14.75 रु० (भूमि के नीचे
(9) ग्राइन्डर, (10) हथौड़ा चलाने, वाला कार्य करने के लिए)
(11) मयदगार, (बढ़ई, केसर प्रवालक,
(12) जमादार, (13) खलासी,
(बुलडोजर आदि), (14) सैम्पलर भार-
साधक, (15) सैट/मास्ती (धातुपादक धातु
बिनियम, 1961 के अधीन क्षमता
प्रमाणपत्र के बिना), (16) आयलर,
(17) प्वाइंट मैन, (18) सैम्पलर, (19) स्टोर
मैन, (20) खनक, (21) अन्य प्रवर्ग चाहे
उसका कोई भी नाम हो, जो अर्द्ध कुशल/
अकुशल पर्यवेक्षी है।

| (1) | (2) |
|---|---|
| कुशल: | |
| (1) अंगर (2) लोहार (3) विस्फोट-कर्ता (शाट फायरर) (4) बड़ई (5) चार्जमैन (6) रसायनज्ञ (7) कम्पाउण्डर (8) फ्रेव परिवारक (9) नक्शानवीक्ष (10) ड्रिजर (11) ड्राइवर (12) बिजली मिस्त्री (13) फिटर (14) फोरमैन (15) मिस्त्री (16) सैकेनिक (17) मिडवाइफ (18) राज (19) मोल्डर (20) चालक (21) ओवरसियर (22) पेन्टर (23) पाइप फिटर (24) पर्यवेक्षी (25) सर्वेक्षक (26) टिन स्मिथ (27) टिम्बर मैन (28) टर्नर (29) वेल्डर (30) वायर मैन (31) वर्क सरकार (32) अन्य प्रवर्ग चाहे उनका कोई भी नाम हो, जो कुशल हैं। | 15.00 रु० (भूमि के ऊपर कार्य करने के लिए) 18.00 रु० (भूमि के नीचे कार्य करने के लिए) |

लिपिकीय :

| | |
|--|-------------|
| (1) रोकड़िया (2) लिपिक (3) रजिस्टर पाल (4) भंडारी (5) शिक्षक (6) टाइम कीपर (7) टंकक (8) अन्य प्रवर्ग चाहे उनका कोई भी नाम हों, जो लिपिकीय हैं। | 15.00 रुपये |
|--|-------------|

इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए स्पष्टीकरण :—

(1) न्यूनतम दरें सर्वसम्मिलित दरें हैं जिनमें आधारी दर, जीवन निर्वाह भत्ता, आवश्यक वस्तुओं के रिमायती दर पर किए गए प्रदायों, यदि कोई हो, का नफ्दी मूल्य सम्मिलित है तथा साप्ताहिक विश्राम के लिए देय मजदूरी भी सम्मिलित है।

(2) मजदूरी की न्यूनतम दरें ठेकेदारों द्वारा नियोजित कर्मचारियों को भी लागू हैं।

(3) अठारह वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को और निष्कृत व्यक्तियों को देय मजदूरी की न्यूनतम दरें समूचित प्रवर्ग के कर्मचारियों के लिए इस अधिसूचना द्वारा नियत दरों का क्रमशः 80 प्रतिशत और 100 प्रतिशत होगी।

(4) (क) 'अकुशल कार्य' से वह कार्य अभिप्रेत है जिसमें बहुत थोड़ी कुशलता या अनुभव अपेक्षित करने वाली या कुछ भी कुशलता अथवा अनुभव अपेक्षित न करने वाली साधारण क्रियाएं सम्मिलित हैं ;

(ख) 'अर्द्धकुशल कार्य' से वह कार्य अभिप्रेत है जिसमें कार्य के अनुभव से अर्जित कुछ मात्रा में कुशलता या सक्षमता सम्मिलित है और जो कुशल कर्मचारी पर्यवेक्षण के मार्ग दर्शन के अधीन किए जाने योग्य है और इसके अन्तर्गत अकुशल पर्यवेक्षी कार्य भी आता है ;

(ग) 'कुशल कार्य' से वह कार्य अभिप्रेत है जिसमें कार्य के अनुभव से अथवा शिक्षा के रूप में किसी तकनीकी या व्यावसायिक संस्था में प्रशिक्षण के माध्यम से अर्जित कुशलता या सक्षमता अपेक्षित है जिसके पालन में स्वप्रेरणा और विवेकबुद्धि आवश्यक है।

5. जहां आधारी मजदूरी की विद्यमान दरें इस अधिसूचना द्वारा नियत दरों से उच्चतर हैं वहां ऐसी उच्चतर दरें इस अधिसूचना के प्रयोजनार्थ ऐसे कर्मचारियों को लागू न्यूनतम मजदूरी की दरें समझी जाएंगी।

(6) मैंगनीज अयस्क के उत्खनन के लिए मैंगनीज खानों में नियोजित वे श्रमिक "खनिक" माने जाएंगे, जो अयस्क के उत्खनन, ताड़ने वर्गीकरण या ट्रेसिंग-कार्य करते हैं तथा मैंगनीज बंदूरीफ पर इसके अन्य आनुषंगिक कार्य भी उसी व्यक्ति द्वारा किए जाते हैं।

[एस-32019/3/83-डब्ल्यू०सी० (एम० डब्ल्यू०)]
विश्वम्भर नाथ, अवर सचिव

S.O. 769(E).—Whereas certain proposals to revise the minimum rates of wages payable to the categories of employees employed in manganese mines were published as required by clause (b) of sub-section (1) of section 5 of the Minimum Wages Act, 1948 (11 of 1948) at pages 10-11 of the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 20th June, 1983 under the notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Rehabilitation (Department of Labour) number S.O. 443(E) dated the 18th June, 1983 for information of, and inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby till the expiry of the period of two months from the date of publication of the said notification in the Official Gazette;

And whereas the said Gazette was made available to the public on the 20th June, 1983 ;

And whereas the objections and suggestions received on the said proposals have been considered by the Central Government.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 3 read with clause (iii) of sub-section (1) of section 4 and sub-section (2) of section 5 of the Minimum Wages Act, 1948 (11 of 1948) and in supersession of notification of the Government of India in the Ministry of Labour number S.O. 636(E) dated the 2nd September, 1982 the Central Government, after consulting the Advisory Board, revises the minimum rates of wages as specified in column (2) of the Schedule annexed hereto payable to the categories of employees employed in employments in manganese mines as specified in the corresponding entries in column (1) of the said Schedule and directs that this notification shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

THE SCHEDULE

| Classification of work | Minimum rates of wages per day |
|--|--------------------------------|
| (1) | (2) |
| Manganese Mines | |
| Unskilled | |
| (1) Ayah, (2) Butler, (3) Caretaker, (4) Chowkidar, (5) Cleaner (6) Dresser, above ground) | Rs. 9.75 (for work |
| (7) Labourer, (8) Loader, (9) Mazdoor (male/female), (10) Messenger, (11) Num- | Rs. 11.75 (for |
| bertaker, (12) Office boy, (13) Peon, (14) work below ground), | |
| Picker (male/female), (15) Sorter, | |

| (1) | (2) | Explanations for the purpose of this notification : |
|--|--|---|
| (16) Sweeper (male/female), (17) Trammer, (18) Trolleyman, (19) Trolley triper, (20) Water carrier, (21) Other categories by whatever name called which are unskilled. | | |
| Semi-skilled/Unskilled supervisory | | |
| (1) Bankman, (2) Brakesman, (3) Cash guards, (4) Checker, (5) Cook, (6) Dhobi (male/female), (7) Fireman, (8) Greaser, (9) Grinder (10) Hammerman, (11) Helper, (carpenter crusher, operator), (12) Jamadar, (13) Kbalasi (bulldozer etc.), (14) Lamp room incharge, (15) Mate/Mali (without competency certificate under Metalliferous Mines Regulations, 1961), (16) Oiler, (17) Pointsman, (18) Sampler, (19) Storeman, (20)* Miner, (21) Other categories by whatever name called which are semi-skilled/unskilled supervisory. | Rs. 12.25 (for work above ground) Rs. 14.75 (for work below ground) | |
| Skilled | | |
| (1) Asayer, (2) Blacksmith, (3) Blaster (shot firer), (4) Carpenter, (5) Compounder, (6) Creche attendant, (7) Chemist, (8) Chageman, (9) Draughtsman, (10) Driller, (11) Driver, (12) Electrician, (13) Fitter, (14) Foreman, (15) Mason, (16) Mechanic, (17) Midwife, (18) Mistry, (19) Moulder, (20) Operator, (21) Overseer, (22) Painter, (23) Pipe-fitter, (24) Supervisor, (25) Surveyor (26) Tin-smith, (27) Timberman, (28) Turner, (29) Welder, (30) Wireman, (31) Work-sarkar, (32) Other categories by whatever name called which are skilled. | Rs. 15.00 (for work above ground) Rs. 18.00 (for work below ground) | |
| Clerical | | |
| (1) Cashier, (2) Clerk, (3) Register-keeper, (4) Store-keeper, (5) Teacher, (6) Time-keeper, (7) Typist, (8) Other categories by whatever name called which are clerical. | Rs. 15.00 | |

Explanations for the purpose of this notification :

(1) The minimum rates of wages are all inclusive rates including the basic rates; the cost of living allowance and the cash value of the concessional supply, if any, of essential commodities and includes also the wages payable for the weekly day of rest.

(2) The minimum rates of wages are applicable to employees employed by contractors also.

(3) The minimum rates of wages for young persons below 18 years of age and disabled persons shall be 80 per cent and 100 per cent respectively of the rates fixed by this notification for adult workers of the appropriate category.

(4) (a) "Unskilled" work means work which involves simple operations requiring little or no skill or experience on the job;

(b) "Semi-skilled" work means work which involves some degree of skill or competence acquired through experience on the job and which is capable of being performed under the supervision or guidance of a skilled employee and includes unskilled supervisory work;

(c) "Skilled work" means work which involves skill or competence acquired through experience on the job or through training as an apprentice in a technical or vocational institute and the performance of which calls for initiative and judgement:

(5) Where the prevailing rates of wages of any employee is higher than the rates notified herein, the higher wages shall be treated as the minimum rates of wages applicable for the purpose of this notification to such employees.

(6)* Workers engaged in manganese mines for extraction of manganese ores which they do by excavating, breaking, sorting of dressing of ores and other work incidental thereto performed by the same person at manganese bed/reef shall be regarded as 'minor'.

[S-32019/3/83-WC(MW)]

BISHAMBHAR NATH, Under Secy.